

# पविलता (ब्रह्मचर्य)

## विषय सूची

1. पविलता की परिभाषा तथा उसका महत्व
2. पविलता में आँखों का महत्व और नाम-रूप की ग्रहचारी
3. कलियुगी पतित दुनिया की परिस्थिति
4. पविलता- कुमारियों के संदर्भ में
5. पविलता-कुमारों के संदर्भ में
6. पविलता- माताओं के संदर्भ में
7. पविलता-गृहस्थियों के संदर्भ में
8. पविलता- अधर कुमारों (पाण्डवों) के संदर्भ में
9. पविलता- सन्यासियों के सन्दर्भ में
10. पविलता- वेश्याओं के संदर्भ में
11. पविलता- बच्चों के संदर्भ में
12. पविलता- आदि सो अंत
13. पविलता- कैसे?
14. पविलता और बच्चों की पैदाइश
15. पविलता और पोतामेल
16. पविलता से संबंधित फुटकर प्वाइंट्स

### पविलता की परिभाषा तथा उसका महत्व:-

- "पविलता संगमयुगी ब्राह्मणों के महान जीवन की महानता है। पविलता ब्राह्मण जीवन का श्रेष्ठ श्रृंगार है। जैसे स्थूल शरीर में विशेष श्वाँस चलना आवश्यक है। श्वाँस नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे ब्राह्मण जीवन का श्वाँस है पविलता। 21 जन्मों की प्रालब्ध का आधार अर्थात् फाउण्डेशन पविलता है। आत्मा अर्थात् बच्चे और (बेहद के) बाप से मिलन का आधार पविल बुद्धि है। सर्व संगमयुगी प्राप्तियों का आधार पविलता है। पविलता, पूज्य पद पाने का आधार है।.....जहाँ सर्वशक्तिवान बाप है वहाँ

अपविलता स्वप्र में भी नहीं आ सकती है। .....ब्राह्मणों की लाइफ ही पविलता है। ब्राह्मण जीवन का जीय -दान ही पविलता है। आदि-अनादि स्वरूप ही पविलता है। जब सृति आ गई कि मैं आदि-अनादि पविल आत्मा हूँ। सृति आना अर्थात् पविलता की समर्थी आना। तो सृति स्वरूप, समर्थ स्वरूप आत्माएँ तो निजी पविल संस्कार वाली, निजी संस्कार पविल हैं। ...ब्राह्मण जीवन अर्थात् सहज योगी और सदा के लिए पावन। पविलता ब्राह्मण जीवन के विशेष जन्म की विशेषता है। पविल संकल्प ब्राह्मणों की बुद्धि का भोजन है। पविल दृष्टि ब्राह्मणों के आँखों की रोशनी है। पविल कर्म ब्राह्मण जीवन का विशेष धन्धा है। पविल सम्बन्ध और सम्पर्क ब्राह्मण जीवन की मर्यादा है।" (अ.वा.06.1.82 पृ.218 मध्य, 219 आदि-मध्य)

- "संगमयुगी ब्राह्मण जीवन की विशेषता है- पविलता की निशानी यह लाइट का ताज, जो हर ब्राह्मण आत्मा को बाप द्वारा प्राप्त होता है। पविलता की लाइट का यह ताज उस रत्न-जड़ित ताज से अति श्रेष्ठ है। महान आत्मा, परमात्म-भाग्यवान आत्मा, ऊँचे ते ऊँची आत्मा की यह ताज निशानी है।.....पविलता की प्राप्ति आप ब्राह्मण आत्माओं को उड़ती कला की तरफ सहज ले जाने का आधार है। जैसे कर्मों की गति गहन गाई हुई है, तो पविलता की परिभाषा भी अति गुह्य है। पविलता माया के अनेक विघ्नों से बचने की छलछाया है। पविलता को ही सुख-शान्ति की जननी कहा जाता है। किसी भी प्रकार की अपविलता, दुःख वा अशान्ति का अनुभव कराती है। ...चाहे मुख्य विकारों के कारण हो वा विकारों के सूक्ष्म रूप के कारण हो। .....पविल जीवन अर्थात् बापदादा द्वारा प्राप्त हुई वरदानी जीवन है। ब्राह्मणों के संकल्प में वा मुख में यह शब्द क भी नहीं होने चाहिए कि इस बात के कारण वा इस व्यक्ति के व्यवहार के कारण मुझे दुःख होता है। कभी साधारण रीति में ऐसे बोल, बोल भी देते या अनुभव भी करते हैं। यह पविल ब्राह्मण जीवन के बोल नहीं हैं। ब्राह्मण जीवन अर्थात् हर सेकेण्ड सुखमय जीवन। चाहे दुःख का नज़ारा भी हो; लेकिन जहाँ पविलता की शक्ति है, वह कभी दुःख के नज़ारे में दुःख का अनुभव नहीं करेंगे; लेकिन दुःख-हर्ता सुख-कर्ता बाप समान दुःख के वायुमण्डल में दुःखमय व्यक्तियों को सुख-शान्ति के वरदानी बन सुख-शांति की अंचली देंगे, मास्टर सुख-कर्ता बन दुःख को रुहानी सुख के वायुमण्डल में परिवर्तन करेंगे। इसी को ही कहा जाता है- दुःख-हर्ता सुख-कर्ता।.....समय प्रमाण जब आज के व्यक्ति दवाइयों से कारणे -अकारणे तंग होंगे, बीमारियाँ अति में जाएँगी तो समय पर आप पविल देव वा देवियों के पास दुआ लेने लिए आएँगे कि हमें दुःख -अशान्ति से सदा के लिए दूर करो। पविलता की दृष्टि-वृत्ति साधारण शक्ति नहीं है। यह थोड़े समय की शक्तिशाली दृष्टि वा वृत्ति सदाकाल की प्राप्ति कराने वाली है।" (अ.वा.14.11.87 पृ.132 मध्य, 133 आदि-अंत)

- "ब्राह्मण बनना अर्थात् पूज्य बनना; क्योंकि ब्राह्मण सो देवता होते हैं और देवताएँ अर्थात् पूजनीय। सभी देवताएँ पूजनीय तो हैं, फिर भी नम्बरवार ज़रूर हैं। किन देवताओं की पूजा विधिपूर्वक और नियमित रूप से होती है और किन्हीं की पूजा विधिपूर्वक नियमित रूप से नहीं होती। किन्हों के हर कर्म की पूजा होती है और किन्हों के हर कर्म की पूजा नहीं होती है। कोई का विधिपूर्वक हर रोज़ श्रृंगार होता है और कोई का श्रृंगार रोज़ नहीं होता है, ऊपर-2 से थोड़ा-बहुत सजा लेते हैं, लेकिन विधिपूर्वक नहीं। कोई के आगे सारा समय कीर्तन होता और कोई के आगे कभी -2 कीर्तन होता है। इन सभी का कारण क्या है? .....पूजनीय बनने का विशेष आधार पविलता के ऊपर है। जितना सर्व प्रकार की पविलता को अपनाते हैं, उतना ही सर्व प्रकार के पूजनीय बनते हैं और जो निरन्तर विधिपूर्वक आदि-अनादि विशेष गुण के रूप से पविलता को सहज अपनाते हैं, वही विधिपूर्वक पूज्य बनते हैं। सर्व प्रकार की पविलता क्या है? जो आत्माएँ सहज, स्वतः हर संकल्प में, बोल में, कर्म में सर्व अर्थात् ज्ञानी और अज्ञानी आत्माएँ, सर्व के सम्पर्क में सदा पविल वृत्ति, दृष्टि, वायब्रेशन से यथार्थ सम्पर्क-सम्बन्ध निभाते हैं- इसको ही

सर्व प्रकार की पवित्रता कहते हैं। स्वप्र में भी स्वयं के प्रति या अन्य कोई आत्मा के प्रति सर्व प्रकार की पवित्रता में से कोई कमी न हो। मानो स्वप्र में भी ब्रह्मचर्य खण्डित होता है वा किसी आत्मा के प्रति किसी भी प्रकार की ईर्ष्या, आवेशता के वश कर्म होता या बोल निकलता है, क्रोध के अंश रूप में भी व्यवहार होता है तो इसको भी पवित्रता का खण्डन माना जाएगा। सोचो, जब स्वप्र का भी प्रभाव पड़ता है तो साकार में किए हुए कर्म का कितना प्रभाव पड़ता होगा! इसलिए खण्डित मूर्ति कभी पूजनीय नहीं होती। खण्डित मूर्तियाँ मन्दिरों में नहीं रहतीं, आजकल के म्यूज़ियम में रहती हैं। वहाँ भक्त नहीं आते। सिर्फ यही गायन होता है कि बहुत पुरानी मूर्तियाँ हैं, बस। उन्होंने स्थूल अंगों के खण्डन को खण्डित कह दिया है; लेकिन वास्तव में किसी भी प्रकार की पवित्रता का खण्डन होता है तो वह पूज्य पद से खण्डित हो जाते हैं। ऐसे, चारों प्रकार की पवित्रता विधिपूर्वक है तो पूजा भी विधिपूर्वक होती है। .....पूज्य, पवित्र आत्माओं की निशानी यही है- उन्होंकी चारों प्रकार की पवित्रता स्वाभाविक, सहज और सदा होगी। उनको सोचना नहीं पड़ेगा; लेकिन पवित्रता की धारणा स्वतः ही यथार्थ संकल्प, बोल, कर्म और स्वप्र लाती है। यथार्थ अर्थात् एक तो युक्तियुक्त, दूसरा यथार्थ अर्थात् हर संकल्प में अर्थ होगा, बिना अर्थ नहीं होगा। ऐसे नहीं कि ऐसे में बोल दिया, निकल गया, कर लिया, हो गया। ऐसी पवित्र आत्मा सदा हर कर्म में अर्थात् दिनचर्या के हर कर्म में यथार्थ युक्तियुक्त रहती है। इसलिए पूजा भी उनके हर कर्म की होती है अर्थात् पूरे दिनचर्या की होती है। उठने से लेकर सोने तक भिन्न-2 कर्म के दर्शन होते हैं। .....पवित्रता की धारणा बहुत महीन बात है। पवित्रता के आधार पर ही कर्म की विधि और गति का आधार है। पवित्रता सिर्फ मोटी बात नहीं है। ब्रह्मचारी रहे या निर्मोही हो गए- सिर्फ इसको ही पवित्रता नहीं कहेंगे। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है। तो हर समय पवित्रता के श्रृंगार की अनुभूति चेहरे से, चलन से औरों को हो। इष्टि में, मुख में, हाथों में, पाँवों में सदा पवित्रता का श्रृंगार प्रत्यक्ष हो। कोई भी चेहरे तरफ देखे तो फीचर्स से उन्हें पवित्रता अनुभव हो। जैसे और प्रकार के फीचर्स वर्णन करते हैं, वैसे यह वर्णन करें कि इनके फीचर्स से पवित्रता दिखाई देती है, नयनों में पवित्रता की झलक है, मुख पर पवित्रता की मुस्कराहट है।" (अ.वा.17.10.87 पृ.86 अंत, 87 आदि, 88 आदि-अंत)

- वास्तव में याद वा सेवा की सफलता का आधार है- पवित्रता। सिर्फ ब्रह्मचारी बनना- यह पवित्रता नहीं; लेकिन पवित्रता का सम्पूर्ण रूप है- ब्रह्मचारी के साथ-2 ब्रह्मचारी बनना। ब्रह्मचारी अर्थात् ब्रह्मा के आचरण पर चलने वाले, जिसको फॉलो फादर कहा जाता है; क्योंकि फॉलो ब्रह्मा बाप को करना है। शिव बाप के समान स्थिति में बनना है; लेकिन आचरण वा कर्म में ब्रह्मा बाप को फॉलो करना है। हर कदम में ब्रह्मचारी। ब्रह्मचर्य व्रत सदा संकल्प और स्वप्र तक हो। पवित्रता का अर्थ है- सदा बाप को कम्पैनियन(साथी) बनाना और बाप की कम्पनी में सदा रहना। कम्पैनियन बना दिया, "मेरा बाबा"- यह भी आवश्यक है; लेकिन हर समय कम्पनी भी बाप की रहे। इसको कहते हैं सम्पूर्ण पवित्रता। .....परिवार का प्यार, परिवार का संगठन बहुत अच्छा है; लेकिन परिवार का बीज नहीं भूल जाए। बाप को भूल परिवार को ही कम्पनी बना देते हैं। बीच-2 में बाप को छोड़ा तो खाली जगह हो गई। वहाँ माया आ जाएगी। इसलिए सेह में रहते, सेह देते-लेते समूह को नहीं भूलें। इसको कहते हैं पवित्रता। .....कई बच्चों को सम्पूर्ण पवित्रता की स्थिति में आगे बढ़ने में मेहनत लगती है। इसलिए बीच-2 में कोई को कम्पैनियन बनाने का भी संकल्प आता है और कम्पनी भी आवश्यक है- यह भी संकल्प आता है। सन्न्यासी तो नहीं बनना है; लेकिन आत्माओं की कम्पनी में रहते बाप की कम्पनी को भूल नहीं जाओ, नहीं तो समय पर उस आत्मा की कम्पनी याद आएगी और बाप भूल जाएगा। तो समय पर धोखा मिलना सम्भव है; क्योंकि साकार शरीरधारी के सहरे की आदत होगी तो अव्यक्त बाप और निराकार बाप पीछे याद आएगा, पहले शरीरधारी याद आएगा। अगर किसी भी समय पहले साकार का

सहारा याद आया तो नम्बरवन वह हो गया और दूसरा नम्बर बाप हो गया। जो बाप को दूसरे नम्बर में रखते तो उसको पद क्या मिलेगा- नम्बरवन(एक) वा टू(दो)? सिर्फ सहयोग लेना, सेही रहना वह अलग चीज़ है; लेकिन सहारा बनाना अलग चीज़ है। यह बहुत गुह्य बात है। इसको यथार्थ रीति से जानना पड़े। कोई-2 संगठन में सेही बनने के बजाय न्यारे भी बन जाते हैं। डरते हैं- ना मालूम फँस जाएँ, इससे तो दूर रहना ठीक है; लेकिन नहीं, 21 जन्म भी प्रवृत्ति में, परिवार में रहना है ना! तो अगर डर के कारण किनारा कर लेते, न्यारे बन जाते तो वह कर्म-संन्यासी के संस्कार हो जाते हैं। कर्मयोगी बनना है, कर्म-संन्यासी नहीं। संगठन में रहना है, सेही बनना है; लेकिन बुद्धि का सहारा एक बाप हो, दूसरा न कोई। बुद्धि को कोई आत्मा का साथ वा गुण वा कोई विशेषता आकर्षित नहीं करे। इसको कहते हैं पवित्रता। .....जीवन में दो चीज़ें ही आवश्यक हैं। एक - कम्पैनियन, दूसरी- कम्पनी। इसलिए, लिकालदर्शी बाप सभी की आवश्यकताओं को जान कम्पैनियन भी बढ़िया, कम्पनी भी बढ़िया देते हैं। .....तो पवित्रता निजी संस्कार के रूप में अनुभव करना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ लकीर अथवा श्रेष्ठ रेखा वाले। (अ.वा.20.2.87 पृ.37 आदि, 38 आदि-अंत)

- “होली हंस अर्थात् स्वच्छता और विशेषता वाली आत्माएँ। स्वच्छता अर्थात् मन, वचन, कर्म, सम्बन्ध- सर्व में पवित्रता। पवित्रता की निशानी सदा ही सफेद रंग दिखाते हैं। आप होली हंस भी सफेद वस्त्रधारी, साफ दिल अर्थात् स्वच्छता स्वरूप हो। तन, मन और दिल से सदा बेदाग अर्थात् स्वच्छ हो। अगर कोई तन से अर्थात् बाहर से कितना भी स्वच्छ हो, साफ हो; लेकिन मन से साफ न हो, स्वच्छ न हो तो कहते हैं कि पहले मन को साफ रखो। साफ मन वा साफ दिल पर साहिब राज़ी होता है। साथ-2 साफ दिल वाले की सर्व मुराद अर्थात् कामनाएँ पूरी होती हैं। हंस की विशेषता स्वच्छता अर्थात् साफ है; इसलिए आप ब्राह्मण आत्माओं को होली हंस कहा जाता है। .....सम्पूर्ण स्वच्छता वा पवित्रता- यही इस संगमयुग में सबका लक्ष्य है। इसलिए ही आप ब्राह्मण सो देवताओं को सम्पूर्ण पवित्र गाया जाता है। ...गायन आपके ही देवता रूप का है; लेकिन बने कब? ब्राह्मण-जीवन में वा देवता-जीवन में? बनने का समय अब संगमयुग है। .....तन की स्वच्छता अर्थात् सदा इस तन को आत्मा का मन्दिर समझ उस स्मृति से स्वच्छ रखना। जितनी मूर्ति श्रेष्ठ होती है उतना ही मन्दिर भी श्रेष्ठ होता है। ...ब्राह्मण आत्माएँ सारे कल्प में नम्बरवन श्रेष्ठ आत्माएँ हैं। ब्राह्मणों के आगे देवताएँ भी सोने तुल्य हैं और ब्राह्मण हीरे तुल्य हैं। तो आप सभी हीरे की मूर्तियाँ हो। कितनी ऊँची हो गई! इतना अपना स्वमान जान इस शरीर रूपी मन्दिर को स्वच्छ रखो। सादा हो; लेकिन स्वच्छ हो। इस विधि से तन की पवित्रता सदा रुहानी खुशबू का अनुभव कराएगी।” (अ.वा.6.1.90 पृ.125 आदि)

- “जैसे नामधारी ब्राह्मणों की निशानी चोटी और जनेऊ है वैसे सच्चे ब्राह्मणों की निशानी पवित्रता और मर्यादाएँ हैं। जन्म की वा जीवन की निशानी वह तो सदा कायम रखनी होती है ना। ...आत्मा शब्द तो सभी कहते हैं; लेकिन ब्राह्मण आत्मा सदा यही कहते हैं कि मैं शुद्ध, पवित्र आत्मा हूँ; श्रेष्ठ आत्मा हूँ; पूज्य आत्मा हूँ। .....वह स्वतः ही स्वयं को और सर्व को किस दृष्टि से देखेंगे? चाहे अलौकिक परिवार में, चाहे लौकिक परिवार कहो वा लौकिक स्मृति में रहने वाली आत्माएँ कहो, सभी के प्रति परम पूज्य आत्माएँ हैं वा पूज्य बनाना है यही दृष्टि में रहे। पूज्य आत्माओं अर्थात् अलौकिक परिवार की आत्माओं के प्रति अगर कोई भी अपवित्र दृष्टि जाती है तो यह स्मृति का फाउण्डेशन कमज़ोर है और यह महा, महा, महापाप है। किसी भी पूज्य आत्मा प्रति अपवित्रता अर्थात् दैहिक दृष्टि जाती है कि यह सेवाधारी बहुत अच्छे हैं, यह शिक्षक बहुत अच्छी है; लेकिन अच्छाई क्या है? अच्छाई है ऊँची स्मृति और ऊँची दृष्टि की। अगर वह ऊँचाई नहीं तो अच्छाई कौन -सी है! यह भी सुनहरी मृगमाया का रूप है, यह सर्विस नहीं है, सहयोग नहीं है; लेकिन स्वयं को और सर्व को वियोगी बनाने का आधार है। यह बात बार-2 अटेन्शन में रखो। बाप द्वारा निमित्त बने हुए शिक्षक वा सेवा के सहयोगी बनी हुई आत्माएँ, चाहे बहन हो या भाई हो; लेकिन

सेवाधारी आत्माओं के सेवा के मुख्य लक्षण त्याग और तपस्या हैं, इसी लक्षण के आधार पर सदा त्यागी और तपस्वी की दृष्टि से देखो, न कि दैहिक दृष्टि से। श्रेष्ठ परिवार है तो सदा श्रेष्ठ दृष्टि रखो; क्योंकि यह महापाप कभी प्राप्ति स्वरूप का अनुभव करा नहीं सकता। .....इसी एक (काम) विकार से और विकार स्वतः ही पैदा हो जाते हैं। कामना पूरी न हुई तो क्रोध साथी पहले आएगा। ‘कामात्क्रोधोऽभिजायते’ (गीता 2-62) इसलिए इस बात को हल्का नहीं समझो। इसमें अलबेले मत बनो। बाहर से शुभ सम्बन्ध है, सेवा का सम्बन्ध है, इस रॉयल रूप के पाप को बढ़ाओ मत। चाहे कोई भी दोषी हो इस पाप के; लेकिन दूसरे को दोषी बनाए स्वयं को अलबेले मत बनाओ। “मैं दोषी हूँ” जब तक यह सावधानी नहीं रखेगे तब तक महापाप से मुक्त नहीं हो सकेंगे। ...और जब कोई भी इशारा मिलता है तो इशारे से खत्म कर देना चाहिए। अगर जिद करते हो और सिद्ध करते हो, स्पष्टीकरण देने की कोशिश करते हो, इससे समझो स्पष्टीकरण अपने पाप की करते हो।.....इसलिए जब हैं ही विश्व-परिवर्तन के कार्य में तो स्व-परिवर्तन कर लेना यही समझदारी का काम है।” (अ.वा. 9.5.83 पृ.188 आदि, 189)

- हृद की कामनाएँ भी सूक्ष्म रूप से चैक करो- मुख्य काम विकार के अंश वा वंश हैं। इसलिए कामना वश सामना नहीं कर सकते। बेहृद की मनोकामना पूर्ण करने वाले नहीं बन सकते। काम जीत अर्थात् हृद की कामनाओं जीत। (अ.वा. 5.12.84 पृ.48 मध्य)

- अगर प्योरिटी की भी कमी है तो यूनिटी में भी कमी है। (अ.वा.31.10.75 पृ.253 अंत)

- धर्मसत्ता को धर्मसत्ताहीन बनाने का विशेष तरीका है- पवित्रता को सिद्ध करना और राज्य सत्ता वालों के आगे एकता को सिद्ध करना। .....इन दोनों ही शक्तियों को सिद्ध किया तो ईश्वरीय सत्ता का झण्डा बहुत सहज लहराएगा। (अ.वा. 21.2.85 पृ.186 आदि)

- द्वापर से लेकर किसी भी धर्मात्मा या महात्मा ने सर्व को होलीएस्ट नहीं बनाया है। स्वयं बनते हैं ; लेकिन अपने फॉलोअर्स को, साथियों को होलीएस्ट, पवित्र नहीं बनाते और यहाँ पवित्रता ब्राह्मण जीवन का मुख्य आधार है। .....कभी -2 बच्चे अनुभव करते हैं कि अगर चलते-2 मन्सा में भी अपवित्रता अर्थात् वेस्ट वा निगेटिव, परचितन के संकल्प चलते हैं तो कितना भी योग पावरफुल चाहते हैं; लेकिन होता नहीं है; क्योंकि ज़रा भी अंशमात्र संकल्प में भी किसी प्रकार की अपवित्रता है, तो जहाँ अपवित्रता का अंश है वहाँ पवित्र बाप की याद जो है, जैसा है, वैसे नहीं आ सकती। जैसे दिन और रात इकट्ठा नहीं होता। इसीलिए बापदादा वर्तमान समय पवित्रता के ऊपर बार-2 अटेन्शन दिलाते हैं। कुछ समय पहले बापदादा सिर्फ कर्म में अपवित्रता के लिए इशारा देते थे; लेकिन अभी समय सम्पूर्णता के समीप आ रहा है; इसलिए मन्सा में भी अपवित्रता का अंश धोखा दे देगा। ...मन्सा को हल्का नहीं करना; क्योंकि मन्सा बाहर से दिखाई नहीं देती है; लेकिन मन्सा धोखा बहुत देती है। (अ.वा.1.3.99 पृ.62 आदि)

- “प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत को नहीं कहा जाता; संकल्प, स्वभाव, संस्कार में भी प्योरिटी। मानों एक-दूसरे के प्रति ईर्ष्या या घृणा का संकल्प है तो प्योरिटी नहीं, इम्प्योरिटी कहेंगे। प्योरिटी की परिभाषा में सर्व विकारों का अंश-मात्र तक न होना है। संकल्प में भी किसी प्रकार की इम्प्योरिटी न हो।” (अ.वा.31.10.75 पृ.253 अंत)

- “सफल तपस्वी की निशानी उनके सूरत और सीरत में प्योरिटी की पर्सनैलिटी और प्योरिटी की रॉयलटी सदा स्पष्ट अनुभव होगी। तपस्या का अर्थ ही है मन-वचन-कर्म और सम्बन्ध-सम्पर्क में अपवित्रता का अंश मात्र भी विनाश होना, नाम-निशान समाप्त होना। जब अपवित्रता समाप्त हो जाती है तो इस समाप्ति को ही सम्पन्न स्थिति कहा जाता है। सफल तपस्वी अर्थात् सदा स्वतः पवित्रता की पर्सनैलिटी और रॉयलटी, हर बोल और कर्म से, दृष्टि और वृत्ति से अनुभव हो। प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य

नहीं, सम्पूर्ण पवित्रता अर्थात् संकल्प में भी कोई भी विकार टच न हो। जैसे ब्राह्मण जीवन में शारीरिक आकर्षण व शारीरिक टचिंग अपवित्रता मानते हों, ऐसे मन-बुद्धि में किसी विकार के संकल्प माल की आकर्षण व टचिंग, इसको भी अपवित्रता कहा जाएगा। पवित्रता की पर्सनैलिटी वाले, रॉयलटी वाले मन-बुद्धि से भी इस बुराई को टच नहीं करते; क्योंकि सफल तपस्वी अर्थात् सम्पूर्ण वैष्णव। वैष्णव कभी बुरी चीज़ को टच नहीं करते हैं। तो उन्हों का है स्थूल, आप ब्राह्मण वैष्णव आत्माओं का है सूक्ष्म।” (अ.वा.4.12.91 पृ.94 मध्य, 95 आदि)

- “प्योरिटी सिर्फ ब्रह्मचर्य व्रत नहीं, ब्रह्मचर्य व्रत में तो आजकल के सरकमस्टांस अनुसार कई अज्ञानी भी रहते हैं। ज्ञान से नहीं; लेकिन हालातों को देखकर। कई भक्त भी रहते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है; लेकिन प्योरिटी को सारे दिन में चैक करो-पवित्रता की निशानी है स्वच्छता, सत्यता। .....तो अपवित्रता सिर्फ किसको दुःख देना या पाप कर्म करना नहीं है ; लेकिन स्वयं में सत्यता, स्वच्छता विधिपूर्वक अगर अनुभव करते हो तो पवित्र हो।” (अ.वा.6.4.95 पृ.205 आदि)
- “पर्सनैलिटी कभी छिप नहीं सकती, प्रत्यक्ष दिखाई ज़रूर देती है। जैसे साकार ब्रह्मा बाप को देखा, प्योरिटी की पर्सनैलिटी कितनी स्पष्ट अनुभव करते थे। ये तपस्या के अनुभव की निशानी अब आप द्वारा औरों को अनुभव हो। सूरत और सीरत दोनों द्वारा अनुभव करा सकते हो। अभी भी कई लोग अनुभव करते भी हैं; लेकिन इस अनुभव को और स्वयं द्वारा औरों में फैलाओ।” (अ.वा.4.12.91 पृ.96 आदि)
- “पवित्रता के कारण ही परम पूज्य और गायन योग्य बनते हैं। पवित्रता ही श्रेष्ठ धर्म अर्थात् धारणा है। इस ईश्वरीय सेवा का बड़े से बड़ा पुण्य है- पवित्रता का दान देना। पवित्र बनाना ही पुण्य आत्मा बनाना है; क्योंकि किसी आत्मा को आत्म-घात महापाप से छुड़ाते हो। अपवित्रता आत्म-घात है; पवित्रता जीय-दान है। पवित्र बनाना अर्थात् पुण्य आत्मा बनाना। गीता के ज्ञान का वह वर्तमान परमात्म-ज्ञान का जो सार रूप में स्लोगन बताते हो, उसमें भी पवित्रता का महत्व बताते हो। “पवित्र बनो, योगी बनो” - यही स्लोगन महान आत्मा बनने का आधार है। ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ के नम्बर भी पवित्रता के आधार पर हैं। भक्तिमार्ग में यादगार पवित्रता के आधार पर है। कोई भी भक्त आपके यादगार चित्र को पवित्रता के बिना टच नहीं कर सकते। जिस दिन विशेष देवी व देवताओं का दिवस मनाते हैं, उस दिन का महत्व भी पवित्रता रखते हैं। भक्ति का अर्थ ही है- अल्पकाल; ज्ञान का अर्थ है- सदाकाल। तो भक्त अल्पकाल के नियम पालन करते हैं। जैसे नवरात्रि मनाते हैं, जन्माष्टमी अथवा दीपमाला या कोई विशेष उत्सव मनाते हैं तो पवित्रता का नियम अल्पकाल के लिए ज़रूर पालन करते हैं। चाहे शरीर की पवित्रता व आत्मा के नियम, दोनों प्रकार की शुद्धि ज़रूर रखते हैं। आपकी यादगार ‘विजय माला’ - उनका भी सुमिरण करेंगे तो पवित्रता की विधिपूर्वक करेंगे।” (अ.वा.23.1.80 पृ.234 आदि, 235 आदि)
- “संकल्प में इतनी समर्थी है जो विश्व की आत्माओं तक शक्तिशाली संकल्प द्वारा सेवा कर सको, वृत्ति की शुद्धि अनुसार वायुमण्डल को शुद्ध कर सको। वृत्ति की शक्ति है! शुद्ध अर्थात् प्यूरिटी। प्यूरिटी का आधार है भाई-2 की स्मृति की वृत्ति।” (अ.वा.4.1.79 पृ.176 अंत)
- “डबल अहिंसक अर्थात् अपवित्रता अर्थात् काम महाशत्रु स्वप्न में भी वार न करे। सदा भाई-2 की स्मृति सहज और स्वतः अर्थात् स्मृति स्वरूप में हो। ऐसे डबल अहिंसक आत्म-घात का महापाप भी नहीं करते। आत्मघात अर्थात् अपने सम्पूर्ण सतोप्रधान स्टेज से नीचे गिर अपना घात नहीं करते। ऊँचाई से नीचे गिरना ही घात है।” (अ.वा.15.10.75 पृ.186 मध्य)

- “जितने भी ब्राह्मण हैं, हर एक ब्राह्मण चैतन्य सालिग्राम का मन्दिर है, चैतन्य शक्ति मन्दिर है। ...अभी के पुरुषार्थ के समय प्रमाण व विश्व के सम्पन्न परिवर्तन के समय प्रमाण इस समय कोई भी कर्म-इन्द्रिय द्वारा प्रकृति व विकारों के वशीभूत नहीं होना चाहिए, जैसे मन्दिर में भूत प्रवेश नहीं होते हैं। .....जहाँ अशुद्धि होती है वहाँ ही अशुद्ध विकार अथवा भूत प्रवेश होता है। चैतन्य सालिग्राम के मन्दिर में व चैतन्य शक्तिस्वरूप के मन्दिर में, असूर संहारनी के मन्दिर में आसुरी संकल्प व आसुरी संस्कार कभी प्रवेश नहीं कर सकते। ..... जब ऐसी अपनी पवित्र प्रवृत्ति बनाओ तब ही विश्व-परिवर्तन होगा।” (अ.वा.24.10.75 पृ.222 अंत, 223 आदि)
- “कोई भी देहधारी में संकल्प से व कर्म से फँसना, इस विकारी देह रूपी साँप को टच करना अर्थात् अपनी की हुई अब तक की कमाई को खत्म करना है। चाहे कितना भी ज्ञान का अनुभव हो या याद द्वारा शक्तियों की प्राप्ति का अनुभव किया हो या तन, मन, धन से सेवा की हो; लेकिन सर्व प्राप्तियाँ इस देह रूपी साँप को टच करने से इस साँप के विष के कारण, जैसे विष मनुष्य को खत्म कर देता है वैसे ही यह साँप भी अर्थात् देह में फँसने का विष सारी कमाई को खत्म कर देता है। पहले की हुई कमाई के रजिस्टर पर काला दाग पड़ जाता है जिसको मिटाना बहुत मुश्किल है। जैसे योग-अग्नि पिछले पापों को भस्म करती है वैसे यह विकारी भोग भोगने की अग्नि पिछले पुण्य को भस्म कर देती है। इसको साधारण बात नहीं समझना। यह पाँचवीं मंज़िल से गिरने की बात है। कई बच्चे अब तक अलबेलेपन के संस्कार-वश इस बात को कड़ी भूल व पाप कर्म नहीं समझते हैं। वर्णन भी ऐसा साधारण रूप में करते हैं कि मेरे से चार-पाँच बार यह हो गया, आगे नहीं करूँगा। वर्णन करते समय भी पश्चाताप का रूप नहीं होता, जैसे साधारण समाचार सुना रहे हैं। अन्दर में लक्ष्य रहता है कि यह तो होता ही है, मंज़िल तो बहुत ऊँची है, अभी यह कैसे होगा? लेकिन फिर भी आज ऐसे पाप-आत्मा, ज्ञान की ग्लानि कराने वालों को बापदादा वॉर्निंग देते हैं कि आज से भी इस गलती को कड़ी भूल समझकर यदि मिटाया नहीं तो बहुत कड़ी सज़ा के अधिकारी बनेंगे। बार -2 अवज्ञा के बोझ से ऊँची स्थिति तक पहुँच नहीं सकेंगे। प्राप्ति करने वालों की लाइन के बजाय पश्चाताप करने वालों की लाइन में खड़े होंगे। प्राप्ति करने वालों की जय-जयकार होगी और अवज्ञा करने वालों के नैन और मुख ‘हाय-2’ का आवाज़ निकालेंगे और सर्व प्राप्ति करने वाले ब्राह्मण ऐसी आत्माओं को कुल-कलंकित की लाइन में देखेंगे। अपने किए विकर्मों का कालापन चेहरे से स्पष्ट दिखाई देगा। इसलिए अब से यह विकराल भूल अर्थात् बड़ी से बड़ी भूल समझ करके अभी ही अपनी पिछली भूलों का पश्चाताप दिल से करके बाप से स्पष्ट कर अपना बोझ मिटाओ। अपने आप को कड़ी सज़ा दो, ताकि आगे की सज़ाओं से भी छूट जाएँ। अगर अब भी बाप से छुपावेंगे व अपने को सच्चा सिद्ध करके चलाने की कोशिश करेंगे तो अभी चलाना अर्थात् अन्त में और अब भी अपने मन में चिल्लाते रहेंगे- क्या करूँ, खुशी नहीं होती, सफलता नहीं होती, सर्व प्राप्तियों की अनुभूति नहीं होती। ऐसे अब भी चिल्लावेंगे और अन्त में ‘हाय मेरा भाग्य’ कह चिल्लावेंगे। तो अब का चलाना अर्थात् बार-2 चिल्लाना। अगर अभी बात को चलाते हो तो अपने जन्म-जन्मांतर के श्रेष्ठ तकदीर को जलाते हो। इसलिए इस विशेष बात पर विशेष अटेन्शन रखो। संकल्प में भी इस विष-भरे साँप को टच नहीं करना। संकल्प में भी टच करना अर्थात् अपने को मूर्छित करना है।” (अ.वा.24.10.75 पृ.249 मध्य, 250)
- “अगर आपकी मंसा द्वारा अन्य आत्माओं को सुख और शान्ति की अनुभूति नहीं होती अर्थात् पवित्र संकल्प का प्रभाव अन्य आत्मा तक नहीं पहुँचता तो उसका भी कारण चैक करो। किसी भी आत्मा की ज़रा भी कमज़ोरी अर्थात् अशुद्धि अपने संकल्प में धारण हुई तो वह अशुद्धि अन्य आत्मा को सुख-शान्ति की अनुभूति करा नहीं सकेगी। या तो उस आत्मा के प्रति व्यर्थ वा

अशुद्ध भाव है वा अपनी मंसा पवित्रता की शक्ति में परसेन्टेज की कमी है, जिस कारण औरों तक वह पवित्रता की प्राप्ति का प्रभाव नहीं पड़ सकता। स्वयं तक है; लेकिन दूसरों तक नहीं हो सकता। लाइट है; लेकिन सर्चलाइट नहीं है। तो पवित्रता के सम्पूर्णता की परिभाषा है सदा स्वयं में भी सुख-शान्ति स्वरूप और दूसरों को भी सुख-शान्ति की प्राप्ति का अनुभव कराने वाले। ऐसी पवित्र आत्मा अपनी प्राप्ति के आधार पर औरों को भी सदा सुख और शान्ति, शीतलता की किरणें फैलाने वाली होगी। तो समझा सम्पूर्ण पवित्रता क्या है?” (अ.वा.24.3.82 पृ.313 आदि)

- “कहते हो सुख-शान्ति की जननी पवित्रता है। जब भी अतीन्द्रिय सुख वा स्वीट साइलेन्स का अनुभव कम होता है, इसका कारण पवित्रता का फाउण्डेशन कमज़ोर है।” (अ.वा.23.12.93 पृ.77 आदि)
- “पवित्रता की शक्ति इतनी महान है जो अपनी पवित्र मंसा अर्थात् शुद्ध वृत्ति द्वारा प्रकृति को भी परिवर्तन कर लेते। मंसा पवित्रता की शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण है- प्रकृति का भी परिवर्तन। स्व-परिवर्तन से प्रकृति का परिवर्तन। प्रकृति के पहले व्यक्ति। तो व्यक्ति परिवर्तन और प्रकृति परिवर्तन- इतना प्रभाव है मंसा पवित्रता की शक्ति का। .....अगर पवित्रता की परसेन्टेज में 16 कला से 14 कला हो गए तो क्या बनना पड़ेगा? जब 16 कला की पवित्रता अर्थात् सम्पूर्णता नहीं तो सम्पूर्ण सुख-शान्ति के साधनों की भी प्राप्ति कैसे होगी!” (अ.वा.24.3.82 पृ.313 अंत, 314 आदि)
- ऐसे काम विकार नहीं है, सदा ब्रह्मचारी हैं; लेकिन किसी आत्मा के प्रति विशेष झुकाव है जिसका रॉयल रूप स्लेह है; लेकिन एकस्ट्रा स्लेह अर्थात् काम का अंश। स्लेह राइट है; लेकिन ‘एकस्ट्रा’ अंश है। (अ.वा.22.1.82 पृ.264 अंत)
- “तो मंसा परिवर्तन हो इसमें डबल अटेन्शन दो। यह नहीं सोचो, सम्पन्न बनने तक संकल्प तो आँएंगे ही; लेकिन नहीं। संकल्प अर्थात् बीज को ही योगाग्नि में जला दो जो आधाकल्प तक बीज फल न दे सके। वाचा के मुख्य दो पत्ते भी निकल न सके। कर्मणा का तना और टाल-टालियाँ भी निकल न सके। बहुत काल का भस्मीभूत बीज जन्म-जन्मांतर के लिए फल नहीं देगा। अन्त में इस सब्जेक्ट में सम्पूर्ण नहीं होना है; लेकिन बहुत काल का अभ्यास ही अन्त में पास कराएगा। अन्त में सम्पूर्ण होंगे, इसी संकल्प को पहले खत्म करो। अभी बने तो अन्त में भी बनेंगे। अब नहीं तो अन्त में भी नहीं। इसलिए इस अलबेलेपन की नींद से भी जग जाओ।” (अ.वा.23.1.80 पृ.236 मध्य)
- “संकल्प, बोल और कर्म में पवित्रता की जितनी-2 धारणा है उसी प्रमाण रुहनियत की झलक सूरत में दिखाई देती है। ब्राह्मण-जीवन की चमक पवित्रता है। निरन्तर अतीन्द्रिय सुख और स्वीट साइलेन्स का विशेष आधार है- पवित्रता। तो पवित्रता नम्बरवार है तो इन अनुभूतियों की प्राप्ति भी नम्बरवार है। अगर पवित्रता नम्बरवन है तो बाप द्वारा प्राप्त हुई प्राप्तियाँ भी नम्बरवन हैं। पवित्रता की चमक स्वतः ही निरन्तर चेहरे पर दिखाई देती है। पवित्रता की रुहनियत के नयन सदा ही निर्मल दिखाई देंगे। सदा नयनों में रुहानी आत्मा और रुहानी बाप की झलक अनुभव होगी। ...पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचर्य को नहीं कहा जाता; लेकिन सदा ब्रह्मचारी और सदा ब्रह्मचारी अर्थात् ब्रह्मा बाप के आचरण पर हर कदम में चलने वाले। उसका संकल्प, बोल और कर्म रूपी कदम नैचुरल ब्रह्मा बाप के कदम ऊपर कदम होगा, जिसको आप फुट स्टैप कहते हो। .....और जो ब्रह्मचारी है उनका चेहरा और चलन सदा ही अन्तर्मुखी और अतीन्द्रिय सुखी अनुभव होगा। (अ.वा.25.3.90 पृ.193 अंत)
- तुम्हारा आपस में भी कोई सम्बन्ध नहीं। ब्र.कु.कुमारियाँ भाई-बहन का सम्बन्ध भी गिरा देता है। सर्व सम्बन्ध एक से ही होना है, यह है नई बात। पवित्र होकर वापिस भी जाना है।” (मु.ता.30.4.74 पृ.2 आदि)

- सद्गति वाले पवित्र होते हैं, उनको अपवित्र कोई छू न सके। लक्ष्मी-नारायण के मन्दिर में बाउण्डरी लगी रहती है, कोई छू न सके; परन्तु अपने को मूत पलीती कोई समझते नहीं हैं। सारी दुनिया की मूत पलीती को (बेहद का) बाप आकर स्वच्छ बनाते हैं; परन्तु मलेच्छों को भी पता नहीं है, हम मलेच्छ पत्थरबुद्धि हैं। अभी बाप बैठ समझाते हैं, तुम मूत पलीती हो, अब फिर पावन बनना है। (मु.ता.20.11.74 पृ.1 मध्य)
- “बाबा समझाते हैं पहली बात है पवित्रता की। काम-कटारी न चलानी है। यह विकार ही बड़ा दुश्मन है। जब से वाममार्ग (द्वापुर) में जाते हैं तब से भारत गिरता आता है। पहले नम्बर की हिसायह है। तुम हो डबल अहिसक। काम की हिसायको कोई भी जानते नहीं। दूसरी नम्बर की वायलेंस है क्रोध।” (मु.ता.24.5.72 पृ.2 मध्य)
- “यह भाई-बहन का सम्बन्ध है नम्बरवन। विकार की दृष्टि ला न सके। बाप देखेंगे, बच्चा बन, प्रतिज्ञा कर फिर विकार में गिरे तो धर्मराज डण्डा भी बहुत मारेंगे। पवित्रता की प्रतिज्ञा पक्की रखनी है। बाप से हम विश्व का मालिक बनते हैं। एक जन्म विकार में न गए तो बड़ी बात है क्या! कई कहते हैं पीछे क्या होगा देखा जावेगा। साहूकार लोग तो अभी ही अपन को स्वर्ग में समझते हैं। इसलिए गरीबों के लिए सरेण्डर होना सहज है।” (मु.ता.24.5.72 पृ.3 अंत)
- “जो पवित्र बनते हैं वही पवित्र दुनिया के मालिक बन सकते हैं। पवित्रता की प्रतिज्ञा से ही इस आश्रम में आकर रह सकते हैं। ब्राह्मणों के ऊपर बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। भूले-चूके किसको ले आते तो उनपर सज्जा पड़ जाती है। बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। बाप कहते हैं काम चिक्षा पर बैठ तुम काले बने हो। अब ज्ञान चिक्षा पर बैठ गोरा बनो। बहुत कहते हैं, अभी तो काम चिक्षा अच्छी लगती है, पवित्र कैसे बनेंगे? बाबा कह देते हैं- अच्छा, गठर में पड़े रहो। बाप तो कहते हैं पवित्र बनो। जिसके बुद्धि में विकार होगा वह वर्सा पा न (सके)।” (रात्रि क्लास मु.ता.24.5.72)
- “आगे तुमको पता नहीं था कि यह धंधा(विकारी) न करना चाहिए। कोई अच्छे-2 बच्चे होते हैं, कहते हैं- हम ब्रह्मचर्य में रहेंगे। संन्यासियों को देख समझते हैं पवित्रता अच्छी है। पवित्र और फिर अपवित्र। दुनिया में अपवित्र तो बहुत रहते हैं। पाखाने में जाना भी अपवित्र बनना है; इसलिए फौरन सान करते हैं। अपवित्रता अनेक प्रकार की होती है। किसको दुःख देना भी अपवित्र कर्तव्य है।” (मु.ता.14.7.74 पृ.1 मध्यांत)
- “जैसे शराबी शराब रह नहीं सकते। शराब से बहुत नशा चढ़ता है; परन्तु अल्पकाल के लिए, ऐसे ही विकारी मनुष्यों की आयु कितनी छोटी हो जाती है। कहाँ निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125-150 होती है! एवर हेल्दी बनेंगे तो आयु भी बढ़ेगी।” (मु.ता.8.8.75 पृ.2 अंत)
- मंसा में (विकार भोगने का) तूफान भल आए, कर्मेन्द्रियों से न करना है। (मु.ता.22.4.69 पृ.3 अंत)
- संकल्प वा स्वप्न में भी बाप से किनारा नहीं। ऐसे नहीं कि स्वप्न तो मेरे वश में नहीं हैं। स्वप्न का भी आधार अपनी साकार जीवन है। अगर साकार जीवन में मायाजीत हो तो स्वप्न में भी माया अंश मात्र में भी नहीं आ सकती। तो माया-प्रूफ हो जो स्वप्न में भी माया नहीं आ सकती? स्वप्न को भी हल्का नहीं समझो; क्योंकि जो स्वप्न में कमज़ोर होता है, तो उठने के बाद भी वह संकल्प झ़रूर चलेंगे और योग साधारण हो जाएगा। इसीलिए इतने विजयी बनो जो संकल्प से तो क्या; लेकिन स्वप्न मात्र भी माया वार नहीं कर सके। (अ.वा. 13.10.92 पृ.41 अंत)
- अगर नम्बरवन निश्चय है तो चलते-2 मुख्य पवित्रता धारण करने में मुश्किल नहीं लगेगा। अगर पवित्रता स्वप्न मात्र भी हिलाती है, हलचल में आती है, तो समझो नम्बरवन फाउण्डेशन कच्चा है; क्योंकि आत्मा का स्वधर्म पवित्रता है। अपवित्रता

परधर्म है और पवित्रता स्वधर्म है। तो जब स्वधर्म का निश्चय हो गया तो परधर्म हिला नहीं सकता। (अ.वा.4.12.95 पृ.47 मध्य)

- सिर्फ याद के समय याद में रहना, इसको तपस्या नहीं कहा जाता। तपस्या अर्थात् प्योरिटी के पर्सनैलिटी और रॉयलटी का स्वयं भी अनुभव करना और औरों को भी अनुभव कराना। सफल तपस्वी का अर्थ ही है विशेष महान आत्मा बनना। विशेष आत्माओं वा महान आत्माओं को देश की वा विश्व की पर्सनैलिटीज़ कहते हैं। पवित्रता की पर्सनैलिटी अर्थात् हर कर्म में महानता और विशेषता। (अ.वा.4.12.91 पृ.95 आदि)

- संकल्प द्वारा भी पाप होता है। संकल्प के पाप का भी प्रत्यक्षफल प्राप्त होता है। संकल्प में स्वयं की कमज़ोरी, किसी भी विकार की- पाप के खाते में जमा होती ही है; लेकिन अन्य आत्माओं के प्रति संकल्प में भी किसी विकार के वशीभूत वृत्ति है तो यह भी महापाप है। (अ.वा.3.12.78 पृ.94 अंत)

- सम्पूर्ण पवित्रता का अर्थ ही है- स्वप्न-मात्र भी अपवित्रता मन और बुद्धि को टच नहीं करे। ..... सम्पूर्ण पवित्रता मुश्किल है या सहज है? ..... ये तो नहीं सोचते- “थोड़ा तो चलता ही है, चला लो, किसको क्या पता पड़ता है, कोई मंसा तो देखता ही नहीं है, कर्म में तो आते ही नहीं हैं”; लेकिन मंसा के वायब्रेशन्स भी छिप नहीं सकते। चलाने वाले को बापदादा अच्छी तरह से जानते हैं। ऐसे आउट नहीं करते, नहीं तो नाम भी आउट कर सकते हैं; लेकिन अभी नहीं करते। चलाने वाले स्वयं ही चलते -2, चलाते-2 लेता तक पहुँच जाएँगे। ..... सारे चक्र में देखो, सिर्फ देव आत्माएँ हैं जिनका शरीर भी पवित्र है और आत्मा भी पवित्र है। और जो भी आए हैं, आत्मा पवित्र बन भी जाए; लेकिन शरीर पवित्र नहीं होगा। आप आत्माएँ ब्राह्मण जीवन में ऐसे पवित्र बनते हों जो शरीर भी, प्रकृति भी पवित्र बना देते हों; इसलिए शरीर भी पवित्र है तो आत्मा भी पवित्र है। (अ.वा.7.3.93 पृ.202 मध्य, 203 आदि)

- ब्रह्माकुमार-कुमारी बन अगर कोई भी साधारण चलन वा पुरानी चाल चलते हैं तो सिर्फ अकेला अपने को नुकसान नहीं पहुँचाते; क्योंकि अकेले ब्रह्माकुमार-कुमारी नहीं हो; लेकिन ब्राह्मण कुल के भाती हो। स्वयं का नुकसान तो करते ही हैं; लेकिन कुल को बदनाम करने का बोझ भी उसी आत्मा के ऊपर चढ़ता है। ब्राह्मण लोक की लाज रखना, यह भी हर ब्राह्मण का फर्ज़ है। ..... जो लोक-लाज अनेक जन्मों की प्राप्ति से वंचित करने वाली है, वर्तमान हीरे जैसा जन्म कौड़ी समान व्यर्थ बनाने वाली है, यह अच्छी तरह से जानते भी हों, फिर भी उस लोक-लाज को निभाने में अच्छी तरह ध्यान देते हों, समय देते हों, एनर्जी लगाते हों। ..... कभी वृत्ति के परहेज की धारणा अर्थात् धर्म को छोड़ देते हों, कभी शुद्ध दृष्टि के धर्म को छोड़ देते हों, कभी शुद्ध अन्न के धर्म को छोड़ देते हों, फिर अपने आपको श्रेष्ठ सिद्ध करने के लिए बातें बहुत बनाते हों। ..... ब्राह्मण कुल ऊँचे ते ऊँची चोटी वाला कुल है। तो किस लोक वा किस कुल की लाज रखनी है! ..... अल्पज्ञ आत्माओं को खुश कर लिया; लेकिन सर्वज्ञ बाप की आज्ञा का तो उल्लंघन किया ना! तो पाया क्या और गँवाया क्या? (अ.वा.18.4.82 पृ.380 अंत, 381 आदि)

- अगर सारे दिन में, चाहे उठने में, चाहे बैठने में, चाहे बोलने में, चाहे सेवा करने में, चाहे स्थूल सेवा की वा सूक्ष्म सेवा की; लेकिन अगर विधिपूर्वक नहीं की, विधि में भी अगर ज़रा-सा अंतर रह गया तो वो भी स्वच्छता अर्थात् पवित्रता नहीं। व्यर्थ संकल्प भी अपवित्रता है, क्यों? आप सोचेंगे कि हमने पाप तो किया ही नहीं, किसको दुःख तो दिया ही नहीं; लेकिन अगर व्यर्थ चला, समय गया, संकल्प गया, सन्तुष्टता गई तो आपके पवित्रता की फाइनल स्टेज के डिग्री में फर्क पड़ जाएगा। 16 कला नहीं बन सकेंगे। 15 कला, 14 कला, साढ़े पन्द्रह कला... नम्बरवार हो जाएगा। ..... तो इसीलिए मोटे-2 रूप न पुरुषार्थ

का रखो, न चेकिंग का रखो। अभी महीन बुद्धि बनो; क्योंकि समय समाप्त अचानक होना है, बताकर नहीं होना है। (अ.वा.6.4.95 पृ.205 आदि)

- ऐसे अलबेले नहीं बनना कि और तो सब छोड़ दिया बाकी कोई एक कर्मन्द्रिय विचलित होती है वह भी समय पर ठीक हो जाएगी; लेकिन कोई एक कर्मन्द्रिय की आकर्षण भी एक बाप का बनने नहीं देगी, एकरस स्थिति में स्थित होने नहीं देगी, नम्बरवन में जाने नहीं देगी। अगर कोई हीरे-जवाहर, महल-माड़ियाँ छोड़ दे और सिर्फ कोई मिट्टी के फूटे हुए बर्तन में भी मोह रह जाए तो क्या होगा? जैसे हीरा अपनी तरफ आकर्षित करता है वैसे हीरे से भी ज्यादा वह फूटा हुआ बर्तन उसको अपनी तरफ बार-2 आकर्षित करेगा। न चाहते भी बुद्धि बार-2 वहाँ भटकती रहेगी। ऐसे अगर कोई भी कर्मन्द्रिय की आकर्षण रही हुई है तो श्रेष्ठ पद पाने से बार-2 नीचे ले आएगी। .....बापदादा बच्चों के कल्याण के लिए ही कहते हैं, पुराना छोड़ दो, अधमरे नहीं बनो। मरना है तो पूरा मरो, नहीं तो भले ही जिन्दा रहो। (अ.वा.3.4.82 पृ.337 मध्य, 341 मध्य)

- अति-इन्द्रिय सुख में रहने वालों की निशानी क्या होगी? अति-इन्द्रिय सुख में रहने वाला कभी अल्पकाल के इन्द्रिय के सुख की तरफ आकर्षित नहीं होगा। जैसे कोई साहूकार रास्ते चलते हुए कोई चीज़ पर आकर्षित नहीं होगा; क्योंकि वह सम्पन्न है, भरपूर है। इसी रीति से अतीन्द्रिय सुख में रहने वाला इन्द्रियों के सुख को ऐसे मानेगा जैसे ज़हर के समान है। .....अगर चलते-2 इन्द्रियों के सुख तरफ आकर्षित होते, इससे सिद्ध है कि अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति में कोई कमी है। .....इन्द्रियों के सुख का अनुभव कितने जन्म से कर रहे हो? उससे प्राप्ति का भी ज्ञान है ना? क्या प्राप्त हुआ? कमाया और गँवाया। जब गँवाना ही है तो फिर अभी भी उस तरफ आकर्षित क्यों होते? अतीन्द्रिय सुख की (21 जन्म) प्राप्ति का समय अभी भी थोड़ा समय (40-50 वर्ष) है। यह अब नहीं तो कब नहीं मिलेगा। (अ.वा.14.5.77 पृ.149 आदि)

- होलीएस्ट बनने की मुख्य बात है- बाप से सच्चा बनना। सिर्फ ब्रह्माचर्य धारण करना यह प्यूरिटी की हाइएस्ट स्टेज (सर्वोच्च स्थिति) नहीं है; लेकिन प्यूरिटी(पवित्रता) अर्थात् रीयल्टी अर्थात् सच्चाई। (अ.वा.25.6.77 पृ.275 मध्य)

- इतना बड़ा कार्य जिसके लिए निमित्त बने हुए हो उसको स्मृति में रखो। इतने श्रेष्ठ कार्य के आगे स्वयं के पुरुषार्थ में हलचल वा स्वयं की कमज़ोरियाँ क्या अनुभव होती हैं? .....अच्छी लगती हैं वा स्वयं से ही शर्म आता है? चैलेन्ज और प्रैविटकल समान होना चाहिए। (अ.वा.3.12.78 पृ.94 मध्य)

- अगर किसी के प्रति भी स्वप्न मात्र भी लगाव हो, स्वार्थ हो तो स्वप्न में भी समाप्त कर देना। कई कहते हैं कि हम कर्म में नहीं आते; लेकिन स्वप्न आते हैं; लेकिन अगर कोई व्यर्थ वा विकारी स्वप्न, लगाव का स्वप्न आता है तो अवश्य सोने के समय आप अलबेलेपन में सोए। कई कहते हैं कि सारे दिन में मेरा कोई संकल्प तो चला ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं, फिर भी स्वप्न आ गया। तो चैक करो- सोने समय बापदादा को सारे दिन का पोतामेल देकर, खाली बुद्धि हो करके नींद की? ऐसे नहीं कि थके हुए आए और बिस्तर पर गए और गए- ये अलबेलापन है। चाहे विकर्म नहीं किया और संकल्प भी नहीं किया; लेकिन ये अलबेलेपन की सज्जा है; क्योंकि बाप का फरमान है कि सोते समय सदा अपने बुद्धि को क्लीयर करो, चाहे अच्छा, चाहे बुरा, सब बाप के हवाले करो और अपने बुद्धि को खाली करो। दे दिया बाप को और बाप के साथ सो जाओ, अकेले नहीं। अकेले सोते हो ना तभी स्वप्न आते हैं। अगर बाप के साथ सोओ तो कभी ऐसे स्वप्न भी नहीं आ सकते; लेकिन फरमान को नहीं मानते हो तो फरमान के बदले अरमान मिलता है। सुबह को उठ करके दिल में अरमान होता है ना कि मेरी पवित्रता स्वप्न में खत्म हो गई। ये कितना अरमान है! कारण है अलबेलापन। तो अलबेले नहीं बनो। जैसे आया वैसे यहाँ-वहाँ की बातें करते-2 सो

जाओ; क्योंकि समाचार तो बहुत होते हैं और दिलचस्प समाचार तो व्यर्थ ही होते हैं। कई कहते हैं- और तो टाइम मिलता ही नहीं, जब साथ में एक कमरे में जाते हैं तो लेन-देन करते हैं; लेकिन कभी भी व्यर्थ बातों का वर्णन करते-2 सोना नहीं, ये अलबेलापन है। ये फरमान को उल्लंघन करना है। अगर और टाइम नहीं है और ज़रूरी बात है तो सोने वाले कमरे में नहीं; लेकिन कमरे के बाहर दो सेकेण्ड में एक/दो को सुनाओ, सोते-2 नहीं सुनाओ। .....तो जब आदि अर्थात् अमृतवेला और अंत अर्थात् सोने का समय अच्छा होगा तो मध्य स्वतः ही ठीक होगा। (अ.वा.16.11.95 पृ.25 अंत, 26 आदि)

- मन के प्रति बापदादा का डायरेक्शन है- मन को मेरे में लगाओ वा विश्व-सेवा में लगाओ। मन्मनाभव- इस मंत्र की सदा सृति रहे। इसको कहते हैं मन की स्वच्छता वा पवित्रता। (अ.वा.6.1.90 पृ.126 मध्य)
- वास्तव में बाबा ने समझाया था, तुमको बैठना भी ऐसे चाहिए जो अंग अंग से न लगे। (मु.ता.17.3.74 पृ.2 मध्यादि)
- कहावत है शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ठहरता है। इस बाप के ज्ञान धन के लिए भी सोने का बर्तन चाहिए। (मु.ता.17.3.99 पृ.3 मध्यांत)

### पवित्रता में आँखों का महत्व और नाम-रूप की ग्रहचारी

- जब कोई किसके नाम-रूप में फँस पड़ते हैं तो बाप समझाते हैं यह क्रिमिनल आइज़ हैं। .....इसलिए बाप कहते हैं- हर एक अपनी अवस्था को देखें। बड़े-2 अच्छे महारथी अपने को देखें, हमारी बुद्धि किसके नाम-रूप में जाती तो नहीं है? फलानी बहुत अच्छी है, यह करें- कुछ अन्दर में आता है? यह तो बाबा जानते हैं, इस समय (2027 तक) सम्पूर्ण सिविलाइज़ेशन कोई है नहीं। वह तो बिल्कुल जो पास विद 8 रत्न हैं, उनकी ही इस समय सिविलाइज़ेशन हो सकती है। 108 भी नहीं। ज़रा भी चलायमानी न आए, बहुत मुश्किल है। कोई विरले (8) ऐसे होते हैं। आँखें कुछ न कुछ धोखा ज़रूर देती हैं। तो डामा जल्द किसकी सिविलाइज़ेशन नहीं बनाएगा। खूब पुरुषार्थ कर अपनी जाँच करनी है- कहाँ हमारी आँखें धोखा तो नहीं देती हैं? विश्व का मालिक बनना बड़ी ऊँची मंज़िल है। .....अपनी सम्भाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम-2 पर भूलें होती रहती हैं। थोड़ा भी उस क्रिमिनल दृष्टि से देखा, भूल हुई, फौरन नोट करो। 10-20 भूलें तो रोज़ करते ही होंगे जब तक अभूल बनें; परन्तु सच कोई बताते थोड़े ही हैं। (मु.ता.23.7.89 पृ.1 अंत, 2 आदि)
- एक-2 आत्मा इंडिपेंडेंट है। भाई-बहन का भी नाता छुड़ा दिया। भाई-2 समझो। फिर भी क्रिमिनल आई छूटती नहीं है। वह अपना काम करती रहती है। इस समय मनुष्यों के अंग सब क्रिमिनल हैं। .....सबसे जास्ती क्रिमिनल अंग कौन-सा है? आँखें। विकार की आस पूरी नहीं हुई तो फिर हाथ चलाने लग पड़ते। पहले -2 हैं आँखें। तब सूरदास की भी कहानी है। (मु.ता.19.7.89 पृ.2 मध्यादि)

- क्रिमिनल आई बदलकर सिविल बन जाए, टाइम लगता है। स्त्री को समझे हम ब्रह्माकुमार-कुमारी भाई-बहन हैं, कितना फर्क हो जाता! स्त्री-पुरुष की चलन बदल भाई-बहन की हो जाए, डिफ़िकल्टी है। (मु.ता.9.12.90 पृ.2 मध्य)
- मनुष्य कितने विकारी क्रिमिनल आई वाले हैं। एक मिनिस्टर बाबा के पास आया था। बोला, हमारी तो क्रिमिनल आई जाती है। (मु.ता.20.8.89 पृ.3 आदि)
- आशिक-माशूक, एक विकार के लिए बनते हैं, दूसरे सिर्फ रूप पर फिदा होते हैं। तुम जानते हो, सेन्टर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। नहीं तो हमेशा मेल-फीमेल एक/दो के नाम-रूप में फँसते हैं। यहाँ तो माया ऐसी प्रबल है जो माता, माता के

नाम-रूप में; कन्या, कन्या के नाम-रूप में फँस पड़ती हैं। पुरुषार्थ करते हुए भी माया एकदम पकड़ लेती है। (मु.ता.31.8.91 पृ.3 मध्य)

- बाप इस पुरानी दुनिया से तुमको नफरत दिलाते हैं। इस समय सबकी आत्माएँ काली हैं तो उनको गौरा शरीर कैसे मिलेगा ! भल करके चमड़ी किसकी सफेद है; परन्तु आत्मा तो काली है ना ! जो सफेद खूबसूरत शरीर वाले हैं उनको अपना नशा कितना रहता है। खुद काला भूत होगा; परन्तु कहेगा, हमको स्त्री सफेद चाहिए। मनुष्यों को यह पता ही नहीं पड़ता है कि आत्मा गौरी कैसे बनती है। (मु.ता.12.7.84 पृ.2 अंत)

- अभी तक भी बहुत बच्चों की कम्पलेन्ट(शिकायत) है कि दृष्टि चंचल होती है वा दृष्टि खराब होती है। क्यों होती है ? जबकि बाप का फरमान है- लौकिक देह अर्थात् शरीर में अलौकिक आत्मा को देखो, फिर देह को देखते क्यों हो ? अगर आदत कहते हो, आदत से मजबूर हो वा अल्पकाल के किसी न किसी रस के वशीभूत हो जाते हैं तो इससे सिद्ध है कि आत्मा-परमात्मा प्राप्ति के रस में अभी तक अनुभवी नहीं हैं। (अ.वा. 5.6.77 पृ.213 मध्य)

- काम महाशत्रु है न ! कशिश बहुत करते हैं। इसलिए सूरदास की भी कथा है। बाप कहते हैं यहाँ आँख निकालनी नहीं है। क्रिमिनल को सिविल बनाना है। इस समय की ही मेहनत है। सबसे महाशत्रु है यह काम; इसलिए सब क्रिमिनल बन गए हैं। तो फिर ऐसा चाहिए जो क्रिमिनल को बदल सिविल बनावें। (राति क्लास मु.ता.31.1.74 पृ.4 अंत)

- जब क्रिमिनल आई ट्रूटकर पक्की सिविल आई बन जाती है उसको कहा जाएगा कर्मातीत अवस्था। इतनी अपनी जाँच करनी है। इकट्ठे रहते भी विकार की दृष्टि न जाए। बीच में ज्ञान तलवार होगी- हम भाई-बहन हैं। (मु.ता.6.9.84 पृ.2 मध्यादि)

- तुम्हारे लिए यह आवाज़ होता है ना कि यह सबको भाई-बहन बनाते हैं। इससे शुद्ध नाता रहता है। क्रिमिनल दृष्टि नहीं जाती है। सिर्फ इस जन्म के लिए यह दृष्टि पड़ जाने से फिर भविष्य कब भी क्रिमिनल दृष्टि नहीं पड़ेगी। ऐसे नहीं कि वहाँ बहन -भाई समझते हैं। वहाँ तो जैसे महाराजा-महारानी होते हैं वैसे ही होते हैं। (मु.ता.6.9.84 पृ.1 आदि)

- जब ग्रहचारी बैठती तो कितना नुकसान हो जाता है वह बाप जानते हैं। साहूकार, गरीब बन पड़ते हैं। कारण तो होता है ना। बहुतों को बाबा समझाते भी रहते हैं- बच्चे, नाम-रूप में कभी नहीं फँसना, नहीं तो माया ऐसी है- नाक से पकड़ खड़े में डाल देगी। माया बड़ा धोखा दे देगी। आशिक-माशूक यहाँ नहीं बनना है। .....तुम जानते हो, सेन्टर्स पर भी ऐसे माया के विघ्न बहुत पड़ते हैं। नहीं तो हमेशा मेल-फिमेल एक/दो के नाम-रूप में फँसते हैं। .....इसलिए बाबा सावधानी देते हैं कि बच्चे, माया बहुत फँसाने की कोशिश करेगी; लेकिन तुमको फँसना नहीं है। देह-अभिमान में नहीं आना चाहिए। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। (मु.ता.31.8.91 पृ.3 मध्यादि)

- अपनी स्त्री होते हुए भी दूसरी कोई खूबसूरत देखेंगे तो झट वह खैंचेगी। ...दिल होती है उनको हाथ लगावें। आँखें सबसे जास्ती धोखा देती है। .....कोई गायन में होशियार होगी, श्रृंगार अच्छा होगा तो आँखें झट चलायमान हो जावेगी। .....तो जब ऐसी कोई स्त्री आदि सामने आती है तो किनारा कर लेना चाहिए, खड़ा हो देखना न चाहिए। .....कोई को देखेंगे तो स्व्याल आवेगा यह तो बहुत अच्छी है। फिर बात करेंगे। दिल होगी उनको कुछ सौगात दें, यह खिलाऊँ। वही चिन्तन चलता रहेगा। (मु.ता.20.5.76 पृ.1 आदि, 2 आदि)

- यह शरीर तो पुराना है। उनसे बिल्कुल नफरत आनी चाहिए। भल कितना भी सुन्दर हो, लॉ मुजीब तो सभी काले हैं; क्योंकि आत्मा काली है। .....दुनिया में तो काली और गौरी शक्ति पर चलता है। कोई-2 बगैर देखे सगाई कर लेते हैं, फिर जब शक्ति

देखते हैं तो कहते हैं हमको ऐसी काली नहीं चाहिए। फिर झगड़ा हो जाता - हम पैसे को क्या करें! हमें तो सुहेनी चाहिए। .....(अभी) तुम्हारी काली आत्मा की सगाई हुई है गोरे साजन से। .....जो नाम-रूप में फँसते हैं उनको ही बन्दर-बन्दरी कहा जाता है। (मु.ता.8.9.73 पृ.2 आदि-मध्य, 4 मध्य)

- अच्छे-2 सेन्टर्स के अच्छे-2 बच्चों की भी क्रिमिनल आई रहती है। (मु.ता. 5.8.84 पृ.3 अंत)

### कलियुगी पतित दुनिया की परिस्थिति

• बाप ने दिन में कर्म करने की तो छुट्टी दी है। बाकी टाइम में रात को जाग कर यह अभ्यास करेंगे तो दिन में भी वह अवस्था रहेगी, मदद मिलेगी। रात का अभ्यास दिन में काम आवेगा। रात को भी जागना है 12 के बाद; क्योंकि 9 से 12 बजे तक यह टाइम तो सभी से डर्टी है। मनुष्य गोते खाते रहते हैं। इसलिए विचार-सागर-मंथन सवेरे करना होता है। (मु.ता.9.4.72 पृ.2 मध्य)

• पढ़ाई सवेरे और शाम को होती है। दोपहर में वायुमण्डल ठीक नहीं होता है। रात्रि का भी 10 से 12 तक बिल्कुल खराब टाइम है। उसी समय जैसे कि विषय वैतरणी नदी में बहते हैं। आजकल तो न दिन न रात देखते हैं। पूरा वेश्यालय है। इस समय तमोप्रधान हैं ना। (मु.ता.6.7.75 पृ.2 आदि)

• भ्रष्टाचारी अर्थात् जो मूत से पैदा होते हैं। रावण राज्य में भ्रष्टाचारी काम ही करते रहते हैं। फिर गुल-2 बनाने बाप को ही तरस पड़ता है। भारत में ही आते हैं। (मु.ता.1.5.72 पृ.3 मध्य)

• हमने आधा कल्प राज्य किया फिर वाममार्ग में गए। उनका भी फिर मन्दिर बना हुआ है जगत+नाथ का। उसमें देवी-देवताओं के बहुत गच्छे-2 चित्र दिखाए हैं। उसके लिए भी गवर्मेंट को रिपोर्ट करनी चाहिए। ऐसे विकारी के मंदिर थोड़े ही होने चाहिए। विलायत से बहुत गंदे चित्र मँगाते हैं। फॉरेन्स लोग जब ऐसे चित्र देखते हैं तो फिर कहते हैं देवताएँ कितने गंदे हैं! कृष्ण को इतनी रानियाँ थीं! हिंदुओं ने अपने आप को ही चमाट मारी है। (मु.ता. 2.5.72 पृ.2 अंत)

• उस लौकिक बाप से तो 63 जन्म सराप ही मिलता है; क्योंकि रावण के मत पर चलते हैं ना। हरेक बाप अपने बच्चों को सरापित ही करते हैं। काम चिक्षा पर बिठाते हैं। बाप आए फिर ज्ञान चिक्षा पर बनाते(बिठाते) हैं। (मु.ता.24.5.72 पृ.1 अंत)

• अमृतवेला, प्रभात सवेरे 2-3 बजे को कहा जाता है, जबकि सुमिरण भी कर सके। ऐसे थोड़े ही 12 बजे विकार से उठकर और भगवान का नाम कोई लेता होगा। बिल्कुल नहीं। अमृतवेला 12 बजे को नहीं कहा जाता है। उस समय तो मनुष्य पतित, गंदे होते हैं। वायुमण्डल ही सारा खराब कर सोते हैं। 12:30 बजे थोड़े ही कोई उठता है। अमृतवेला है ही 3-4-5 बजे का। (मु.ता.16.8.74 पृ.2 मध्यादि)

• भ्रष्टाचारी दुनिया में कोई भी श्रेष्ठाचारी नहीं होता। सभी पतित हैं। शरीर मूत से पैदा होता है। (रात्रि क्लास मु.ता.24.5.72 मध्यांत)

• तुम जानते हो, इस समय सभी मनुष्य जंगली जानवर है। एक/दो को काटते, मारते ही रहते हैं। इन जैसा क्रोध और विकार और कोई में होता नहीं। यह भी गायन है कि द्रौपदी ने पुकारा। बाप ने समझाया है तुम सब द्रौपदियाँ हो और पुरुष हैं सब दुःशासन। द्रौपदी ने पुकारा कि हमको नगन करते हैं। बाप समझाते हैं, ऐसे-2 अत्याचार करने वाले हैं, जिनको जानवरों से भी बदतर कहा जाता है। गऊ एक बार ही बैल के पास जाती है, फिर कब बैल के वाडे में आएगी नहीं। बैल के सामने कब आएगी नहीं, भाग जावेगी, लड़ पड़ेगी। यहाँ मनुष्य देखो, कितने गंदे हैं! इसलिए द्रौपदी ने पुकारा है कि मुझे नगन न करो। जुआ की

बात लिखी हुई है। कहा- दुःशासन मुझे नगन करते हैं। मैं रजस्वला हूँ, मुझे हाथ न लगाओ, नगन न करो। तो यहाँ के मनुष्य ऐसे हैं जो भल कुछ भी हो तो भी काला मुँह करने बिगर रहेंगे नहीं। जानवरों से भी बदतर हैं। सतयुग में तो नगन होने का हृक्षम ही नहीं। इस समय है घोर अधियारा। बाप देख रहे हैं कि कितना गंद है! कामी कुत्ते छोड़ते ही नहीं। इनके पास ज्ञान है तब ही पुकारती हैं। बड़े गंदे मनुष्य हैं! तुम भी समझ सकती हो, ऐसे हैं ना बरोबर। भगवानुवाच्य बाप कहते हैं- बच्चे, अब विकार में न जाओ। मैं तुमको स्वर्ग में ले चलता हूँ। (मु.ता.27.12.74 पृ.1 मध्य)

- एक तो यह दुनिया ही वेश्यालय है और फिर वेश्याएँ भी तीर्थों आदि पर रहती हैं। एक तरफ स्नान करो, दूसरी तरफ गटर में घुटका खाओ। (मु.ता.9.1.74 पृ.3 आदि)

- बाप कहते हैं वास्तव में सब द्रौपदियाँ-दुशासन हैं। नगन तो सब होते हैं न! यह है बेहद की बात। शास्त्रों में एक द्रौपदी का नाम लिख दिया है। पाँच पति थे उनके, यह भी हो न सके। हिन्दू नारी तो एक पति ही करती है। पुरुष तो एक जूती गई, दूसरी ले लेते हैं। आजकल तो बहुत गंदगी है। अपनी बच्ची को भी खराब कर देते। कितनी छी-2 दुनिया है। अब बाप तुमको गुल-2 बनाते हैं। (मु.ता.22.1.74 पृ.2 अंत)

- आजकल मनुष्यों के पास पैसे बहुत हो गए हैं। तो 5 विकार भी तेज हो गए हैं। काम विकार कितना तेज है। काम बिगर रह नहीं सकते। 4-5 वर्ष रह फिर लिखते हैं- बाबा, आज भूत लगा, काला मुँह कर दिया। कितना धक्का खाया, एकदम 5 मारे से गिरे। पहले-2 है देह-अभिमान। ऊपर से गिरा ठक पुर्जा-2 हो गया। खलास। हड्डगुड बिल्कुल टूट जाते हैं। फिर पुरुषार्थ करने में टाइम लगता है। यह है सबसे बड़ी चोटी। इसलिए बाप कहते हैं काम महाशत्रु है। विकार को ही पतितपना कहा जाता है। (मु.ता.9.7.71 पृ.2 आदि)

- वह विद्वान, आचार्य, पण्डित आदि सब पतित हैं। विकार से पैदा होते हैं। भल साधु-महात्मा हों; परंतु देवताओं को हाथ नहीं लगा सकते; क्योंकि म्लेच्छ हैं। इसलिए बाउंडरी लगा देते हैं। कोई छू न सके। (मु.ता.20.11.74 पृ.1 अंत)

- मनुष्य देवता से बदल टटू गधे मिसल बन जाते हैं। गधे बेवकूफ होते हैं। घड़ी-2 मिट्टी में लेट कर मैले बन पड़ते हैं। बाप भी कहते हैं- खबरदार रहना! टटू मिसल फिर मैला न बनना। मैं तुम्हारी आत्मा को पावन बनाने आता हूँ। ऐसा न हो विकारी बन सारा श्रृंगार ही गँवा दो। (मु.ता.20.11.74 पृ.3 अंत)

- विकारी मनुष्य सब अछूत, म्लेच्छ हैं। इस समय सारी दुनिया अछूत(मेहतर) है; क्योंकि विष पीते-पिलाते हैं। (मु.ता.20.11.74 पृ.1 मध्यादि)

- कामी जो होते हैं, उनके लिए बहुत कड़े अक्षर कहे जाते हैं। कहते हैं, तुम तो कामी कुत्ते हो। बेहद का बाप भी समझाते हैं- हम तुमको जी.ओ.डी. बनाते हैं; रावण तुमको उल्टा डी.ओ.जी. बना देते हैं। यह है ही रावण राज्य। मिसाल देते हैं न- कुत्ते का पूँछ कितना भी सीधा करो; परंतु होगा ही नहीं। यहाँ भी समझाया जाता है- पावन बनो, फिर भी बनते नहीं। बाप कहते हैं- बच्चों, विकार में मत जाओ अर्थात् कुत्ते मत बनो। बंदर मत बनो। काला मुँह मत करो। फिर भी लिखते हैं- बाबा, माया से हार खाकर काला मुँह कर बैठे। अज्ञान काल में भी कोई गंदा काम करते हैं तो कहते हैं, मुट्ठा! काला मुँह करके आए हो। (मु.ता.26.5.74 पृ.2 अंत)

- बाबा ने राति को भी समझाया, किन्हों-2 की दृष्टि कामी रहती है अथवा सेमी कामी दृष्टि है। वेश्याएँ और लम्पट भी हैं न! यह हैं सबसे बड़े काँटे। इसमें भी कोई खास काँटे रखते हैं, जिनको कामी कुत्ता भी कहा जाता है। बहुत बड़ा-2 घर खास उन्हों के

लिए बनाते हैं। जैसे कलकत्ते में कोई बड़ा आदमी वेश्या न रखे तो उनको बड़ा आदमी नहीं माना जाए। बहुत गन्द है। इसलिए भारत का नाम ही रखा हुआ है वेश्यालय। खास भी है, आम भी हैं। कॉमन और प्राइवेट होते हैं। खास अपने लिए रखते हैं। फिर खुद भी जाते हैं, दोस्तों को भी ले जाते हैं। तो बाप बैठ समझाते हैं, यह है वैश्यालय। विकार में जाते हैं या चेष्टा करते हैं कि फलाना बहुत अच्छा है, इनसे विकार में जावें। वेश्याओं का यह काम होता है। कब यहाँ भी ऐसी वृत्ति वाले आते हैं, जिनकी बुद्धि देह तरफ जाती है। कोई की सेमी बुद्धि जाती है। कोई नए-2 भी आते हैं जो पहले अच्छा-2 चलते हैं। .....उस समय शमशानी वैराग्य आता है। फिर वहाँ जंगल में जाते हैं तो खराब हो पड़ते हैं। इष्टि गंदी हो पड़ती है। यहाँ जिनको अच्छा फूल समझ बागवान के पास ले आते हैं कि बाबा, यह बहुत अच्छा फूल है। कोई के लिए माली कान में आकर बतलाते हैं- यह फलाना फूल है। यह ऐसा है। माली तो ज़रूर बतावेंगे न। ऐसे नहीं कि बाबा अन्तर्यामी है। (मु.ता. 16.7.74 पृ.1 मध्यांत)

- कोई में काम विकार जास्ती होता है तो कहते हैं यह तो कामी कुत्ता है। स्त्री भी कहती है, हमारा पति तो कामी कुत्ता दिखाई पड़ता है, घड़ी-2 विकार में जाते रहते हैं। कोई कहते, 7-8 मास में एक बार विकार में जाना होता। कोई कहते, मास-2। कोई हफ्ते-2। कोई बहुत कामी होते हैं तो रोज़ भी जाते हैं। उससे जास्ती विकारी तो दिन में दो-तीन बार भी विकार में जाते हैं। बाप समझाते हैं सत्युग में यह विकार नहीं हैं। .....विकारी दुनिया को निर्विकारी बनाना यह तो बाप का ही काम है। .....कहते हैं इस बिगर बच्चे कैसे पैदा होंगे? बाप समझाते हैं, अभी जो बिछू-टिप्पन पैदा होते हैं, यह मृत्युलोक के सम्प्रदाय हैं। तुम्हारा यह अन्तिम जन्म है। यह बिछू-टिप्पन मिसल बच्चे पैदा होना बन्द होना है। मृत्युलोक ही खत्म होना है। फिर इसके बाद विकारी लोग होंगे ही नहीं। इसलिए बाप से पवित्र बनने की प्रतिज्ञा करते हैं। (मु.ता. 29.3.76 पृ.3 आदि)

- गटर में कोई मज़ा थोड़े ही है। यह है ही विषय सागर। रौरव नर्क में सब पड़े हैं। बहुत गन्द हैं। दिन-प्रतिदिन गंद वृद्धि को पाता रहता है। इनको कहा जाता है डर्टी वर्ल्ड, डेविल वर्ल्ड। एक/दो को दुःख ही देते; क्योंकि देह-अभिमान का भूत है, काम का भूत है। बाप कहते हैं इन भूतों को भगाओ। यह भूत ही तुम्हारा काला मुँह करते हैं। काम चिता पर बैठ काले बन जाते हैं, सड़ जाते हैं तब बाप कहते हैं फिर हम आकर ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। इन गन्द से तो अभी एकदम घृणा आती है। यह है ज़हर अथवा भाड़(गंद) खाना। अक्षर भी हैं मूत पलीती। ग्रन्थ बैठ पढ़ते हैं; परन्तु हैं सब विकारी। सूरत बहुत अच्छी, सीरत बन्दर जैसी है। (मु.ता.8.8.75 पृ.2 आदि)

- अभी तुम पवित्र बन रहे हो तो किचड़े वालों से कितना मिक्सअप होना पड़ता है। नहीं तो ऐसे किचड़े को शिवबाबा छू भी नहीं सकते। शिवबाबा बहुत सीकरेट है, बहुत पवित्र है। (मु.ता.30.10.84 पृ.1 अंत)

- एक तो याद की याता में रहना है, जिससे गन्द निकले पवित्र बन जाएँगे। फिर तुम्हारी दिल नहीं होगी गन्द से मिलने की; परन्तु सर्विस अर्थ तुमको बातचीत करनी पड़ती है। (मु.ता.30.10.84 पृ.2 अंत)

- ऐसे भी होते हैं, सिखलाने वाले माया के चम्बे से विकार में चले जाते हैं। आए हैं बहुतों को दुबन से निकालने, खुद फँस मरते हैं। माया बड़ी ज़बरदस्त है। (मु.ता.6.9.84 पृ.2 आदि)

- कोई से दिल लगाई, भाकी पहनी, तो समझो चट खाते में गया। उनका तो मुँह देखना भी अच्छा नहीं लगता। वह जैसे अछूत है। स्वच्छ नहीं है। अन्दर में दिल खाती है, बरोबर मैं अछूत हूँ। (मु.ता.12.7.84 पृ.3 मध्य)

- बाप जानते हैं कि एकदम जलकर काले कोयले बन गए हैं। (मु.ता.30.10.84 पृ.3 अंत)

- देह-अभिमान में आकर बहुत छी-2 काम करते हैं। समझते हैं, हमको कोई देखता थोड़े ही है। क्रोध, लोभ तो प्राइवेट नहीं होता। काम में प्राइवेसी चलती है। दरवाजा बन्द कर काला मुँह करते हैं। काला मुँह करते-2 कृष्ण की आत्मा 84 जन्मों बाद काली बन गई है। गौरे से साँवला बना है तो सारी दुनिया उनके पिछाड़ी आ गई। द्वापर से लेकर गिरते -2 काले बन्दर बन गए हैं। ऐसे पतित दुनिया को बदलना भी ज़रूरी है। बाप कहते हैं तुमको शर्म नहीं आता? एक जन्म लिए पवित्र नहीं बनते हो। (मु.ता.9.11.74 पृ.2 अंत)

- तुम्हारे पास प्रदर्शनी आदि में भिन्न-2 प्रकार के मनुष्य आते हैं। कोई कहते हैं, जैसे भोजन ज़रूरी है वैसे यह विकार भी भोजन है। इन बिगर भूख में मर जावेंगे। अब ऐसी बात तो है नहीं। संन्यासी पवित्र बनते हैं फिर मर जाते हैं क्या! ऐसे-2 बोलने वाले लिए समझा जाता है कोई बहुत अजामिल, पापी होंगे जो ऐसे-2 कहते हैं। बोलना चाहिए, क्या इस बिगर तुम मर जावेंगे जो भोजन से इनकी भेंट करते हो! स्वर्ग में आने वाले जो होंगे वह होंगे सतोप्रधान, फिर पीछे सतो, रजो, तमो में भी तो आते हैं ना। जो पीछे आते हैं उन आत्माओं ने निर्विकारी दुनिया तो देखी नहीं है। तो वह आत्माएँ ऐसे-2 कहेंगे शरीर द्वारा कि इन बिगर हम रह नहीं सकते। सूर्यवंशी जो होंगे उनको तो फौरन बुद्धि में आवेगा यह तो सत्य बात है। बरोबर स्वर्ग में विकार का नाम-निशान न था। (मु.ता.5.3.75 पृ.1 मध्य)

- इस दुनिया में तुम और कुछ न सुनो, न पढ़ो। तुम उन्हों का संग भी न करो। मेहतरों से मनुष्य किनारा करते हैं न! बाप ने समझाया है यह सब मनुष्य मेहतर ही मेहतर है। भार(गंद) खाने वाले हैं। .....कब-2 तो भार खाने वाले भी आ जाते हैं, जिनको अजामिल कहो, जो कुछ कहो। (मु.ता.17.3.74 पृ.2 मध्य)

- मूत पीने की तो ऐसी आदत पड़ गई है जैसे शराबी शराब बिगर रह नहीं सकते। (मु.ता. 10.4.73 पृ.2 अंत)
- देखो बच्चे, आ(ज)कल तो 70-80 वर्ष वाले भी विख को छोड़ते नहीं हैं, नहीं तो कायदा है- 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ (ले) लेना। (मु.ता.1.9.73 पृ.3 अंत)

- शिव का मंदिर भी है। वहाँ ही लक्ष्मी-नारायण का चित्र, वहाँ ही राम का, वहाँ ही फिर कोसघर बनाते हैं। कहाँ देवताएँ अहिंसक, जो स्वर्ग में राज्य करते थे! उनके मन्दिरों में फिर कोसघर बनाते रहते हैं। .....मन्दिरों में भी शादी के लिए हँड़ बनाते रहते हैं। (मु.ता.6.4.69 पृ.1 मध्यादि)

- कलियुग में देखो, मनुष्य का क्या हाल है! अङ्गबार में पड़ा था- 42 वर्ष का आदमी है, उनको 43 बच्चे हैं। फिर इतनी युगल गिनाई। .....कब तीन, कब चार बच्चे पैदा किए। .....तो उनको क्या कहेंगे? कुतरे। कुतरे से भी जास्ती। .....सतयुग में तो एक धर्म, एक भाषा, एक बच्चा होता है। (मु.ता.7.4.69 पृ.2 मध्यादि)

### पवित्रता- कुमारियों के संदर्भ में

- जो भी गुरु लोग आदि हैं, सभी हैं हठयोगी। घरबार छोड़ देते हैं। बाबा छुड़ाते नहीं हैं। कहते हैं पवित्र बनो। कुमार और कुमारी पवित्र हैं। शादी के बाद वह दुशासन, वह द्रौपदी बन जाती। रावण सभी को दुशासन बना देते हैं। सभी द्रौपदियाँ और दुशासन रावण सम्प्रदाय है। बहुत करके पुरुष ही नगन करते हैं। तो द्रौपदी पुकारती है - बाबा, हमको नगन होने से बचाओ। हम पवित्र बन कृष्णपुरी में जाने चाहती हैं। कन्याएँ भी पुकारती हैं- माँ-बाप हमको तंग करते हैं, मारते हैं कि विकारी बनना ही होगा। यह समय ही ऐसा है। बाबा ने समझाया है, कन्या को माँ-बाप भी पाँच पड़ते हैं; क्योंकि पवित्र है। शादी करने से अपवित्र हो जाती है। ससुर घर जाती है तो फिर सभी के आगे माथा टेकना पड़ेगा; क्योंकि पतित बन जाती है। तब फिर

पुकारती है- हे बाबा ! पतित-पावन आओ । अब बाप कहते हैं, कुमारियाँ पतित न बनो, नहीं तो पुकारना पड़ेगा । पतित बनती ही क्यों हो ? ऐसे थोड़े ही तुम्हारे गले में कोई फाँसी डाले तो तुम डाल देंगी । तुम जानवर थोड़े ही हो । अपन को बचाना चाहिए । बाप आए ही हैं पावन बनाने । कहते हैं स्वर्ग की बादशाही का वर्सा देने आया हूँ; इसलिए पवित्र बनना पड़े । कन्या पावन ही रहे । पतित बनेंगी तो पतित हो मर जावेंगी । स्वर्ग के सुख देख न सकेंगी । स्वर्ग में तो बहुत मौज है । (मु.ता.1.5.72 पृ.1 अंत)

- कुमारियों द्वारा ही परमपिता परमात्मा ने भीष्मों आदि को ज्ञान बाण मरवाए । दुनिया तो इन बातों को नहीं जानती । जगदम्बा+सरस्वती कुमारी है न ! बड़े-2 पण्डित सरस्वती सरनेम रखाते हैं । .....बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती आती है; क्योंकि वह उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी हैं । पुरुष जब स्त्री को लेता है तो उनमें मोह चला जाता है, फिर माँ-बाप, दादे आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं । फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता । अभी तुम सबसे नष्टोमोहा बनते हो । (मु.ता.22.6.73 पृ.1 मध्य)

- कुमारियों लिए तो जैसे मेहनत है ही नहीं, फ्री हैं । विकार में गए तो बड़ी पंचायत हो जाती है । कुमारी रहना अच्छा है, नहीं तो फिर अधरकुमारी नाम पड़ जाता । युगल भी क्यों बने ? इसमें भी नाम-रूप का नशा चढ़ता है । यह भी मूर्खता है । भल बहादुरी दिखाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं; परन्तु बड़ी अच्छी हिम्मत चाहिए, ज्ञान की पूरी पराकाष्ठा चाहिए । बहुत हैं जो हिम्मत करते हैं परन्तु आग की आँच आ जाती है तो खेल खलास । इसलिए बाबा कहते हैं कुमारी फिर भी अच्छी है । अधरकुमारी बनने का रूयाल भी क्यों करना चाहिए ? कुमारियों का नाम बाला है । बाल ब्रह्मचारी हैं । बाल ब्रह्मचारी रहना अच्छा है । ताकत रहती है । दूसरे कोई की याद नहीं आवेगी । बाकी हिम्मत है तो करके दिखावे; परन्तु मेहनत है । दो हो पड़ते हैं ना ! कुमारी है तो अकेली है । दो से द्वैत आ जाता है । जितना हो सके कुमारी रहना अच्छा है । उसमें तो घर आदि बनाना पड़ता है । कुमारी सर्विस में निकल सकती है । बंधन में पड़ने से फिर बंधन वृद्धि को पाते रहते हैं । ऐसा जाल बिछाना ही क्यों चाहिए, जो बुद्धि फँस पड़े ! ऐसे जाल में न फँसना ठीक है । कुमारियों (के) लिए तो बहुत अच्छा है । ...उन्हों के लिए बहुत सहज है । स्टूडेंट लाइफ पवित्र लाइफ भी है । बुद्धि से भी फ्रेश रहते हैं । कुमारों को भी भीष्मपितामह जैसा बनना है । कल्प पहले भी रहे हैं तब तो दिलवाला मंदिर में यादगार बना है । (मु.ता.6.8.76 पृ.3 मध्य)

- सभी कुमारियों ने जो बाप से पहला वायदा किया हुआ है कि एक बाप, दूसरा न कोई- वह निभाती हैं? इसी वायदे को सदा निभाने वाली कुमारी विश्व-कल्याण के अर्थ निमित्त बनती हैं । कुमारियों का पूजन होता है- पूजन का आधार है सम्पूर्ण पवित्र । तो कुमारियों का महत्व पवित्रता के आधार पर है । अगर कुमारी, कुमारी होते हुए भी पवित्र नहीं तो कुमारी जीवन का महत्व नहीं । तो कुमारीपन की जो विशेषता है, उसको सदा साथ-2 रखना, उसे छोड़ना नहीं; नहीं तो अपनी विशेषता को छोड़ने से वर्तमान जीवन का अति-इन्द्रिय सुख और भविष्य के राज्य का सुख, दोनों से वंचित हो जावेंगी । (अ.वा.28.10.75 पृ.243 आदि)

- माथा पावन के आगे झुकाया जाता है । (कन्या का मिसाल) जब विकारी बनती है तो सबके आगे सिर झुकाती और फिर पुकारती- हे पतित-पावन... । अरे ! पतित बनती ही क्यों हो जो फि र पुकारना पड़े ? (मु.ता.14.7.74 पृ.3 मध्य)
- कुमारी जीवन की क्या महिमा है? कुमारियों को पूजा जाता है, क्यों ? पवित्र आत्माएँ हैं । तो सभी पवित्र आत्माएँ पवित्र याद से औरों को भी पवित्र बनाने की सेवा में रहने वाली हो ना ! .....तो सदा अपने को श्रेष्ठ कुमारी, पूज्य कुमारी समझो । मन्दिरों में जो शक्तियों की पूजा होती है, वही हो ना ! (अ.वा.17.5.83 पृ.210 अंत, 211 मध्य)

- जहाँ भी रहो, वहाँ सदा अपने को पूज्य महान आत्मा समझकर चलना। न आपकी दृष्टि किसी में जाए, न और किसी की दृष्टि आप पर जाए। ऐसी पूज्य आत्मा समझकर चलना। पूज्य आत्मा की स्मृति में रहने वाली कुमारियों के तरफ किसी की भी ऐसी दृष्टि नहीं जा सकती है। सदा इस बात में अपने को सावधान रखना। कभी भी अपने को हल्की स्मृति में नहीं रखना। ब्रह्माकुमारी तो बन गई,... कभी ऐसे अलबेले नहीं बनना। अभी तो दादी बन गई, दीदी बन गई...नहीं। यह तो कहने में भी आता है; लेकिन हैं श्रेष्ठ आत्मा, पूज्य आत्मा, शक्ति रूप आत्मा... शक्ति के ऊपर किसी की भी नज़र नहीं जा सकती। अगर किसी की गई तो दिखाते हैं- वह भैंस बन गया। भैंस जैसे काली होती है तो वह भैंस अर्थात् काली आत्मा बन गई और भैंस बुद्धि अर्थात् मोटी बुद्धि हो जाएगी। अगर किसी की भी बुरी दृष्टि जाती है तो वह मोटी बुद्धि, भैंस बुद्धि बन जाएगा। क्यों किसी की दृष्टि जाए! इसमें भी कमज़ोरी कुमारियों की कहेंगे। पाण्डवों की अपनी कमज़ोरी, कुमारियों की अपनी। इसलिए अपने को चेक करो। दादी-दीदियों को भी डर इसी बात का रहता है कि कोई की नज़र न लग जाए। तो ऐसी पक्की हो ना! कभी भी किसी से प्रभावित नहीं होना। यह सेवाधारी बहुत अच्छा है, यह सेवा में अच्छा साथी मददगार है, नहीं। यह तो इतना करता है, नहीं। बाप कराता है। मैं इतनी सेवा करती हूँ, नहीं। बाप मेरे द्वारा कराता है। तो न स्वयं कमज़ोर बनो और न दूसरों को कमज़ोर बनने की मार्जिन दो। इस बात में किसी की भी रिपोर्ट नहीं आनी चाहिए। (अ.वा. 19.5.83 पृ.217 आदि)
- जो बाप की श्रीमत है उसी प्रमाण, उसी लकीर के अन्दर सदा रहने वाले सदा ऊपर उड़ते रहते हैं। तो लकीर के अन्दर रहने वाली कौन हुई? सच्ची सीता। तो सभी सच्ची सीताएँ हो ना? पक्का? लकीर के बाहर पाँव निकाला तो रावण आ जाएगा। रावण इंतज़ार में रहता है कि कहाँ कोई पाँव निकाले और मैं भगाऊँ! तो कुमारी अर्थात् सच्ची सीता। (अ.वा.8.10.81 पृ.29 अंत)
- कभी वह जीवन, खाना, पीना, घूमना- यह याद तो नहीं आता। दूसरों को देखकर यह नहीं आता कि हम भी थोड़ा टेस्ट तो करें। वह जीवन गिरने की जीवन है; यह जीवन चढ़ने की जीवन है। चढ़ने से गिरने की तरफ कौन जाएगा! .....जहाँ शुद्ध आत्माएँ हैं वहाँ सदा ही शुभ कार्य है। सभी आपस में संस्कार मिलाने की सबजेक्ट में पास हो ना। कोई खिटखिट नहीं, कहाँ भी दृष्टि-वृत्ति नहीं! एक बाप दूसरा न कोई... विशेष कुमारियों को इस बात में सर्टीफिकेट लेना है। जैसे नाम है बाल - ब्रह्मचारिणी वैसे संकल्प भी ऐसा पवित्र हो- इसको कहा जाता है स्कॉलरशिप लेना। (अ.वा.9.5.83 पृ.194 मध्य)
- मैं तो ब्रह्माकुमारी बन गई, पवित्र आत्मा बन गई- अपनी उन्नति में, अपनी प्राप्ति में, अपने प्रति सन्तुष्टता में राजी होकर चल रहे हैं, यह बाप समान बेहद की वृत्ति रखने की स्थिति नहीं है। (अ.वा .27.3.83 पृ.98 अंत)
- कुमारी और कुमार को शादी करनी ही नहीं चाहिए, नहीं तो वह भी गृहस्थी हो पड़ेंगे। कुछ गंधर्वी विवाह का नाम भी है। .....वास्तव में मार भी सहन करनी चाहिए। मर जाना चाहिए; परन्तु अधर कन्या कभी नहीं बनना चाहिए। बाल-ब्रह्मचारी का नाम बहुत होता है। शादी की माना हाफ पार्टनर हो गई। कुमारी को कहा जाता है तुम तो पवित्र बनो। गृहस्थ-व्यवहार वालों को कहा जाता है गृहस्थ-व्यवहार में रहते कमल-फूल के समान रहो। उन्हों को ही मेहनत होती है। शादी न करने से बन्धन न रहेगा। कन्या को तो पढ़ना ही है और ज्ञान में बहुत मजबूत रहना है। (मु.ता.11.6.71 पृ.2 आदि)
- बहुत कुमारियाँ भी बड़ी गन्दी होती हैं। कितना भी समझाओ, समझती नहीं। बस, मूत पीने की ही तात लगी रहती है। काट(काम)-कटारी चलावे, मूत पीवे, वही चिन्तन चलता रहता है। ऐसे-2 भी हैं। .....हनीमून करने जाते हैं। काम-कटारी चलाने जाते हैं। .....सुनते हैं तो दिल होती है हम भी काला मँह करें। (मु.ता.21.4.69 पृ.2 अंत, 3 आदि)

- बाबा दिन-प्रतिदिन कड़े-2 अक्षर देते रहते हैं। लौकिक बाप भी समझाते हैं, शादी ना करो, काला मुँह हो जावेगा। तो बाप को भी जवाब दे देते हैं- काला मुँह कर, जल कर खत्म हो जावेगे। (मु.ता.21.4.69 पृ.3 मध्यादि)
- आजकल तो इसके पिछाड़ी पाण(प्राण) भी दे देते हैं। कोई की किसके साथ दिल होती है, तो शादी नहीं कराई जाती है तो बस, घर में ही हुंगामा मचा देते हैं। यह है ही गन्दी दुनिया। (मु.ता. 21.4.69 पृ.2 मध्य)
- कुमारियों को भी बाबा कहते हैं शादी तो बरबादी हो जावेगी। इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का भी नहीं मानेंगी ? स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी ? अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कब नहीं जावेगी। उस दुनिया को याद भी नहीं करूँगी। शमशान को कभी याद करते हैं क्या ? (मु.ता.4.3.75 पृ.3 आदि)
- कुमारियों को तो संगदोष से बहुत बचना है। बाप आए ही हैं एक/दो को खून करने से बचाने। काम-कटारी से एक/दो का खून करते हैं ना। बाप कहते हैं इस पतितपने से तुम आदि, मध्य, अंत दुःख पाते हो। (मु.ता. 1.3.75 पृ.2 आदि)
- बोलो, हमको गटर में जाना न है। हमारी शादी के लिए पैसे तो निकाले ही होंगे। वह इस रुहानी सेवा में लगाओ। सेन्टर खोल कर दो। बाबा तो कन्याओं को देख बहुत खुश होते हैं कि यह बहुतों का कल्याण कर दिखावेंगी तो जन्म -जन्मांतर (के) लिए बहुत बड़ा ऊँच पद पद पावेंगी। (मु.ता.27.1.75 पृ.1 अंत)
- बाप निर्विकारी बनाते हैं तो कई बच्चियाँ बिल्कुल मजबूत हो जाती हैं- बस, हमको तो निर्विकारी बनना है। हम अकेली थी, अकेले ही जाना है। उनको कोई थोड़ा टच करेगा तो भी अच्छा न लगेगा। कहेंगी, यह हमको हाथ क्यों लगाते हैं ? इनमें विकारी बास है। विकारी हमको टच भी न करे। इस मंज़िल पर पहुँचना है। .....वह कर्मातीत अवस्था पिछाड़ी में आवेगी। अभी ऐसा नहीं है कि सिर्फ आत्मा को ही देखते हैं। (मु.ता.27.6.74 पृ.2 अंत)
- 50-100 रुपया देते हैं सिर्फ बाल बनाने लिए। इसको कहा जाता अति देह-अभिमान। वह फिर कब ज्ञान उठा न सके। बाबा कहते हैं बिल्कुल सिम्पुल बनो। ऊँची साड़ी पहनने से देह-अभिमान आता है। हमको वायल की साड़ी पहनी हुई है। देह-अभिमान तोड़ने लिए सब हल्का कर देना चाहिए। अच्छी चीज़ देह-अभिमान में लाती है। (मु.ता.6.7.75 पृ.3 मध्यांत)
- कुमारियाँ सदा ही पवित्र मानी जाती हैं। कुमारियों के पवित्रता की महिमा 100 ब्राह्मणों से भी ज़्यादा है। .....जब तक कुमारी है तब तक उसके पाँव पड़ते हैं और जब कुमारी शादी करती है तो उसी दिन सबके पाँव पड़ने लगती है। .....सच्ची फ्रैण्ड हो ना ! बाप ऐसा फ्रैण्ड मिला है जो कोई भी बात करो; लेकिन दिलाराम तक ही रहेगी। .....सारे विश्व में आकर्षण करने वाला बाप ही अनुभव होता है ना ! .....कोई टी.वी. तो नहीं देखती हो ? फिल्म तो नहीं देखती ? अगर वह फिल्म देखती तो यह फिल्म खत्म। .....यह गृहस्थी जीवन के झांझट बाहर से दिखाई नहीं देते हैं; लेकिन अंदर बहुत बंधन है। ...इसलिए कुमारियाँ ऐसे बंधनों से बच गईं। (अ.वा.21.3.85 पृ.260 मध्य, 261 आदि)
- कुमारी है, कोई कुमार को याद किया तो कब मन शांत न होगा। बुद्धि चलती रहेगी। उसकी याद आती रहेगी। बाप समझाते हैं यह 5 भूत कम नहीं हैं। कहा जाता है इनमें भूतों की प्रवेशता है। (मु.ता. 1.3.78 पृ.2 आदि)
- गृहस्थी जीवन है ही बकरी समान जीवन; कुमारी जीवन है पूज्य जीवन। अगर कोई एक बार भी गिरा तो गिरने से हड्डी टूट जाती है ना। .....टेस्ट करके फिर समझदार नहीं बनना। (अ.वा. 26.1.88 पृ.236 अंत)
- रुहानी कुमारियाँ ही बाप के साथ रह सकतीं। .....जब एक बार अनुभव कर लिया कि बाप क्या और माया क्या ! तो एक बार के अनुभवी कभी भी धोखे में नहीं आ सकते। माया भिन्न-2 रूप में आती है। कपड़ों के रूप में आएंगी, माँ-बाप के मोह के

रूप में आएगी, सिनेमा के रूप में आएगी, घूमने-फिरने के रूप में आएगी। माया कहेगी, यह कुमारियाँ हमारी बनें, बाप कहेंगे-हमारी बनें। तो क्या करेंगी? (अ.वा.9.5.84 पृ.304 अंत, 305 आदि)

- विशेष कुमारियों को शीतला नहीं बनना है, काली बनना है। शीतला भी किस रूप में बनना है, वह अर्थ भी तो समझती हो; लेकिन जब सर्विस पर हो, कर्तव्य पर हो तो काली रूप चाहिए। काली रूप होंगी तो कभी भी किस पर बलि नहीं चढ़ेंगी; लेकिन अनेकों को अपने ऊपर बलि चढ़ावेंगी। (अ.वा.28.5.70 पृ.255 मध्य)

- कई बच्चियाँ लिखती हैं कि शादी के लिए बहुत तंग करते हैं, क्या करें? जो मजबूत सेन्सीबुल बच्चियाँ होंगी वो कब ऐसे लिखेंगी नहीं। लिखती हैं तो बाबा समझ जाते हैं कि कोई रीढ़-बकरी है। यह तो अपने ही हाथ में है जीवन को बचाना। (मु.ता.23.9.70 पृ.3 मध्यांत)

- कुमारियाँ अगर जिद पर रहें कि हम शादी करना नहीं चाहते तो गवर्मेंट कुछ कर नहीं सकती। समझा सकते हैं, हम ससुर घर जावें ही क्यों जो पुजारी बन सबके आगे झुकना पड़े! मैं कुमारी हूँ तो सब मेरे आगे सिर झुकाते हैं। तो हम क्यों न पूज्य रहें! (मु.ता.7.11.73 पृ.3 मध्य)

- कुमारियाँ भी पतित बन पड़ती हैं। दोनों पतित बनते हैं। दोनों की दिल होती है तब ताली बजती है। अगर अपनी हिम्मत हो तो रड़ी ऐसे करे जो वह एकदम भाग जाए। (मु.ता.4.3.69 पृ.4 आदि)

- अब बाप कहते हैं इन कन्याओं द्वारा उद्धार कराऊँगा। कन्या का गायन है। कुमारी वह जो पियर और ससुर घर का 21 जन्मों लिए उद्धार करे। तुम इस (समय) कन्याएँ बनती हो ना। माताएँ भी कुमारी बन जाती है। .....कुमारियों ने कमाल की है। बाबा ने ही कुमारियों को उठाया है। .....देखते हो पवित्रता में सुख भी है तो मान भी है। (मु.ता.6.3.73 पृ.2 मध्यांत)

- “जब बाप मिल गया तो सर्व सम्बन्ध एक बाप से सदा हैं ही। पहले कहने माल थे, अभी प्रैक्टिकल हैं। भक्तिमार्ग में भी गायन ज़रूर करते थे कि सर्व सम्बन्ध बाप से हैं; लेकिन अब प्रैक्टिकल सर्व सम्बन्धों का रस बाप द्वारा मिलता है। ऐसे अनुभव करने वाली हो ना! जब सर्व रस एक बाप द्वारा मिलता है तो और कहाँ भी संकल्प जा नहीं सकता।” (अ.वा.19.12.84 पृ.77 अंत)

### पवित्रता-कुमारों के संदर्भ में

- “कुमारों का सदा प्योर और सतोगुणी रहने का यादगार कौन-सा है, मालूम है? सनतकुमार। उन्हों की विशेषता क्या दिखाते हैं? उन्हों को सदैव छोटा कुमार रूप ही दिखाते हैं। कहते हैं, उन्हों की सदैव 5 वर्ष की आयु रहती है। यह प्यूरिटी का गायन है। जैसे 5 वर्ष का छोटा बच्चा बिल्कुल प्योर रहता है ना। सम्बन्धों के आकर्षण से दूर रहता है। भल कितना भी लौकिक परिवार हो; लेकिन स्थिति ऐसी हो जैसे छोटा बच्चा प्योर होता है। वैसे ही प्योरिटी का यह यादगार है। कुमार अर्थात् पवित्र अवस्था। उसमें भी सिर्फ एक नहीं, संगठन दिखलाया है। दृष्टान्त में तो थोड़े ही दिखाए जाते हैं। तो यह आप लोगों का संगठन प्योरिटी का यादगार है। ऐसी प्योरिटी होती, जिसमें अपवित्रता का संकल्प वा अनुभव ही नहीं हो।” (अ.वा.11.3.71 पृ.41 अंत)

- सीता और रावण का खिलौना देखा है ना! रावण के तरफ सीता क्या करती है? पीठ करती है ना! अगर पीठ कर लिया तो सहज ही उनके आकर्षण से बच जाएँगे। .....तो कुमारों को यह खिलौना सामने रखना चाहिए। माया की तरफ मुँह कर लेते हैं। (अ.वा.11.3.71 पृ.41 आदि -मध्य)

- “सदैव हरेक नारी शरीरधारी आत्मा को शक्ति रूप, जगत माता का रूप, देवी का रूप देखना- यह है दिव्य नेत्र से देखना । कुमारी है, माता है, बहन है, सेवाधारी निमित्त शिक्षक है; लेकिन है कौन? शक्ति रूप । बहन-भाई के सम्बन्ध में भी कभी-2 वृत्ति और दृष्टि चंचल हो जाती है । इसलिए सदा शक्ति रूप हैं । शिव (बाबा की) शक्ति हैं । शक्ति के आगे अगर कोई आसुरी वृत्ति से आते तो उनका क्या हाल होता है, वह (भैंसा रूप असुर को) तो जानते हो ना ! हमारी टीचर नहीं, शिव शक्ति है । ईश्वरीय बहन है, इससे भी ऊपर सदा शिव शक्ति रूप देखो ।” (अ.वा.27.4.83 पृ.166 अंत, 167 आदि)
- कोई भी कर्मेन्द्रियाँ अपने बन्धन में नहीं बाँधे, इसको कहा जाता है- साक्षी । .....कभी आँख भी धोखा न दे । शारीरिक सम्बन्ध में आना अर्थात् आँख का धोखा खाना । तो कोई भी कर्मेन्द्रिय धोखा न दे । .....सदा यह याद रखो कि हमारे ऊपर बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी है । एक कमज़ोर तो एक के पीछे एक का सम्बन्ध है । (अ.वा.9.5.83 पृ.190 अंत, 191 अंत)
- कुमार सदा अपने को बाप के साथी समझते हो? .....वैसे भी जीवन में सदा कोई न कोई साथी बनाते हैं । .....ऐसा सच्चा साथी कभी भी मिल नहीं सकता । कितना भी प्यारा साथी हो; लेकिन देहधारी साथी सदा का साथ नहीं निभा सकते और यह रुहानी सच्चा साथी सदा साथ निभाने वाले हैं । तो कुमार अकेले हो या कम्बाइण्ड हो? फिर और किसको साथी बनाने का संकल्प तो नहीं आता है? कभी कोई मुश्किलात आए, बीमारी आए, खाना बनाने की मुश्किल हो तो साथी बनाने का संकल्प आएगा या नहीं? कभी भी ऐसा संकल्प आए तो इसे व्यर्थ संकल्प समझ सदा के लिए सेकेण्ड में समाप्त कर लेना; क्योंकि जिसे आज साथी समझकर साथी बनाएँगे, कल उसका क्या भरोसा! इसलिए विनाशी साथी बनाने से फायदा ही क्या! तो सदा कम्बाइण्ड समझने से और संकल्प समाप्त हो जाएँगे; क्योंकि सर्वशक्तिवान साथी है । (अ.वा.8.4.82 पृ.360 मध्य)
- ब्रह्माकुमार का अर्थ ही है सदा प्यूरिटी की पर्सनैलिटी और रॉयलटी में रहना । .....और यही प्यूरिटी की रॉयलटी धर्मराजपुरी की रॉयलटी देने से छुड़ाएगी । .....जो भी देखे, हरेक ब्रह्माकुमार और कुमारी से यह पर्सनैलिटी अनुभव करे । शरीर की पर्सनैलिटी, वह तो आत्माओं को देहभान में लाती है और प्युरिटी की पर्सनैलिटी देही-अभिमानी बनाए बाप के समीप लाती है । तो विशेष कुमार ग्रुप को अब क्या सेवा करनी है? .....अनुभव कराओ कि ब्रह्माकुमार अर्थात् वृत्ति, दृष्टि, कृति और वाणी परिवर्तन । साथ-2 प्यूरिटी की पर्सनैलिटी, रुहानी रॉयलटी का अनुभव कराओ । आते ही, मिलते ही इस पर्सनैलिटी की ओर आकर्षित हों । सदा बाप का परिचय देने वाले वा बाप का साक्षात्कार कराने वाले रुहानी दर्पण बन जाओ, जिस चित्र और चरित से सर्व को बाप ही दिखाई दे । किसने बनाया? बनाने वाला सदा दिखाई दे । .....कुमार ग्रुप गवर्मेन्ट को भी अपने परिवर्तन द्वारा प्रभु परिचय दे सकते हो । गवर्मेन्ट को भी जगा सकते हो; लेकिन वह परीक्षा लेंगे । ऐसे ही नहीं मानेंगे । तो ऐसे कुमार तैयार हैं? गुप्त सी.आई.डी. आपके भी पेपर लेंगे कि कहाँ तक विकारों पर विजयी बने हैं । .....सभी सोच रहे हैं पता नहीं कौन-से सी.आई.डी. आएँगे! जान-बूझकर क्रोध दिलाएँगे । पेपर तो प्रैक्टिकल लेंगे ना! प्रैक्टिकल पेपर देने लिए तैयार हो? (अ.वा.24.4.83 पृ.162 आदि, 163 मध्य)
- कुमार जीवन में बाप का बनना- कितने भाग्य की निशानी है! ऐसे अनुभव करते हो कि हम कितने बन्धनों में जाने से बच गए? .....देह के भान का भी बन्धन न हो । इस देह के भान से सब बन्धन आ जाते हैं । तो सदा अपने को आत्मा भाई-2 हैं- ऐसे ही समझकर चलते रहो । इसी स्मृति से कुमार जीवन सदा निर्विघ्न आगे बढ़ सकती है । संकल्प वा स्वप्न में भी कोई कमज़ोरी न हो, इसको कहा जाता है- विन्न-विनाशक । (अ.वा.8.4.82 पृ.359 अंत)

• कुमार जीवन श्रेष्ठ जीवन है; क्योंकि पवित्र जीवन है और जहाँ पवित्रता है वहाँ महानता है। कुमार अर्थात् शक्तिशाली, जो संकल्प करें वह कर सकते हैं। .....स्वयं भी पवित्र रह, औरों को भी पवित्र रहने का महत्व बता सकते हो। ऐसी सेवा के निमित्त बन सकते हो। जो दुनिया वाले असभ्व समझते हैं वह ब्रह्माकुमार चैलेंज करते हैं- तो हमारे जैसा पावन कोई हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि बनाने वाला सर्वशक्तिवान है। दुनिया वाले कितना भी प्रयत्न करते हैं; लेकिन आप जैसे पावन बन नहीं सकते। आप सहज ही पावन बन गए। सहज लगता है ना? .....कुमारों की परिभाषा ही है चैलेंज करने वाले, परिवर्तन कर दिखाने वाले, असभ्व को सभ्व करने वाले। दुनिया वाले अपने साथियों को संग के दोष में ले जाते हैं और आप बाप के संग में ले जाते हो। उन्हें अपना संग नहीं लगाते, बाप के संग का रंग लगाते हो, बाप समान बनाते हो। (अ.वा.30.1.88 पृ.241 अंत, 242 आदि)

• अगर कुमार निर्विघ्न कुमार हैं, तो ऐसे कुमार बहुत महान गाए जाते हैं, क्योंकि दुनिया वाले भी कुमारियों के बजाय कुमारों के लिए समझते हैं कि कुमार योग्य बन जाएँ- यह मुश्किल है। .....कुमार, कुमारियों से भी नम्बर आगे जा सकते हैं; लेकिन निर्विघ्न कुमार हों; क्योंकि कुमारों को बहुत करके यही विघ्न आता है कि कोई साथी नहीं है, कोई साथी चाहिए, कम्पैनियन चाहिए। तो किसी न किसी रीति से अपनी कम्पनी बना देते हैं। कोई-2 कुमार तो कम्पैनियन भी बना देते हैं और कोई कम्पनी में आते हैं- बातचीत करना, बैठना, फिर कम्पैनियन बनाने का भी संकल्प आता है; लेकिन ऐसे भी कुमार हैं जो बाप के सिवाय न कम्पनी बनाने वाले हैं, न कम्पैनियन बनाने वाले हैं। सदा बाप की कम्पनी में रहने वाले कुमार सदा सुखी रहते हैं। .....सारा परिवार कम्पनी है, फिर तो ठीक; लेकिन दो-तीन या एक कोई कम्पनी चाहिए, वह राँग है। .....आखिर तो विश्व को अपने आगे, बाप के आगे झुकाना तो है ना! .....कुमारी मैजॉरिटी फिर भी (कुमारों या कुमारी साथ ईश्वरीय) सेवा की कम्पनी में रहती है; लेकिन कुमारों को थोड़ा-सा कम्पनी का संकल्प आता है, तो पाण्डव भवन बनाकर सफल रहें, ऐसा कोई करके दिखाओ; लेकिन आज पाण्डव भवन बनाओ और कल (कम्पनी का) पाण्डव एक ईस्ट में चला जाए, एक वेस्ट में चला जाए- ऐसा पाण्डव भवन नहीं बनाना। बापदादा को कुमारों के ऊपर विशेष नाज है कि अकेले रहते भी पुरुषार्थ में चल रहे हैं। कुमार आपस में दो-तीन साथी बनकर क्यों नहीं चलते! साथी सिर्फ फीमेल ही नहीं चाहिए, दो कुमार भी रह सकते हैं; लेकिन एक/दो के निर्विघ्न साथी होकर रहें। (अ.वा.27.11.89 पृ.46 मध्य, 47 आदि)

• गृहस्थ-व्यवहार में रहते हुए- इसका मतलब यह नहीं कि कोई को गृहस्थ न है तो ज़रूरी जाना ही पढ़े। नहीं, व्यवहार तो ज़रूर चाहिए। सबको शरीर निर्वाह ज़रूर करना है। इसके लिए प्रबन्ध करना चाहिए। गृहस्थ में जाने से फिर बच्चों आदि में मोह पड़ जाता है। गृहस्थ में जो गए हैं उनको भी शरीर निर्वाह करना है। फिर कमल-फूल समान पवित्र रहना है। बुद्धि (कहीं) और तरफ न जाए। एक बाप को ही याद करना है; क्योंकि बाप के पास वापिस जाना है। अभी विकार की सीढ़ी चढ़नी न है। गन्धर्वी विवाह का जो गायन है, वह तो बचाने लिए कराया जाता है; क्योंकि बहुत सताते हैं। मनुष्य फिर कहते हैं, शादी बिगर सिजरे का नाम कौन निकालेगा? अभी बाप कहते हैं- पतित मनुष्य-सिजरे की अब दरकार नहीं है। अब तो पावन सिजरा चाहिए। (मु.ता.28.11.73 पृ.2 अंत, 3 आदि)

• गृहस्थ में रहने वाले भी (कुमार) बहुत होते हैं जो शादी करना पसन्द नहीं करते हैं, झंझट समझते हैं। शादी करना, फिर बाल-बच्चे आदि सम्भालना- ऐसी जाल फैलाएँ ही क्यों जो खुद ही फँस पड़ें! ऐसे बहुत यहाँ भी आते हैं। 40 साल हो गए

ब्रह्मचारी रहते। इसके बाद क्या शादी करेंगे? स्वतन्त्र रहना पसन्द करते हैं। तो बाप उनको देख खुश होते हैं। समझते हैं, यह तो ही बंधनमुक्त। बाकी रहा शरीर का बंधन। उसमें देह सहित सबको भूलने का होता है। (मु.ता.11.7.84 पृ.1 अंत)

- कुमार और कुमारियाँ तो हैं ही पवित्र। उन्हों को फिर समझाया जाता है ऐसे गृहस्थ में फिर जाना नहीं है जो फिर पवित्र होने का पुरुषार्थ करना पड़े। .....बैचलर्स(कुमार) तो सब धर्मों में बहुत रहते हैं; परन्तु सेफटी से रहना ज़रा मुश्किल होता है। फिर भी रावण राज्य में रहते हैं ना। विलायत में भी ऐसे बहुत मनुष्य शादी नहीं करते हैं। फिर पिछाड़ी में कर लेते हैं कम्पैनियनशिप के लिए। क्रिमिनल आई से नहीं करते हैं। (मु.ता. 19.9.84 पृ.2 मध्यांत)

- ईश्वरीय राह पर चलने वाले यहाँ का कोई भी मर्तबा नहीं लेंगे। अगर कोई कहते हैं मैं शादी करता हूँ तो आसुरी राह पर चलने वाला हो गया। बाप तो तुमको ले जाते हैं बहिस्त में, फिर अगर दोज़ख की याद आई, गटर में जाकर पड़े तो उनको कहेंगे टर्ट ब्रूटस। तुमको तो दैवी परिवार का बनना है। गटर में जाने की कब आस भी न रखना है। (मु.ता.27.1.75 पृ.1 मध्य)

- तुम्हारे पास गन्धर्वीं विवाह करते हैं, फिर भी दूसरे दिन (ही) खेल खलास कर देते। देरी थोड़े ही लगती है; क्योंकि स्त्री है माया का रूप। कितनी कशिश करती है! दोनों बिगर तो दुनिया नहीं चल सकती। तो भी पवित्र बनने का पुरुषार्थ इस समय ही होता है। (मु.ता.18.7.89 पृ.2 अंत)

- कोई भी कर्म-इन्द्रिय अपने तरफ आकर्षित न करे, सदा बाप की तरफ आकर्षित रहें। किसी भी व्यक्ति व वस्त की तरफ आकर्षण न जाए। ऐसे राज्य अधिकारी तपस्वी कुमार हो? बिल्कुल विजयी; क्योंकि वायुमण्डल तो कलियुगी है ना और साथ भी हँस और बगुलों का है। ऐसे वातावरण में रहते हुए स्वराज्यधारी होंगे तब सेफ रहेंगे। ज़रा भी दुनिया के वायब्रेशन की आकर्षण न हो। (अ.वा.29.10.81 पृ.94 अंत)

- सिर्फ कुमारों को एक बात अटेन्शन में रखनी है - सदा अपने को बिज़ी रखो, खाली नहीं। शरीर और बुद्धि दोनों से बिज़ी रहो। .....जैसे कर्म की दिनचर्या सेट करते हो ऐसे बुद्धि की भी दिनचर्या सेट करो। .....बिज़ी रहने वाले को किसी भी रूप से माया वार नहीं कर सकती। (अ.वा. 11.5.83 पृ.199 मध्य)

- अपने हाथ से भोजन बनाना बहुत अच्छा है। अपने लिए और बाप के लिए प्यार से बनाओ। पहले बाप को खिलाओ। .....कुमारों का आपस में ग्रुप होना चाहिए। कभी कोई बीमार पड़े तो एक की ड्यूटी हो। एक-दूसरे की मदद कर सेवा करो। कभी भी पूँछ लगाने का संकल्प नहीं करना, नहीं तो बहुत परेशान हो जाएँगे। बाहर से तो पता नहीं चलता; लेकिन अगर लगा दिया तो मुश्किल हो जाएगी। अभी तो स्वतंत्र हो, फिर ज़िम्मेवारी बढ़ जाएगी। सभी ने बाप को कम्पैनियन बनाया है ना? तो एक कम्पैनियन छोड़कर दूसरा बनाया जाता है क्या? ये तो लौकिक में भी अच्छा नहीं माना जाता। (अ.वा. 30.11.79 पृ.67 मध्य)

- अगर सिर्फ कुमार रहेंगे तो माया आएगी, ब्रह्माकुमार रहेंगे तो माया भाग जाएगी। तो जैसे ब्रह्मा आदि देव है, ब्रह्माकुमार भी आदि रत्न होंगे। आदि देव के बच्चे मास्टर आदि देव। आदि रत्न समझेंगे तो अपने जीवन के मूल्य को जानेंगे। (अ.वा.30.11.79 पृ.66 अंत)

- कुमारियों को कहते हैं 100 ब्राह्मणों से उत्तम एक कन्या और कुमार कितनों से श्रेष्ठ हैं? सात शीतलाओं के साथ एक कुमार दिखाते हैं तो आप 700 ब्राह्मणों से उत्तम हुए। .....माया कितना भी हिलाने की कोशिश करे; लेकिन आप अंगद के मुआफिक ज़रा भी नहीं हिलो, नाखून से भी हिला न सके। (अ.वा.30.11.79 पृ.68 अंत)

- कुमारों का चित्र सदा बाप के साथ रहने का दिखाया है, तुम्हीं से खेलूँ, तुम्हीं से खाऊँ- यह सखे रूप से चित्र देखा है । (अ.वा.1.12.78 पृ.91 आदि)
- यह भी पूछना है, कब से पवित्र रहते हो? अगर जवान लड़का है, कहते हैं 6 मास से पवित्र हैं। विश्वास नहीं करना चाहिए। विषय सागर में गिर पड़ते हैं। .....घड़ी-2 कशिश होती है। (मु.ता.20.3.74 पृ.3 अंत)
- शादी नहीं करते हो तो उनको घर से निकाल देते हैं। कहते हैं, कसाई बनो तो हमारे कुल में रहो, नहीं तो निकल जाओ। (मु.ता.13.4.69 पृ.3 अंत)

### पवित्रता- माताओं के संदर्भ में

- शिव भगवानुवाच्य 'माताएँ स्वर्ग का द्वार हैं' और शंकराचार्यवाच्य 'नारी नर्क का द्वार खोलती हैं'। तुम ब्राह्मणियाँ बन सबको स्वर्ग का द्वार दिखाती हो। (मु.ता.26.5.74 पृ.2 अंत)
- कलियुगी मनुष्यों की रसम-रिवाज़ ही अलग। इन्हों का है विषय सागर में गोता खाना। यह विष खाना तो मीरा को भी पसन्द नहीं था। अभी तुम कितनी मीराएँ हो! वह तो एक मीरा थी। अब तुम सब मीराएँ हो। कलियुगी लोक-लाज, कुल मर्यादा पसन्द नहीं करती हो। तुम कलियुगी लोक-लाज छोड़ती हो तो झगड़ा कितना होता है। तुमको बाप ने श्रीमत दी है- काम महाशत्रु है। (मु.ता.11.6.74 पृ.3 मध्य)
- कोई-2 बड़े अच्छे फूल लाते हैं। तड़फते हैं बाबा पास जावें। कैसे-2 युक्तियों से बच्चियाँ आती हैं। .....घर में मार खाती हैं तो भी कहतीं- शिवबाबा, हमारी रक्षा करो। उनको ही सच्ची द्रौपदी कहा जाता है। पास्ट जो हो गया सो फिर रिपीट होना है। कल पुकारा था न! आज बाबा आए हैं बचाने लिए। युक्तियाँ बतलाते हैं, ऐसे-2 भूँ-2 करो। तुम हो ब्राह्मणी। वह पति है कीड़ा। उनपर भूँ-2 करते रहो। बोलो, भगवानुवाच्य- काम महाशत्रु है। उनको जीतने से हम विश्व का मालिक बनते हैं। कोई न कोई समय अबलाओं के वाक्य लग जाते हैं तो फिर ठण्डे हो जाते हैं। कहते- अच्छा, भल जाओ। ऐसा बनाने वाले पास जाओ। मेरी तकदीर में नहीं है, तुम तो जाओ। ऐसे बहुत द्रौपदियाँ पुकारती हैं। बाबा लिखते हैं- भूँ-2 करो। कोई-2 स्त्रियाँ भी ऐसी होती हैं जिनको सूपनखा-पूतना कहा जाता है, फिर पुरुष उनको भूँ-2 करते हैं। वह कीड़ा बन पड़ती हैं। विकार बिगर रह नहीं सकती हैं। दुःशासन निर्विकारी और द्रौपदी विकारी पूतना बन पड़ती हैं। ऐसे भी होता है। .....कोई कहती हैं, पति मर गया है, फिर भी दृष्टि दूसरे तरफ जाती है। चाचा मिला, मामा मिला, गुरु मिला, जो आया उनसे काला मुँह कर देतीं वा चेष्टा रखती हैं, जिसको बाबा सेमी कहते हैं। बाप कहते हैं, विकारी जो बनते हैं उनका काला मुँह होता है। पतित माना काला मुँह। (मु.ता.16.7.74 पृ.3 मध्यादि)

- कलंकीधर बनने वालों पर कलंक भी लगते हैं। इसमें नाराज़ न होना चाहिए। अखबार वाले कुछ भी खिलाफ डालते हैं; क्योंकि पवित्रता की बात है। अबलाओं पर अत्याचार होंगे। कोई-2 माइयाँ भी ऐसे होती हैं डण्डा मारने (में) भी देरी नहीं करतीं पुरुषों को। कहेंगी, यह क्या करते हो? क्या सीखकर आए हो? सारी दुनिया कैसे चलती? तुम टेडे(टेढ़े) बन पड़े हो। अकासुर-बकासुर नाम भी हैं। स्त्रियों के भी नाम पूतना-सूपनखा है बरोबर। (मु.ता.10.8.79 पृ.2 मध्यांत)
- बड़े ते बड़ी चोट है काम विकार की। इसलिए कहा जाता है काम महाशत्रु है। यहीं पतित बनाते हैं। काम के ऊपर ही सारी कहानी है। स्त्री को भगाते हैं कामी पुरुष, नहीं तो भगाकर क्या करेंगे! ऐसे नहीं कि श्रीकृष्ण ने कोई काम के लिए भगाया। .....झगड़ा होता ही है विकार पर। विकार के लिए न छोड़ेंगे तो ज़रूर कहेंगे, इससे तो बर्तन साफ करें, वह अच्छा है। पोंछा-

झाड़ लगावेंगे; परन्तु पवित्र रहेंगे। इसमें हिम्मत बहुत चाहिए। जब कोई बाप की शरण में आते हैं तो फिर माया भी लड़ने शुरू करती है। पाँच विकारों की बीमारी और ही अधिक उथलती है। पहले तो पक्षा निश्चय बुद्धि होना है। जीते जी मरना है। (मु.ता.6.8.76 पृ.2 अंत)

- अबलाओं पर अत्याचार होते हैं यह भी गायन है। विष के कारण बहुत मार खाती हैं। बहुत पाप -आत्माएँ हैं। कोई-2 स्त्रियाँ भी ऐसी हैं जो विष के लिए पति को तंग करती हैं। (मु.ता.5.11.74 पृ.1 अंत)
- वह पति, जो विष पिलाते हैं, उनको कितना याद करते हैं और यहाँ बाप, जो अमृत पिलाते हैं, कौड़ी से हीरा बनाते हैं, उनको याद नहीं करते। ऐसे बाप को तो कितना याद करना चाहिए। (मु.ता. 9.4.72 पृ.3 अंत)
- बाप कहते हैं ड्रामा अनुसार तुम बाँधेली गाई हुई हो। अबलाओं पर अत्याचार होते ही इस विष पर हैं। ड्रामा अनुसार यह भी होना है। मार खा-खाकर आस्त्रिर आकर ब्रह्माकुमारियों की शरण लेती हैं। तुम जानते हो शिवबाबा की शरण ले(नी) होती है। सबसे समर्थ वह है। (मु.ता.5.8.71 पृ.4 अंत)
- काम का भूत है बहुत कड़ा। एकदम काला मुँह कर देते हैं। क्रोध काला मुँह नहीं करता है। रावणराज्य में ही यह (काम) विकार रूपी सर्प ढँसता है। स्त्री को नागिन कहते हैं। खुद भी तो बड़े नाग हैं ना! यह भी बुद्धि में नहीं आता है - नाग बिगर नागिन कैसे कही जावेंगी। उन्होंने स्त्री का नाम बिगाड़ा है। अब फिर बाप नाम बाला करते हैं। शिवाचार्य कहते हैं, हम माताओं द्वारा स्वर्ग का द्वार खोलते हैं। शंकराचार्य कहते हैं, माताएँ नर्क का द्वार खोलती हैं। (मु.ता.9.8.71 पृ.4 मध्यांत)
- पवित्रता पर ही झगड़ा पड़ता है। अगर ज़बरदस्ती गंदा करते हैं तो क्या कर सकती हो! अच्छा, शिवबाबा को याद करती रहो। केस तो बहुत होते हैं ना! विघ्न तो बहुत पड़ेंगे। (मु.ता.18.12.71 पृ.3 अंत)
- रुद्र ज्ञान यज्ञ में अनेक प्रकार के असुरों के विघ्न पड़ेंगे। फिर मनुष्य समझते हैं, असुर लोग ऊपर से गोबर, गन्द आदि डालते थे; परन्तु नहीं। तुम देखते हो, कितने विघ्न पड़ते हैं! अबलाओं पर अत्याचार होते हैं तब तो पाप का घड़ा भरेगा। बाप कहते हैं, थोड़ा सहन करना पड़ेगा। तुम अपने बाप को और वर्से को याद करते रहो। मार खाने समय भी बुद्धि में यह याद करो-शिवबाबा। (मु.ता.2.6.71 पृ.3 आदि)
- माताओं के लिए तो बहुत खुशी की बात है; क्योंकि बाप आया ही है माताओं के लिए। गऊपाल बनकर गऊ माताओं के लिए आए हैं। इसी का तो यादगार गाया हुआ है। (अ.वा.15.1.83 पृ.54 अंत)
- बापदादा देख रहे थे कि मेरे बच्चों को पुरानी दुनिया में कितना सहन करना पड़ता है। आत्मा के लिए मौज़ों का समय है; लेकिन शरीर से सहन भी करना पड़ता है। ...भागवत आप सबके सहन शक्ति के चरितों का यादगार है। तो सहन करना नहीं; लेकिन यादगार चरित बन रहे हैं। अभी तक भी यही गायन सुन रहे हो कि भगवान के बच्चों ने बाप के मिलन के सेह में क्या -2 किया। गोपीवल्लभ के गोप-गोपिकाओं ने क्या-2 किया। तो यह सहन करना नहीं; लेकिन सहन (शक्ति वाले) ही शक्तिशाली बना रहे हैं। (अ.वा.19.5.83 पृ.214 आदि-अंत)
- माताएँ तो बापदादा को अति प्रिय हैं; क्योंकि माताओं ने बहुत सहन किया है। तो बाप ऐसे बच्चों को सहन करने का फल सहयोग और सेह दे रहे हैं। सदा सुहागवती रहना। इस जीवन में कितना श्रेष्ठ सुहाग मिल गया है। जहाँ सुहाग है वहाँ भाग्य तो है ही। इसलिए सदा सुहागवती भव! (अ.वा.1.11.81 पृ.104 अंत)

- माताएँ वा बहनें भी सदा अपने शिवशक्ति स्वरूप में स्थित रहें। मेरा विशेष भाई, विशेष स्टूडेंट नहीं। (अ.वा.27.4.83 पृ.167 आदि)
- हरेक शक्ति द्वारा बाप प्रत्यक्ष हो जाए तभी जय-जयकार हो जाएगी। शक्तियों द्वारा बाप की प्रत्यक्षता हुई है तभी सदा शिव-शक्ति इकट्ठा दिखाया है। जो शिव की पूजा करेंगे वह शक्ति की ज़रूर करेंगे। बाप और शक्तियों का गहरा सम्बन्ध है; इसलिए पूजा साथ-2 होती है। शक्तियों ने बाप की प्रत्यक्षता का झण्डा लहराया है तभी तो पूजा होती है। (अ.वा.30.11.79 पृ.72 अंत)
- माताएँ गिरीं तो चरणों तक, चढ़ती हैं तो एकदम सिर का ताज। बहुत गिरा हुआ बहुत ऊँचा चढ़ जाए तो खुशी होगी ना! (अ.वा.30.11.79 पृ.73 आदि)
- शक्तियाँ अपने शक्ति रूप में आ गई तो सभी को वायब्रेशन फैलता रहेगा। गृहस्थी में रहते ट्रस्टी होकर रहेंगी तो न्यारी रहेंगी। अपना और अन्य का जीवन सफल बनाने के निमित्त बनेंगे। सदा इसी नशे में रहो, हम कल्प पहले वाली गोपियाँ हैं। बाप मिला गोया सब कुछ मिला। कोई अप्राप्त वस्तु है ही नहीं। (अ.वा.30.11.79 पृ.73 अंत)
- द्रौपदी ने भी पुकारा है, यह दुःशासन हमको नगन करते हैं। यह भी खेल दिखाते हैं कि द्रौपदी को कृष्ण 21 साड़ियाँ देते हैं। (मु.ता.2.9.89 पृ.3 मध्यादि)
- माताओं की मदद से बहुत नाम बाला हो सकता है। जितने आए हैं उतने सभी हैं इस सर्विस में मददगार बन जाएँ तो बहुत जल्दी नाम बाला कर सकते हो; क्योंकि युगलमूर्त बन चलने वाली हो। इसलिए ऐसे युगल सर्विस में बहुत अपना शो कर सकते हो। ऐसे कर्तव्य करके दिखाओ जो आपके कर्तव्य द्वर आत्मा को आपकी तरफ आकर्षण करे। माताओं का युप सो भी ऐसी माताएँ जो कि युगल रूप में चल रही हैं, उनको समय निकालना सहज हो सकता है। .....जैसे एक-2 कुमारी 100 ब्राह्मणों से उत्तम गाई हुई है वैसे एक-2 माता जगतमाता है। कहाँ 100 ब्राह्मण, कहाँ सारा जगत! तो किसकी ऊँची महिमा हुई? एक-2 माता जगतमाता बनकर जगत की आत्माओं के ऊपर तरस, स्नेह और कल्याण की भावना रखो। (अ.वा.1.3.71 पृ.31 आदि, 32 अंत)
- बाप कहते हैं, माताओं का नाम बहुत बाला करना है। पुरुषों को इसमें मदद करनी चाहिए। यह पवित्र रहने चाहती हैं तो पवित्र रहने दो। बाप सिद्ध कर बतलाते हैं, नर्क का द्वार तो पुरुष बनते हैं। स्त्री का पति मर जाता है तो स्त्री विधवा बन जाती है। शादी भी नहीं करती। पुरुष तो दो-तीन शादियाँ भी कर लेते हैं। वह थोड़े ही पक्नीव्रता बनते हैं। तो जास्ती नर्क का द्वार कौन ठहरे? शास्त्रों में तो द्रौपदी को पाँच पति दिखाई(दिखाए) हैं। इससे भी कितना नुक सान कर दिया है। .....लम्पट पुरुष होते हैं। 4-5 स्त्रियाँ भी रखते हैं। पैसे वाले बड़े-2 आदमी बहुत गन्दे होते हैं। स्त्री कब दूसरा पुरुष नहीं करती। तो बाप आकर माताओं और कुमारियों को उठाते हैं। .....मनुष्य समझते हैं, विकार बिगर सृष्टि कैसे बढ़ेगी! बाप कहते हैं, अब यह बिछू-टिण्डन वाली सृष्टि नहीं चाहिए। .....गवर्मेंट भी कहती है पैदाइश कम हो। .....माँ-बाप कुमारी को कुसने लिए कंस के हवाले करते हैं। .....कंस-जरासंधी, रावण आदि यह सब आसुरी नाम हैं। (मु.ता.6.3.73 पृ.3 आदि)
- माताओं का ही मुख्य नाम है। सन्यासियों का भी उद्धार माताओं को करना है। (मु.ता.7.3.73 पृ.3 आदि)
- त्रिया चरित तो मशहूर हैं। एक खेल है जिसमें दिखाया है- अपन को बचाने लिए स्त्री कितने चरित करती हैं। तुम बहुत युक्तियाँ कर सकती हो। भक्ति में बैठ जाओ। कहो- बाबा ने हमको साक्षात्कार कराया है, पतित दुनिया विनाश होने वाली है।

हम वैकुण्ठ भी देखते हैं। बाप कहते हैं- खबरदार रहना! विष पिया तो दोजक(दोजख) चले जावेंगे; पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे। मैंने तो अब प्रतिज्ञा की है। ऐसे -2 युक्ति से समझाना है- तुमको विष चाहिए तो भल दूसरी शादी कर लो। मुझे तो बाप से वर्सा लेना है; परन्तु पहले तो पक्की नष्टेमोहा वाली चाहिए। ऐसे नहीं फिर बच्चे आदि याद पड़ते रहें। .....जो तीखे होंगे वह तो कहेंगे- कुछ भी करो, मार डालो, हम पवित्र ज़रूर बनेंगे। भल बाहर जाकर गन्दा होता रहे। हम उनके पीछे क्यों अपनी जान गवाएँ! .....मार-मारकर मार दे, तुम शिवबाबा की याद में रहो। बाबा की याद में मर जाओ तो भी बेड़ा पार है। बोलो, तुम हमको सताते हो, हम गवर्मेंट को चिट्ठी लिखते हैं- हम भारत को पावन बनाने पवित्र बनती हैं, यह पवित्र रहने न देता है। (मु.ता.21.9.73 पृ.2 मध्य-अंत, 3 आदि)

- अधर कुमारी, कुमारी कन्या का मंदिर भी है न। गृहस्थी से निकल कर फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्हों को अधर कहा जाता है। (मु.ता.24.4.73 पृ.4 मध्य)
- बच्चियाँ कहती हैं, हमको बहुत मारते हैं, तंग करते हैं। बाबा, आप अपनी शरण में लो; परन्तु इसमें भी बड़ी खिटपिट होती है। गवर्मेंट की खिटपिट होती है, फिर अखबारों में धम-2 मचा देते हैं। तो बाँधेलियों को (तालों में) बंद कर देते हैं। इसलिए बड़ा खबरदारी से कदम उठाना है। एक के कारण बहुत बाँध हो जाती हैं। (मु.ता.20.3.74 पृ.4 अंत)
- बाप आ करके माताओं को गुरु पद देते हैं। (मु.ता.6.3.73 पृ.2 मध्य)
- माता की महिमा है। सभी धर्म वालों के ऊपर माता होनी चाहिए। सभी को माँ जगदम्बा बैठ लोरी दे। बच्चे पैदा होते हैं माता द्वारा। जगदम्बा सभी की माता ठहरी। तुम सभी को उनके आगे सिर झुकाना है। माता समझा सकती है - यह भ्रष्टाचारी दुनिया श्रेष्ठाचारी कैसे बने वा इस भारत में शान्ति कैसे स्थापन हो। (मु.ता.11.1.72 पृ.3 मध्यादि)
- कई बच्चियाँ बहुत याद करती हैं। शिवबाबा कहने से ही कई बच्चों को प्रेम का(के) आँसू आ जाते हैं - कब जाए मिलेंगे। देखा नहीं है तो भी तड़फते रहते हैं। (मु.ता. 20.5.71 पृ.3 अंत)
- यह तो बाप जानते हैं विकार के लिए कितने झगड़े चलते हैं। विघ्न पड़ते हैं। कहते हैं- बाबा, हमको पवित्र रहने नहीं देते। बाप कहते हैं- अच्छा बच्चे, तुम याद की यात्रा में रह, जन्म-जन्मांतर के पाप जो सिर पर हैं वह बोझा उतारो। घर में बैठे शिवबाबा को याद करते रहो। (मु.ता.5.9.84 पृ.2 मध्यादि)
- बाबा कहते हैं, यह अत्याचार सहन करने पड़ेंगे बाबा के निमित्त। (मु.ता.20.9.92 पृ.3 मध्यादि)
- वास्तव में बाप तो आकर माताओं का मर्तबा ऊँच करते हैं। गाया भी जाता है - पहले लक्ष्मी, पीछे नारायण। तो लक्ष्मी की इज्जत जास्ती ठहरी। (मु.ता.19.12.71 पृ.2 अंत)
- माताओं को विशेष खुशी होनी चाहिए कि हमारे लिए खास बाप आए हैं। और (धर्मपितायें) जो भी आए, उन्होंने पुरुषों को आगे किया। धर्मपिताएँ धर्म स्थापन करके चले गए। माताओं को किसी ने भी नामी-ग्रामी नहीं बनाया और बाप ने “पहले माता” का सिलसिला स्थापन किया। तो माताएँ सिकीलधी हो गईं ना! कितने सिक से बाप ने ढूँढ़ा और अपना बना लिया। (अ.वा.11.5.83 पृ.201 आदि)
- जब से बापदादा ने माताओं के ऊपर नज़र डाली तब से दुनिया वालों ने भी “लेडीज़ फर्स्ट” का नारा ज़रूर लगाया। (अ.वा.21.3.83 पृ.96 मध्य)

- माताओं का एक अभ्यास होता है, उस अभ्यास को पक्षा करने के लिए बुलाया है। वो कौन-सा अभ्यास है जो कुमारियों में नहीं, माताओं में होता है? (योगाग्रि में) सती बनने का। सती बनना अर्थात् पूरा ही बलि चढ़ना। सती बनने का मुख्य गुण क्या होता है? लगन लगाए बैठी होती है। .....सती बनने के लिए (दैहिक सुख का) त्याग भी चाहिए। नष्टमोहा चाहिए। (अ.वा.15.9.69 पृ.104 आदि)

### पवित्रता-गृहस्थियों के संदर्भ में

- घर मन्दिर लगे, गृहस्थी नहीं। जैसे मन्दिर का वायुमण्डल सबको आकर्षित करता, ऐसे आपके घर से पवित्रता की खुशबूआए। जिस प्रकार अगरबत्ती की खुशबू चारों ओर फैलती, इसी प्रकार पवित्रता की खुशबू दूर-2 तक फैलनी चाहिए, इसको कहा जाता है(अति-अनुसूर्या की) पवित्र प्रवृत्ति। (अ.वा.17.10.81 पृ.48 अंत)
- अपनी विशेषता को जानते हो? इस ग्रुप की विशेषता क्या है? यह ग्रुप संन्यासी, महात्माओं को भी नीचे झुकाने वाला है। संन्यासी अर्थात् आजकल की महान आत्माएँ। तो आजकल के महात्मा कहलाने वालों को भी अपने जीवन द्वारा बाप का परिचय दिलाने वाले हो। .....सभी की गाड़ी दो पहिये वाली ठीक चल रही है ना? कभी कोई पहिया नीचे-ऊपर तो नहीं होता? एक पहिया आगे चले, दूसरा पीछे, ऐसे तो नहीं होता! आप सबकी यही विशेषता हो - जो एक/दो से आगे भी रहो और एक/दो को आगे करने वाले भी। एक/दो को आगे रखना ही आगे होना है। ऐसे नहीं, मैं पुरुष हूँ और वह समझो, मैं शक्ति हूँ। अगर आप शक्ति हो तो वह पाण्डव भी कम नहीं, तो शक्तियाँ भी कम नहीं। दोनों ही बाप के सहयोगी हैं; इसलिए पाण्डव आगे हैं या शक्तियाँ आगे हैं, यह भी नहीं कह सकते। शक्तियों को ढाल इसलिए कहते हैं; क्योंकि वह अपने को बहुत समय से नीचे समझती हैं; इसलिए नशा चढ़ाने के लिए आगे रखा है। शक्तियों को आगे रखने में ही पाण्डवों को फायदा है। शक्ति पीछे रहेगी तो आपको भी पीछे खींच लेंगी; क्योंकि शक्तियों में आकर्षण करने की शक्ति ज़्यादा होती है। इसलिए शक्तियों को आगे रखना ही आपका आगे होना है। (अ.वा.29.10.81 पृ.92 मध्य-अंत, 93 आदि)
- प्रवृत्ति में रहते भी सदा देह के सम्बन्ध से निवृत्त रहो, तभी पवित्र प्रवृत्ति का पार्ट बजा सकेंगे। मैं पुरुष हूँ, यह स्त्री है, यह भान स्वप्न में भी नहीं आना चाहिए। आत्मा भाई-भाई है, तो स्त्री-पुरुष कहाँ से आए! युगल तो आप और बाप हो ना, फिर यह मेरी युगल है- ऐसा कैसे कह सकते? यह तो निमित्त मात्र सिर्फ सेवा अर्थ है, बाकी कम्बाइण्ड रूप तो आप और बाप हो। फिर भी बापदादा मुबारक देते हैं हिम्मत पर। (अ.वा.29.10.81 पृ.94 आदि)
- जो प्रवृत्ति में रहते हैं उन्हों के लिए सहज बात इसलिए है कि उन्हों के सामने सदैव कन्ट्रास्ट है। कन्ट्रास्ट होने के कारण निर्णय करना सहज हो जाता है। निर्णय करने की शक्ति कम है; इसलिए सहज नहीं भासता है। एक बार जब अनुभव कर लिया कि इससे प्राप्ति क्या है तो फिर निर्णय हो ही जाता है। ठोकर का अनुभव (डिस्चार्ज का) एक बार किया तो फिर बार-2 थोड़े ही ठोकर खाएँगे। निर्णय शक्ति कम है तो फिर मुश्किल भी हो जाता है। तो यह (गृहस्थी) प्रवृत्ति में अथवा परिवार में रहते हैं, उसके अनुभवी होने के कारण, सामने (मेल-फीमेल का) कन्ट्रास्ट होने के कारण, धोखे से बच जाते हैं। (अ.वा.13.3.71 पृ.46 अंत)
- अभी तुम (दोनों) ज्ञान चिक्षा पर बैठ गोरा बनते हो। बच्चों को भी यह पुरुषार्थ कराना है। हम ज्ञान चिक्षा पर बैठे हैं, तुम फिर काम चिक्षा पर क्यों बैठने की करते हो। अगर पुरुष ज्ञान उठाया, स्त्री न उठाती तो भी झगड़ा पड़ता है। यज्ञ में विघ्न तो पड़ते ही हैं। यह ज्ञान कितना लम्बा-चौड़ा है। (मु.ता.1.5.72 पृ.2 अंत) मु.ता.4.5.77

- बाप किसको भी कान से पकड़ सकते हैं। शर्म नहीं आता है! बाबा तुमको कहते हैं (डिस्चार्ज होकर) काला मुँह न करो। प्रतिज्ञा करो। क्या तुम यह प्रतिज्ञा नहीं कर सकते हो? भगवानुवाच है ना! आत्माओं का बाप है। एक (शिवबिदु,) वही सभी को पावन बनावेगे। वही कहते हैं तुम पतित, पत्थर बुद्धि हो। अब बाप कहते हैं जास्ती पापात्मा न बनो। काला मुँह मत करो। अगर करेंगे तो धर्मराज डण्डा मार खत्म कर देंगे। यह बाप ही कह सकते हैं। तुमको शर्म नहीं आता है! यह सिर्फ अन्तिम जन्म पवित्र बनो तो तुम गोरा बनेंगे। तुमने 63 जन्म काला मुँह किया है तो भी अजन पेट नहीं भरा है। एक जन्म (के) लिए पवित्र नहीं बनते हो। तुमको बहुत सज्जा मिलेगी। धर्मराज हड्डी-2 तोड़ देंगे। तो भी सुनते नहीं। बाबा अथवा मम्मा युक्ति से कह सकते हैं। माँ तुमको कहती है काला मुँह न करो। तुम बिल्कुल ही पत्थर बुद्धि, कंगाल, विषयी बन गए हो। अब काला मुँह मत करो, नहीं तो थप्पड़ मार देंगे (अनुसूईया जैसी) माँ कह सकती हैं। बच्चों को हक नहीं है। भाई-बहन तो आपस में लड़ पड़े। माँ-बाप का तो रिगार्ड रखते हैं। वह भी समझ कर बोलना पड़ता है, नहीं तो झगड़ा हो जाए। (मु.ता.4.2.72 पृ.3 मध्यादि)
- काला मुँह तो करते हैं ना। नगन तो होते हैं ना। बाप कहते हैं कोई भी हालत में नगन न होना है। (मु.ता.24.9.77 पृ.2 अंत)
- बड़ी युक्ति से स्थापना होती है। विन्न भी पड़ेंगे। कितने अत्याचार होते हैं! मैजॉरिटी पुरुष जास्ती तंग करते हैं। कहाँ-2 स्त्रियाँ भी बड़ा तंग करती हैं। अब बाप (वैष्णव दैवी की यादगार तीन पिडियों वाली) माताओं द्वारा स्वर्ग के द्वार खोलते हैं। हैं तो (दो) पुरुष भी। माता जन्म देती है तो उनको पुरुष से इज़ाफा ज(स्ती) मिलना है। (मु.ता.9.1.74 पृ.3 मध्य)
- जबकि बुद्धि की सगाई बाप से हुई है तो उनको याद करो ना! फिर दूसरे को क्यों याद करते हो? शर्म नहीं आता? क्रिमिनल आँखें हो जाती हैं। सगाई अर्थात् बुद्धि में शिवबाबा की याद। स्त्री-पुरुष की भी ऐसी सगाई हो जाती है ना! याद ठहर जाती है। (मु.ता.14.11.74 पृ.2 मध्य)
- बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं यह हो नहीं सकता जो दोनों इकट्ठे रह सके। (मु.ता.26.12.85 पृ.1 अंत)
- पहलवान से माया भी पहलवान हो लड़ती है। ...8-10 वर्ष बाद भी फिर काम से हार खा लेते हैं। इतना काम बलवान है! देह-अभिमान में आने से झट विकार मुँह दिखाने आवेंगे। (मु.ता.28.11.74 पृ.3 आदि)
- लिखते हैं- बाबा, हम काला मुँह कर बैठा, अब आप कृपा करो, क्षमा करो। अब इसमें क्षमा की तो बात ही नहीं। तमोप्रधान काम करने से तुम ही गिर पड़ते हो। वह खुशी, वह याद की यात्रा रह न सके। अपने पैर पर आपे ही कुल्हाड़ा मारते हैं। बाप सभी को आशीर्वाद देते हैं क्या? वह तो बात ही नहीं। संगदोष में आए अथवा माया के वश हो कुछ कर लिया। अपने पैर पर कुल्हाड़ा मारा। (मु.ता.29.11.74 पृ.3 आदि)
- इस प्रकार की कहानी है- एक कुमारी मटका भरने आती थी, एक कुमार को कहा यह मटका मेरे सिर पर ऐसे रखो जो अंग, (का झटका/छितर) अंग से न लगे। कहानी बहुत अच्छी बनाते हैं, जो इस (पु.संगम के) समय काम आती है। उसने कहा, हम ऐसे ही (ज्ञान-जल का) मटका रखेंगे। अच्छा, फिर अनायास दोनों की सगाई हो गई। सगाई तो बिगर देखे कर लेते हैं। सो जब एक/दो को देखा तो कुमार ने कहा, यह तो वही कुमारी है, जिसने हमसे प्रण लिया था। बस, वह प्रण याद आने से अलग-2 सो गए। प्रतिज्ञा की तलवार बीच में थी- अंग, अंग से न लगे। थोड़े दिन बाद माँ-बाप ने पूछा तो बोला, हमारा अंग, अंग से नहीं लगता है; क्योंकि हमारा ऐसे प्रण किया हुआ था। ऐसे कुछ (पु. संगम की) कहानी है। यह भी ऐसे हैं ना! स्त्री-पुरुष साथ रहते भी समझते हैं हमारी तो प्रतिज्ञा की हुई है, अंग अंग से न लगे। यहाँ बीच में ज्ञान तलवार है। उनकी थी प्रतिज्ञा की तलवार।

.....परन्तु लिखते हैं- बाबा, कशिश होती है। वह अवस्था अजुन पक्की नहीं हुई है। कुछ न कुछ अंग लग जाते हैं। (मु.ता.6.9.84 पृ.2 मध्यादि)

- स्त्री के लिए पति से पूछो वा स्त्री से पति के लिए पूछो तो झट से बताएगी इनमें यह खामियाँ हैं। इस बात में यह तंग करता है या तो कहेंगे, हम दोनों ठीक चलते हैं, कोई किसको तंग नहीं करते हैं। दोनों एक/दो के मददगार, साथी हो चलते हैं। कोई तो एक/दो को गिराने की कोशिश करते हैं। (मु.ता.29.10.84 पृ.3 अंत)
- पवित्रता के लिए भी बहुत मूँझते हैं कि क्या करें? कैसे कम्पेनियन होकर रहें? कम्पेनियन होकर रहने का भी अर्थ क्या है? विलायत में जब बूढ़े होते हैं तो फिर कम्पेनियन रखने के लिए शादी कर लेते हैं, (बुढ़ापे में) सम्भाल के लिए। ऐसे बहुत हैं जो ब्रह्मचारी हो रहना पसन्द करते हैं। (मु.ता.11.7.84 पृ.1 अंत)
- बाबा ऑर्डिनेन्स निकालते हैं- बच्चे, काम महाशालु है। यह तुमको आदि, मध्य, अन्त दुःख देते हैं। अभी तुमको गृहस्थ-व्यवहार में रहते हुए पावन बनना है। (मु.ता.11.7.84 पृ.1 मध्य)
- प्रवृत्ति वालों को बापदादा एक बात के लिए मुबारक देते हैं कि जब से प्रवृत्ति मार्ग वाले सेवा साथी बने हैं तो सेवा में नाम बाला करने से एग्जाम्पल बने हैं। पहले लोग समझते थे कि ब्रह्माकुमार या ब्रह्माकुमारी बनना माना घरबार छोड़ना.. यह डर था ना! और अभी समझते हैं कि इन्हों का तो घर भी बहुत अच्छा चलता, धन्या भी बहुत अच्छा चलता, खुद भी खुश रहते, तो यह देख करके समझते हैं कि हम भी बन सकते हैं। तो एग्जाम्पल बन गए ना! (अ.वा.25.11.95 पृ.43 आदि)
- एक तो किसको दुःख नहीं देना है। ऐसे नहीं, कोई को विष चाहिए, वह नहीं देते हो तो यह कोई दुःख देना है। ऐसे तो बाप कहते नहीं हैं। कोई ऐसे भी बुद्धि निकलते हैं जो कहते हैं- बाबा कहते हैं ना, किसको दुःख नहीं देना है, अब यह विष माँगते हैं तो उनको देना चाहिए, नहीं तो यह भी किसको दुःख देना हुआ ना। ऐसे समझने वाले मुद्दमति भी हैं। बाप तो कहते हैं- पवित्र ज़रूर बनना है। आसुरी चलन और दैवी चलन की भी समझ चाहिए। (मु.ता.25.10.89 पृ.3 अंत)
- सदा कमल आसन पर विराजमान रहो। कभी भी पानी वा कीचड़ की बूँद स्पर्श न करे। कितनी भी आत्माओं के सम्पर्क में आते सदा न्यारे और प्यारे रहो। सेवा के अर्थ सम्पर्क है। देह का सम्बन्ध नहीं है, सेवा का सम्बन्ध है। प्रवृत्ति में (दैहिक) सम्बन्ध के कारण नहीं रहे हो, (ईश्वरीय) सेवा के कारण रहे हो। (अ.वा.28.4.82 पृ.400 अंत, 401 आदि)
- फलक से कहते हैं ना कि आग-कपूस इकट्ठा रहते भी आग नहीं लग सकती। चैलेन्ज है ना! ...तो आप सभी युगलों की ये चैलेन्ज है या थोड़ी-2 आग लगेगी फिर बुझा देंगे? (अ.वा.16.11.95 पृ.24 आदि)
- पढ़ाई हमेशा घूरिटी में ही होती है। पवित्रता से धारणा अच्छी होती है। घूरिटी बिगर नॉलेज ठहर न सकेगी। विकार में गया और बुद्धि से प्वाइंट्स एकदम निकल जावेंगी। जैसे गूंगा बन जावेगा। (मु.ता.13.2.73 पृ.1 अंत)
- अपने को कमल-पुष्ट समान अति न्यारा और सदा बाप का प्यारा अनुभव करते हो? कमल-पुष्ट एक तो हल्का होने के कारण जल में रहते भी जल से न्यारा रहता है, प्रवृत्ति होते हुए भी स्वयं निवृत्त रहता है। ऐसे ही आप सब भी लौकिक या अलौकिक प्रवृत्ति में रहते हुए निवृत्त अर्थात् न्यारे रहते हो? निवृत्त रहने के लिए विशेष अपनी वृत्ति को चैक करो। जैसी वृत्ति वैसी प्रवृत्ति बनती है। वृत्ति कौन-सी रखनी है? आत्मिक वृत्ति और रुहानी वृत्ति। इस वृत्ति द्वारा प्रवृत्ति में भी रुहानियत भर जाएगी अर्थात् प्रवृत्ति में भी रुहानियत के कारण अमानत समझ कर चलेंगे। ...मेरेपन में ही मोह के साथ-2 अन्य विकारों की भी प्रवेशता होती है। मेरापन समाप्त होना अर्थात् विकारों से मुक्त, निर्विकारी अर्थात् पवित्र बनना है, जिससे प्रवृत्ति भी पवित्र

प्रवृत्ति बन जाती है। विकारों का नष्ट होना अर्थात् श्रेष्ठ बनना है। .....प्रवृत्ति को पवित्र प्रवृत्ति बनाया है? सबसे पहली प्रवृत्ति है अपनी देह (आत्मा &) की प्रवृत्ति, फिर है देह के (पवित्र) सम्+बंध की प्रवृत्ति। तो पहली प्रवृत्ति, देह के हर कर्म-इन्द्रिय को पवित्र बनाना है। (अ.वा.24.10.75 पृ.221 आदि, 222 आदि)

- जब तक देह की प्रवृत्ति को पवित्र नहीं बनाया है तब तक देह के सम्बन्ध की प्रवृत्ति, चाहे हृद की और चाहे बेहृद की हो, उसको भी पवित्र प्रवृत्ति नहीं बना सकेंगे। ब्रह्माकुमार और ब्रह्माकुमारियों की प्रवृत्ति कौन -सी है? जैसे हृद के सम्बन्ध की प्रवृत्ति है वैसे ब्रह्माकुमार और कुमारी के नाते से सारे विश्व की आत्माओं से साकारी भाई-बहन का सम्बन्ध- इतनी बड़ी बेहृद की प्रवृत्ति है; लेकिन पहले अपनी देह की प्रवृत्ति बनावें, तब बेहृद की प्रवृत्ति को भी पवित्र बना सकेंगे। कहावत है- ‘चैरिटी बिगिन्स एट होम’, पहले अपनी देह की प्रवृत्ति अर्थात् घर को पवित्र बनाने की सेवा करनी है, फिर बेहृद की करनी है। तो पहले अपने आपसे पूछो कि अपने शरीर रूपी घर को पवित्र बनाया है? संकल्प को, बुद्धि को, नयनों को और (वाचा से) मुख को रुहानी अर्थात् पवित्र बनाया है? जैसे दीपावली पर घर के हर कोने को स्वच्छ करते हैं, कोई एक कोना भी न रह जाए, इतना अटेन्शन रखते हैं- ऐसे हर कर्म-इन्द्रिय को स्वच्छ बनाकर आत्मा का दीपक सदाकाल के लिए जगाया है? (अ.वा.24.10.75 पृ.222 आदि)

### पवित्रता- अधर कुमारों (पाण्डवों) के संदर्भ में

- पाण्डव अर्थात् संकल्प और स्वप्न में भी हार न खाने वाले। विशेष यह स्लोगन याद रखना कि पाण्डव अर्थात् सदा विजयी। स्वप्न भी विजय का आए। इतना परिवर्तन करना। सभी जो बैठे हो, विजयी पाण्डव हो। वहाँ जाकर हार खा ली, यह पत तो नहीं लिखेंगे? माया आ नहीं जाती; लेकिन आप उसे खुद बुलाते हो। कमज़ोर बनना अर्थात् माया को बुलाना। तो किसी भी प्रकार की कमज़ोरी माया को बुलाती है तो पाण्डवों ने क्या प्रतिज्ञा की? सदा विजयी रहेंगे। ...ऐसे प्रतिज्ञा करने वालों को सदा बापदादा की बधाई मिलती रहती है। (अ.वा.17.4.83 पृ.151 मध्य)
- दुनिया में और भी (विकारी) पुरुष हैं; लेकिन उन्हों से न्यारे और (एवर प्योर) बाप के प्यारे बन गए; इसलिए पुरुषोत्तम बन गए। औरों के बीच में अपने को अलौकिक समझते हो ना! चाहे सम्पर्क में लौकिक आत्माओं के आते; लेकिन उनके बीच में रहते हुए भी मैं अलौकिक न्यारी हूँ, यह तो कभी नहीं भूलना है ना! क्योंकि आप बन गए हो हंस, ज्ञान के मोती चुगने वाले होली हंस हो। वह हैं गन्द खाने वाले बगुले। वे गन्द ही खाते, गन्द ही बोलते... तो बगुलों के बीच में रहते हुए अपना होलीहंस जीवन कभी भूल तो नहीं जाते! कभी उसका प्रभाव तो नहीं पड़ जाता? वैसे तो उसका प्रभाव है मायावी और आप हो मायाजीत, तो आपका प्रभाव उन पर पड़ना चाहिए, उनका आप पर नहीं। तो सदा अपने को होलीहंस समझते हो? ...तो होलीहंस सदा स्वच्छ, सदा पवित्र। पवित्रता ही स्वच्छता है। ...होलीहंस संकल्प भी अशुद्ध नहीं कर सकते। संकल्प भी बुद्धि का भोजन है। अगर अशुद्ध वा व्यर्थ भोजन खाया तो सदा तन्दुरुस्त नहीं रह सकते। (अ.वा.17.4.83 पृ.150 मध्य, 151 आदि)
- अपने को अधर कुमार तो समझते हो ना? संकल्प वा सम्बन्ध में अधर कुमार की सृति नहीं रहती है? जैसे देखो, पहले बहन-भाई की सृति में स्थित किया गया, उसमें भी देखा गया कि बहन-भाई की सृति में भी कुछ देह-अभिमान में आ जाते हैं; इसलिए उससे भी ऊँची स्टेज (आत्मा-2) भाई-भाई की बताई। ऐसे ही अपने को अधर कुमार समझ कर चलते हो गोया प्रवृत्ति मार्ग के बन्धन में बँधी हुई आत्मा समझ कर चलते हो। इसलिए अब इस सृति से भी परे। अधर कुमार नहीं; लेकिन ब्रह्माकुमार हूँ। अब मरजीवा बन गए तो मरजीवा जीवन में अधर कुमार का सम्बन्ध है क्या? मरजीवा जीवन में प्रवृत्ति वा

गृहस्थी है क्या? मरजीवा जीवन में बाप-दादा ने किसको गृहस्थी (की गिरी हस्ती) बना कर नहीं दी है। एक बाप और सभी बच्चे हैं ना, इसमें गृहस्थीपन कहाँ से आया? तो अपने को ब्रह्माकुमार समझ कर चलना है। अगर अधर कुमार की स्मृति भी रहती है तो जैसी स्मृति वैसी स्थिति भी रहती है। इस कारण अभी इस स्मृति को भी खत्म करो कि हम अधर कुमार हैं। नहीं, ब्रह्माकुमार हूँ। जो बापदादा ने छ्यूटी दी है उस छ्यूटी पर श्रीमत के आधार पर जा रहा हूँ। मेरी प्रवृत्ति है या मेरी युगल है, यह स्मृति भी राँग है। युगल को युगल की वृत्ति से देखना वा घर को अपनी प्रवृत्ति की स्मृति से देखना इसको मरजीवा कहेंगे? जैसे देखो, हर चीज़ को सम्भालने के लिए ट्रस्टी मुकर्रर किए जाते हैं। यह भी ऐसे समझ कर चलो- यह जो हृद की रचना बापदादा ने ट्रस्ट बनाकर सम्भालने के लिए दी है, वह मेरी रचना नहीं; लेकिन बापदादा द्वारा ट्रस्टी बन इसको सम्भालने के लिए निमित्त बना हुआ हूँ। ट्रस्टीपन में मेरापन नहीं होता। ...जैसे साकार में बाप को देखा, लौकिक सम्बन्ध की वृत्ति, दृष्टि वा स्मृति स्वप्न में भी संकल्प में थी? तो फॉलो फादर करना है ना। क्या वही लौकिक सम्बन्धी साथ नहीं रहते थे क्या? तो आप लोगों को भी साथ रहते हुए इस स्मृति और वृत्ति में चलने की हिम्मत रखनी है। इस भट्टी में क्या परिवर्तन करके जाएँगे? अधर कुमार का नाम-निशान समाप्त। (अ.वा.12.7.72 पृ.322 आदि, 323 मध्य)

- रोज़-2 कितना समझाया जाता है, फिर भी साण्डेपने का देह-अभिमान बड़ा मुश्किल टूटता है। यही (जानवरियत का) महारोग है। .....देही-अभिमानी बने तब काम पर जीत पा सकें। (मु.ता.15.11.74 पृ.3 अंत)
- आज बहुत अच्छी रीति याद करते हैं। कल देह के अहंकार में ऐसे आ जाते हैं जैसे साण्डे। साण्डे को अहंकार बहुत होता है। इसमें एक कहावत है- सरमण्डल(सुरमण्डल) के साज से देह-अभिमानी साण्डे क्या जाने! .....ऐसे साण्डे लोग बाप के आगे भी गुर्झ-2 करते हैं। ऐसे फीलिंग आती है। बहुत देह-अभिमानी साण्डे हैं। (मु.ता.5.11.74 पृ.1 मध्यादि)
- एक तो काम महाशब्द है, पुरुषों की सत्यानाश कर देता है। जैसे ऊँट का मिसाल देते हैं। वह अपने ही मूत में खिसकता है। इनके पैर बहुत लम्बे होते हैं। यह भी मनुष्य हूँमन ऊँट हैं। घड़ी-2 अपने मूत में गिर पड़ते हैं। .....इसलिए माताओं ने पुकारा हमें नगन होने से बचाओ। (मु.ता.9.7.71 पृ.2 अंत)
- बाप से प्रतिज्ञा भी करते- बाबा, हम कब विकार में नहीं जावेंगे। आपसे तो 21 जन्मों का वर्सा ज़रूर लेंगे। फिर भी गिर पड़ते। स्त्री का मुख देखा और खलास। अकल ही चट हो जाती है। बाप कहते हैं, काम विकार पर जीत पाने से तुम जगतजीत बनेंगे। .....एक/दो को देखने से काम की आग लग जाती है। बाप कहते हैं, काम (-अग्नि की) चिता पर बैठ तुम कितने साँवरे बन गए हो। अब फिर तुमको गोरा बनाते हैं। (मु.ता.22.1.74 पृ.1 अंत)
- बाप कहते हैं, मेरी खातिर अब तुम पतित मत बनो। भल स्त्री सामने हो, तुम अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। देखते हुए नहीं देखो। (मु.ता.14.7.84 पृ.2 अंत)
- बहुत तूफान आवेंगे। बूढ़ा होगा 80 वर्ष का, उनको भी ऐसे तूफान आवेंगे बा(त) मत पूछो। खबरदार रहना है। कर्मेन्द्रियों से कोई विकर्म न करना है, नहीं तो सौणा पाप बन जाता है। (मु.ता. 2.6.71 पृ.4 अंत)
- रावण राज्य में ही यह विकार रूपी सर्प डँसता है। स्त्री को नागिन कहते हैं। खुद भी तो बड़े नाग हैं ना। यह भी बुद्धि में नहीं आता है- नाग बिगर नागिन कैसे कही जावेगी! उन्हों (सं+न्यासियों) ने स्त्री का नाम बिगाड़ा है। अब फिर बाप नाम बाला करते हैं। (मु.ता.9.8.71 पृ.4 मध्यांत)

- एक तो है काम-कटारी की मारामारी । दूसरी फिर यह मारामारी । काम के लिए स्त्री को भी मार देते हैं । (मु.ता.18.12.71 पृ.3 मध्यादि)
- कई पतित भी होते हैं । चलते-2 गिर पड़ते हैं, तो छिपकर फिर आए अमृत पीते हैं । वास्तव में जो (ज्ञान-) अमृत छोड़कर विष खाते हैं, उनको कुछ समय आने नहीं देते; परन्तु यह भी गायन है- जब अमृत बाँटा जाता था तो विकारी असुर छिपकर आए बैठते थे । कहते हैं, इन्द्रसभा में ऐसे (मूतपलीती) अपविल आकर बैठते । एक परी उस (पट+ना के) विकारी को ले आई फिर उनका क्या हाल हुआ ! विकारी तो जरूर गिर पड़ेंगे । .....कहते हैं, वह पत्थर (-बुद्धि) जाकर बना । अब ऐसे नहीं कि पत्थर वा (लकड़ बुद्धि) झाड़ कोई मनुष्य बनते हैं । नहीं, पत्थर बुद्धि बन गए हैं । (मु.ता.6.9.84 पृ.1 अंत)
- ऐसे तो पाण्डव भी किसी हिसाब से नारियाँ ही हो । आत्मा नारी है और परमात्मा पुरुष है । तो क्या हुआ ? आत्मा कहती है, आत्मा कहता है- ऐसे नहीं कहा जाता । कुछ भी बन जाओ; लेकिन नारी तो हो । परमात्मा के आगे तो आत्मा नारी है । आशिक नहीं हो, सर्व सम्बन्ध एक बाप से निभाने वाले हो । (अ.वा.21.3.83 पृ.96 मध्य)
- अधर कुमारों का ग्रुप है- कमल-पुष्पों का गुलदस्ता । प्रवृत्ति में रहते विघ्न-विनाशक (गणेश) की स्टेज पर रहते हो ना ? .....जैसे एक घण्टा सफल करते हो तो लाख गुणा जमा होता, ऐसे एक घण्टा वेस्ट जाता है तो लाख गुणा घाटा होता है । इसलिए अब वर्थ का खाता बन्द करो । हर सेकेण्ड अटेन्शन । (अ.वा.30.11.79 पृ.69 मध्य)
- ईश्वरीय दरबार में कोई असुर रह न सके । मूत पलीती मनुष्य को बैठने का हुक्म नहीं है । (मु.ता.15.3.77 पृ.3 आदि)
- पहले-2 दुर्योधन ही स्त्री को नगन करते हैं । ऐसे नहीं, स्त्री, पुरुष को नगन करती है । स्त्री में शर्म रहता है । पुरुष (निर्लज्ज) होते हैं । इसलिए दिखाया है, द्रौपदी की चीर उतारी थी । हर एक मनुष्य मात्र पुरुष दुर्योधन, स्त्री द्रौपदी । (मु.ता.13.4.73 पृ.5 अंत)
- मेल्स (नागे) भी ऐसे बहुत दवाइयों से (कर्मेन्द्रियों की चंचलता को) खत्म कर देते हैं, फिर नंगे रहते हैं । नहीं तो नंगा रहना मासी का घर नहीं । (मु.ता.21.4.73 पृ.3 मध्य)
- (पूज्य) अधर कुमारी, कुमारी कन्या का (यादगार) मंदिर भी है न । गृहस्थी से निकल कर फिर बाप के बच्चे बने हैं तो उन्होंने को अधर कहा जाता है । (मु.ता.24.4.73 पृ.4 मध्य)

### पवित्रता- संन्यासियों के सन्दर्भ में

- भ्रष्टाचारी का मतलब यह नहीं - चोरी, ठगी आदि करना । लॉ कहता है, जो भी विकार में जाते हैं वह भ्रष्टाचारी ही हैं । कहेंगे, संन्यासी तो विकार में नहीं जाते हैं; परन्तु वह भी जन्म तो (भ्रष्ट इन्द्रिय के) भ्रष्टाचार से लेते हैं ना । ..... संन्यासी भी भ्रष्टाचारी हैं; क्योंकि विख से पैदा होते हैं । (मु.ता.4.2.72 पृ.1 मध्यादि)
- जितना योगी बनते जावेंगे, कर्मेन्द्रियाँ शान्त होती जावेंगी । देह-अभिमान में आने से कर्मेन्द्रियाँ चंचल होती हैं । आत्मा जानती है हमको प्राप्ति हो रही है । शरीर से अलग होते जावेंगे । कर्मेन्द्रियाँ कमज़ोर होती जावेंगी । संन्यासी लोग दवाइयाँ खाकर कर्मेन्द्रियों को शान्त करते हैं । वह तो हठयोग हो गया ना । तुमको तो (सहजराज) योगबल से काम लेना है । योगबल से तुम वश नहीं कर सकते हो ? जितना आत्म-अभिमानी होते जावेंगे तो कर्मेन्द्रियाँ शान्त हो जावेंगी । (देहांकारी को) बड़ी मेहनत करनी पड़ती है । (मु.ता.6.8.76 पृ.3 मध्यादि)

- बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं। सन्यासी तो कहते हैं, यह हो नहीं सकता जो (मेल-फीमेल) दोनों इकट्ठे रह सकें। (मु.ता.26.12.85 पृ.1 अंत)
- अरविन्द घोष को 50-60 वर्ष हुए, अब तो देखो, कितने उनके आश्रम बन गए हैं! वहाँ कोई निर्विकारी बनने की बात थोड़े ही है। वह तो समझते हैं, गृहस्थ-व्यवहार में रहते पवित्र कोई रह नहीं सकता। सन्यासी खुद भी समझते हैं, हम ही नहीं रह सकते तो दूसरे को कैसे कहें! अभी तो सब तमोप्रधान हैं। माताएँ, सन्यासियों को फिर अपने गुरु बना बैठतीं। लज्जा नहीं आती कि उन्होंने तो हमारी हमजिन्स (माताओं) को तलाक दे दिया है। फिर भी उनको गुरु बनाती रहती हैं। गुरुओं की चेलियाँ बन जातीं। बहुत गन्दे बन जाते। बाप तो ऐसे नहीं कहते हैं। बाप कहते हैं, गृहस्थ-व्यवहार में रहते सिर्फ यह एक जन्म पवित्र बनो। जन्म-जन्मांतर तो पतित रहे ही। (मु.ता.7.9.75 पृ.3 मध्य)
- सन्यासी भी ऐसे नहीं कहेंगे, पवित्र बनो; क्योंकि खुद ही शादियाँ कराते हैं। अच्छा, मास-2 विकार में जाओ, गृहस्थियों को यह कहेंगे। ब्रह्मचारियों को ऐसे नहीं कहेंगे कि शादी नहीं करना है। (मु.ता. 18.7.89 पृ.2 मध्यांत)
- छोटे-2 मठ-पंथ निकलते रहते हैं। अरविन्द आश्रम है, कितनी जल्दी-2 वृद्धि को पाते हैं; क्योंकि उनमें विकार के लिए कोई मना नहीं करते हैं। .....गीता पाठी (मुख से) कहते भी हैं, भगवानुवाच- काम महाशत्रु है, उनको जीतने से ("कामजीते) जगतजीत" बनते हैं। .....बहुत प्यार से पूछना चाहिए- स्वामी जी! आपने सुनाया, काम महाशत्रु है, इनपर जीत पाने से जगतजीत, विश्व का मालिक बनेंगे, फिर आप यह तो बताते नहीं कि पवित्र कैसे बनो। (मु.ता.29.3.79 पृ.2 मध्य)
- ग्रन्थ पढ़ने पर बैठते हैं तो ऐसे भी नहीं सभी निर्विकारी होते हैं। पैदा तो सभी भ्रष्टाचार से ही होते हैं। फिर उनमें कोई अच्छे-बुरे होते हैं। कोई अच्छे, कोई बहुत विकारी भी होते हैं। सन्यासियों में भी ऐसे होते हैं। (बब्बर) शेर वाला सन्यासी था। पहले सन्यासी था, फिर गृहस्थी (टट्टू) बना है। कुमारियाँ आदि बहुत जाती थीं। आखरीन शादी कर ली। फिर बच्चे भी हुए। (ऐसे) दूसरे कोई से बच्चा हो जाए तो नाम बदनाम हो जाए। सन्यासी का तो और ही नाम बदनाम हो जाए। (मु.ता.14.1.71 पृ.3 मध्यादि)
- (महाव्यभिचारी राजाओं को थमाने से) उनका हठयोग अच्छा भी है, बुरा भी है; क्योंकि देवताएँ जब वाममार्ग में जाते हैं तो भारत को थमाने लिए (सन्यासियों की) पवित्रता झ़रूर चाहिए। तो उसमें भी मदद करते हैं। (मु.ता.31.10.84 पृ.3 आदि)
- कई (नाम के) वल्लभाचारी भी होते हैं, टच करने नहीं देते। तुम जानते हो, उन्होंने की आत्मा कोई निर्विकारी, पवित्र नहीं होती है। ...यह नहीं समझते कि हम विकारी, अपवित्र हैं। शरीर तो भ्रष्टाचार से पैदा हुआ है। (मु.ता.7.9.84 पृ.2 आदि)
- आँखें बहुत धोखा देने वाली हैं। इसलिए सन्यासी लोग आँखें बन्द कर बैठते हैं। स्त्री को पिछाड़ी में, पुरुष को आगे में बिठाते हैं। कई ऐसे भी होते हैं जो स्त्री को बिल्कुल देखते ही नहीं हैं। (मु.ता.20.5.76 पृ.1 मध्य)
- पूछा जाता है, आपने सन्यास क्यों किया? घरबार क्यों छोड़ा? कहते थे, विकार से बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। इसलिए घरबार छोड़ा जाता है। अच्छा, जंगल में जाकर रहते हो, फिर घरबार की याद आती होगी? बोला, हाँ। बाबा का देखा हुआ है, एक सन्यासी तो फिर वापस घर भी आ गया था। .....कुम्भ के मेले में बहुत छोटे-2 (नौजवान) नागे लोग आते हैं। दवाई खिलाते हैं, जिससे कर्मन्द्रियाँ ठण्डी पड़ जाती हैं। तुम्हारा तो है (मनसा-एकाग्रता के) योगबल से कर्मन्द्रियों को वश में करना। योगबल से बस(वश) होते-2 आखरीन (कर्म-इन्द्रियाँ) ठण्डी हो ही जाएँगी। (मु.ता.21.8.84 पृ.2 मध्य)

- पहले-2 (पुराने जमाने में) जब भीख माँगने आते थे तो आँखें नीचे कर सिर्फ कहते थे- माता ! "भिक्षा (म देहि)" । बस । ऐसे (भिखमंगे) के फिर माताएँ पैर बैठ छुएँ, क्या यह मान है? माताओं से यह काम कराना होता है क्या? इसलिए ममा ने इन सबको लिखा था, यह श्री-श्री 108 जगत्गुरु कहलाते हैं। अब वास्तव में जगत अर्थात् (5-7 अरब) सारी वर्ल्ड हो गई। (मु.ता.1.9.84 पृ.3 आदि)
- स्त्री, जिसको विधवा बनाकर चले जाते, जिनके लिए कहते- नर्क का द्वार है, स्त्रियों के ही गुरु बन बैठते हैं। ...अब तुम (ब्रह्मा-वत्स) तो उन गुरुओं से बच गए। (मु.ता.1.9.84 पृ.2 अंत)
- संन्यासी संन्यास करते हैं; इसलिए पवित्र आत्मा हैं। बाप ने समझाया है, वह भी सभी पुनर्जन्म लेते हैं। ...विष से जन्म ले फिर जब बड़े बालिग बन जाते हैं तो संन्यास कर लेते हैं। .....उन्हों को तो गृहस्थी घर में जन्म लेना पड़े। उनको कहा ही जाता है हृद (घरबार) का संन्यास। महान आत्मा, न कि महान परमात्मा। (मु.ता.19.8.89 पृ.1 अंत)
- यहाँ के संन्यासी भल पवित्र बनते हैं, फिर भी विकार से पैदा होते हैं। .....यह है निवृत्ति मार्ग के। स्त्रियाँ तो (सं+न्यास में) धन्वेष खा न सकें। यह सब अभी कलियुग में खराबियाँ हो गई हैं, स्त्रियों को भी संन्यासी बनाकर ले जाते हैं। फिर भी उन्हों की पवित्रता पर भारत थमा रहता है। जैसे पुराने मकान को पोची आदि लगाई जाती है तो जैसे नया (दिखावटी) बन जाता है। यह संन्यासी भी पोची दे कुछ बचाव करते हैं। (नई दुनियाँ स्वर्ग तो नहीं बनाते) (मु.ता.31.8.89 पृ.2 मध्यादि)
- विवेकानन्द और रामकृष्ण भी दो बड़े संन्यासी होकर गए हैं। संन्यास की ताकत रामकृष्ण में थी। बाकी भक्ति का समझाना-करना, वह विवेकानन्द का था। .....बाप ऐसे नहीं कहते कि स्त्री को माँ कहो। बाप तो कहते हैं, उनको भी आत्मा समझो। .....संन्यासियों की बात अलग है। उसने स्त्री को माँ समझा। माँ की बैठ (थोड़ी) बड़ाई की है। यह ज्ञान का रास्ता है, वैराग की बात अलग है। वैराग में आकर स्त्री को माँ समझा। माता अक्षर में क्रिमिनल आई नहीं होगी। बहन में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है। माता में कभी खराब रूपाल नहीं जाएँगे, बहन से आ जाते हैं। शादी भी कर लेते हैं। बाप की बच्चे में भी क्रिमिनल दृष्टि जा सकती है, माँ में कभी नहीं जाएगी। संन्यासी स्त्री को माँ समझने लगा। उनके लिए (तो) ऐसे नहीं कहते कि दुनिया कैसे चलेगी? पैदाइश कैसे होगी? (मु.ता.1.9.89 पृ.2 अंत)
- ऐसे नहीं यहाँ आकर (ही) रहना है, वह तो फिर संन्यास हो गया। घरबार छोड़ यहाँ आकर रहें। तुमको तो कहा जाता है, गृहस्थ-व्यवहार में रहते पवित्र बनो। (मु.ता.1.9.89 पृ.3 अंत)
- संन्यासियों की माला होती नहीं। वह हैं निवृत्तिमार्ग वाले। वह प्रवृत्तिमार्ग वालों को ज्ञान दे न सकें, पवित्र बनने के लिए। (मु.ता.19.8.89 पृ.2 अंत)
- सतोप्रधान संन्यासी जो थे वह (जंगल में भी) बहुत निडर रहते थे। जानवर आदि कोई से डरते नहीं थे। उस नशे में रहते थे। .....उनमें (पवित्रता के बल की) बड़ी कशिश होती थी। जंगल में (ही) भोजन मिलता था। दिन-प्रतिदिन तमोप्रधान होने से ताकत कम होती जाती है। (मु.ता.11.10.89 पृ.2 मध्यादि)
- पोप कितने की शादियाँ करते हैं। बाबा तो यह काम नहीं करते। संन्यासी, निवृत्तिमार्ग वाले भी शादी-सगाई करते हैं। भल खुद पवित्र हैं, फिर भी दूसरों को पतित बनाने शादी करते हैं। लोग इसको पतितपना नहीं समझते हैं। जबकि खुद पवित्र बनते हैं तो फिर औरों को (मूलपलीती) पतित क्यों बनाते हैं? (मु.ता.30.10.90 पृ.1 अंत)

## पवित्रता- वेश्याओं के संदर्भ में

- बाप कहते हैं, गणिकाओं आदि को उठाओ। सबसे डर्टी हैं वेश्याएँ। एक है कॉमन, दूसरी- खास। स्त्री और पुरुष में स्त्री है खास। बाकी वह कामन दुकान निकाल बैठती। सतयुग में ऐसी बातें नहीं होतीं। वह है ही शिवालय, बेहद का। अभी बेहद का वेश्यालय है। बिल्कुल तमोप्रधान हैं। इससे जास्ती मार्जिन नहीं। (मु.ता.9.1.74 पृ.3 आदि)
- बाबा को वण्डर लगता है, एक दिन गणिकाएँ आदि भी आकर समझ जावेंगी। पिछाड़ी में आने वाले तीखे हो जावेंगे। (मु.ता.29.1.79 पृ.2 मध्यांत)
- बाप ने समझाया है वेश्या है अधम ते अधम। वह अच्छी रीति आकर समझें। उन्हों को रहना तो फिर भी घर में ही है। ऐसे नहीं कि उनको बैठ हम खिलावेंगे, रहावेंगे। वह तो जैसे अपने घर में रहती है वैसे ही रहें। सिर्फ छुट्टी ले आकर पढ़े। (मु.ता.29.4.69 पृ.2 अंत)
- बाबा तो कहते रहते हैं, वेश्याओं को भी उठाना है। यह है ही वेश्यालय। भारत का ना म भी इन्होंने ही गिराया है। इसमें मुख्य चाहिए योगबल। यह बिल्कुल ही पतित हैं। पावन होने लिए याद की याता चाहिए। अभी वह याद का बल बहुत कम है। वेश्याओं को भी आत्मा समझ उठाओ, फिर धृणा नहीं आवेगी। आत्माएँ तो सब गिरी हुई हैं; परन्तु उनके लिए धृणा आती है। यह हैं नम्बरवन पतित। सो फिर नम्बरवन पावन बनना है। करके यह जन्म अच्छा था; परन्तु है तो नम्बरवन पतित न। तो इन गणिकाओं को भी उठाना है, तब तुम्हारा नाम बाला होगा। अपन को आत्मा निश्चय कर बोलेंगे कि हम भाई को समझाते हैं, तो फिर धृणा नहीं आवेगी; परन्तु वह अवस्था नहीं है। .....गणिकाओं का भी उद्धार तो करना है न। अच्छी-2 माताएँ अनुभवी हो जो जाकर समझावें। कन्याओं को तो अनुभव नहीं है। माताएँ समझा सकेंगी- हम भी ऐसे थीं। अब बाप कहते हैं, पवित्र बनो तो तुम विश्व का मालिक बन जावेंगी। यह दुनिया ही शिवालय बन जावेगी। .....ऐसे नहीं कि वेश्याएँ सुधर नहीं सकती हैं। यह भी आवेगी। तुम थोड़ा उठाती हो फिर हिम्मत छोड़ देती हो। वेश्याओं की ह्रेड को निमन्त्रण देना चाहिए कि सबको ले आओ। सतयुगी शिवालय में 21 जन्म ऊँच पद पा सकती हो। यहाँ तो कितना दुःख है। विषय सागर में गोता खाते रहते हैं। उन्हों की एसोसियेशन तो बहुत हैं। उनमें भी नम्बरवार होती हैं। कोई तो बड़ी साहुकार, अच्छे-2 मकान होते हैं। तुमको गवर्मेंट से सब पता पड़ सकता है। उन्हों को भी तुम समझाओ- बाप कहते हैं, अब प्रतिज्ञा करो पवित्र बनने की। निकलेंगी; परन्तु अब देह-अभिमान टूटा नहीं है। ऐसे पतितों को पावन बनाने (के) लिए योगबल की तलावार भी तीखी चाहिए। इसमें शायद अभी देरी है। वेश्याओं के लिए गवर्मेंट से बात करनी चाहिए। समझाने वालों में भी नम्बरवार हैं। ...वेश्याएँ-गणिकाएँ भी आवेगी, जो तुमसे भी तीखी हो जावेंगी। बड़ी फर्स्ट क्लास गीत गाने, भाषण करने लग पड़ेंगी। ऐसे फर्स्ट क्लास गीत बनावेंगी, जो सुनते ही खुशी का पारा चढ़ जाए। ऐसे गिरे हुए को तुम समझा कर उठाओ, तब तुम्हारा नाम भी बहुत ऊँच होगा। कहेंगे, यह तो वेश्याओं को भी इतना ऊँच बनाते हैं। खुद ही कहेंगे, हम तो शूद्र थे, अभी ब्राह्मण बने हैं, फिर हम सो देवता, सो क्षत्रिय बनेंगे। .....वेश्याएँ भी पुरुषार्थ कर माला का दाना भी बन सकती हैं, क्योंकि बहुत दुःखी हैं न। वह जोर से पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगी। आगे चल यह सब तुम देखेंगे। (मु.ता.31.1.74 पृ.2 अंत, 3 आदि-अंत)

## पवित्रता- बच्चों के संदर्भ में

- बच्चे तो होते ही शुद्ध हैं। बाबा भी कहते हैं- बच्चे तो फूल हैं। उनमें विकार की दृष्टि नहीं होती। जब बड़े होते हैं तब दृष्टि जाती है। इसलिए बालक और महात्मा को समान कहते हैं। बल्कि महात्मा से भी ऊँच है। महात्मा को फिर भी मालूम है- हम

भ्रष्टाचार से पैदा हुआ हूँ। छोटे बच्चे को यह मालूम नहीं रहता है। ..... बच्चों को छोटेपन से ही ज्ञान मिलता जाए तो बहुत बच सकते हैं। छोटे बच्चे अबूझ होते हैं; परन्तु फिर बाहर स्कूल आदि में संग का रंग लग जाता है। संग तारे कुसंग बोरे। (मु.ता.6.9.84 पृ.3 मध्य-अंत)

- मूल बात है, काम पर जीत पाने से ही जगतजीत बनेंगे। यह तो बच्चों पर रहा। जवानों को (कामजीत बनने की) बहुत मेहनत करनी पड़ती है। बुढ़ियों को कम। वानप्रस्थ अवस्था वालों को और कम। बच्चों को बहुत कम। (मु.ता. 6.9.84 पृ.3 अंत)

### पवित्रता- आदि सो अंत

• वह माता-पिता तो विख का वर्सा देते हैं। देखो, गवर्मेंट ने भी विख पर केस किया; परन्तु खुद ही मूँझ जाते हैं कि क्या करें? यह तो कहती हैं, हम पवित्र बन भारत को पावन बनाने चाहते हैं तो हम कैसे कहें कि अपवित्र बनो। हमारे ऊपर दोष आ जाए। खुद ही मूँझ जाते हैं। कोई भी जज ऐसे नहीं कहेगा कि तुमको काम-कटारी ज़रूर चलानी है। ऐसी जजमेंट कोई दे न सके। अन्दर विवेक खावेगा। ऐसा केस चला था फिर वहाँ ही छोड़ दिया। बाबा को कलेक्टर आदि ने कहा कि दादा, इनको कह दो कि विख देवे, नहीं तो बहुत हँगामा होगा। आप को मार डालेंगे, यह करेंगे; परन्तु बाबा कैसे कहेंगे; परन्तु बाबा कहते थे, मोह की रग न रहनी चाहिए। (मु.ता.22.6.73 पृ.4 मध्यादि)

• लोक-लाज, कुल की मर्यादा में भी बहुत फँसे रहते हैं। कहते हैं- बाबा, क्या करें, सब फट लैहनत(दबाव) डालते हैं कि बच्ची को घर में बिठा दिया है। इनको निकालो। अरे! बेहृद का बाप कहते हैं, गटर में न डालो। बाबा ने इनमें प्रवेश कर सब कुछ इनसे कराया ना। कोई की भी परवाह नहीं की। कितनी गालियाँ आदि खाई। न मन, न चित। रास्ते चलते-2 ब्राह्मण फँस गया। बाबा ने ब्राह्मण बनाया तो गाली खाने लग पड़े। सारी पंचायत थी एक तरफ, दादा दूसरी तरफ। सारी सिध की पंचायत कहे कि यह क्या करते हो। अरे! गीता में भगवानुवाच्य है ना- काम महाशत्रु है। इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। यह तो गीता के अक्षर हैं। (मु.ता.8.8.75 पृ.3 आदि)

• शुरू में बाबा बहुत कड़ी वाणी चलाते थे। डॉग इन दा मेन्जर- ऐसे-2 अक्षर कहते थे। ना खुद अमृत पीते हो, ना औरों को पीने देते हो। बड़े-2 आदमी आते थे। बाबा की बड़ी जोर से वाणी चलती थी। विख ना मिलने से बड़ा हँगामा कर दिया। कोर्ट में बाबा को कहने लगे- उनको कहो, तुम विख दो। अरे! हम तो (गीता में) भगवान के महावाक्य सुनाते हैं- ‘काम महाशत्रु है।’ (दे. गीता-3/37-39,41 व 43; 5/23-26; 16/10-11-21 आदि) पावन बनना है। यह तो गीता के वचन हैं। मैं क्या कहूँ? बोले, नहीं, तुम कहो। अच्छा, कह देता हूँ। दिल में समझता था, बच्चियाँ भी समझती हैं। वो ऐसे थोड़े ही मान जावेगी। राज्य करने लिए युक्ति रचनी पड़े। (मु.ता.21.4.69 पृ.4 आदि)

• देखो, शुरू-2 में जब तपस्या के बाद सेवा पर निकले तो आप सबको किस रूप में देखते थे? देवियाँ समझते थे ना! उन्हों को साधारण स्वरूप नहीं दिखाई देता था, देवी रूप दिखाई देता था। देवियाँ आई हैं, कुमारियाँ नहीं। (अ.वा.6.4.95 पृ.207 मध्य)

• आदि स्थापना से लेकर अब तक पवित्रता पर ही विप्र पड़ते आए हैं; क्योंकि पवित्रता का फाउण्डेशन 21 जन्मों का फाउण्डेशन है। (अ.वा.14.11.87 पृ.132 अंत)

• आदि में जब ब्रह्मा बाप निमित्त बने तो गाली किस बात के कारण खाई? पवित्रता के कारण ना। नहीं तो कोई बड़े आयु वाले की भी हिम्मत नहीं थी जो ब्रह्मा बाप के पास्ट लाइफ में भी कोई अंगुली उठाए। ऐसी पर्सनालिटी थी; लेकिन पवित्रता के कारण गाली खानी पड़ी और इस परमात्म ज्ञान की नवीनता ही पवित्रता है। (अ.वा.16.11.95 पृ.24 आदि)

- कोई-2 विख पर कितना झगड़ा करते हैं। बिरादरी से भी निकालने देरी नहीं करते। शुरू से लेकर यह झगड़ा चलता आया है। शुरू में भी उन्हों को कहा गया था कि छुट्टी ले आओ कि हम ज्ञान-अमृत पीने जाती हैं। सभी ने फट से चिट्ठी लिखकर दे दी। उनको यह थोड़े ही पता था, हमारा विख बन्द हो जावेगा। .....जहाँ-तहाँ इस पर ही हंगामा होता आया है। समझते हैं, यहाँ जाने से मूत पीना बन्द हो जाता है। (मु.ता.6.4.69 पृ.1 अंत)
- विलायत तक यह आवाज़ गया था कि इनको 16108 रानियाँ चाहिए। उनसे 400 मिल गई हैं; क्योंकि उस समय सतसंग में 400 आते थे। फिर वहाँ पहले-2 जादू लगा मेहतरानी को। हाहाकार मच गया। मेहतरानी को भी जादू लग गया। (मु.ता.12.9.84 पृ.2 आदि)
- बाप कहते हैं, गृहस्थ-व्यवहार में रहते पवित्र बनो। इस पर ही मुसीबत आती है। कहते थे, यह स्त्री-पुरुष के बीच में झगड़ा डालने वाला ज्ञान है; क्योंकि एक पवित्र बने, दूसरा न बने, तो मारामारी चल पड़े। इन सबने मारें खाई हैं; क्योंकि अचानक नई बात हुई ना। सब आश्र्य खाने लगे, यह क्या हुआ जो इतने सब भागते हैं। मनुष्यों में समझ तो नहीं है। इतना कहते थे, कोई ताकत है। .....आगे कोई सतसंग आदि में जाने के लिए रूकावट थोड़े ही होती थी। कहाँ भी चले जाते थे। यहाँ पवित्रता के कारण विघ्न पड़ते हैं। (मु.ता.20.9.89 पृ.3 मध्य)

### पवित्रता- कैसे ?

- किसी भी प्रकार का दृढ़ संकल्प रूपी व्रत लेना अर्थात् अपनी वृत्ति को परिवर्तन करना। दृढ़ व्रत, वृत्ति को बदल देता है। इसलिए ही भक्ति में व्रत लेते भी हैं और व्रत रखते भी हैं। व्रत लेना अर्थात् मन में संकल्प करना और व्रत रखना अर्थात् स्थूल रीति से परहेज करना। चाहे खान-पान की, चाहे चाल-चलन की, लेकिन दोनों का लक्ष्य व्रत द्वारा वृत्ति को बदलने का है। आप सभी ने भी पवित्रता का व्रत लिया और वृत्ति श्रेष्ठ बनाई। सर्व आत्माओं के प्रति क्या वृत्ति बनाई ? आत्मा भाई-भाई हैं, ब्रदरहुड़- इस वृत्ति से ही ब्राह्मण महान आत्मा बने। यह व्रत तो सभी का पक्का है ना ? (अ.वा.23.12.93 पृ.76 आदि)
- प्यूरिटी की परिभाषा तुम बच्चों के लिए अति साधारण है, क्योंकि स्मृति आई कि वास्तविक आत्म स्वरूप है ही सदा प्योर। अनादि स्वरूप भी पवित्र आत्मा है और आदि स्वरूप भी पवित्र (आदि) देवता है और अब का अन्तिम जन्म भी पवित्र ब्राह्मण जीवन है- इस स्मृति के आधार पर पवित्र जीवन बनाना अति सहज अनुभव करते हो। (अ.वा.14.1.79 पृ.211 अंत, 212 आदि)
- हम सब एक बाप की सन्तान रुहानी भाई हैं- यह अलौकिक दृष्टि की स्मृति रहने से देहधारी दृष्टि अर्थात् लौकिक दृष्टि, जिसके आधार से विकारों की उत्पत्ति होती है, वह बीज ही समाप्त हो जाता है। जब बीज समाप्त हो गया, तो फिर अनेक प्रकार के विस्तार रूपी वृक्ष विकारों का स्वतः ही समाप्त हो जाता है। (अ.वा. 5.6.77 पृ.213 आदि)
- हर भाई महावीर है, हर बहन शक्ति है। महावीर भी राम का है, शक्ति भी शिव की है। किसी भी शरीरधारी को देख सदा मस्तक के तरफ आत्मा को देखो। ...नज़र ही मस्तक मणि पर जानी चाहिए। तो क्या होगा? आत्मा-2 को देखते स्वतः ही आत्म-अभिमानी बन जाएँगे। (अ.वा.27.4.83 पृ.167 मध्य)
- दिव्य नेत्र से देखते हो वा इस चमड़ी के नेत्रों से देखते हो? दिव्य नेत्र से सदा स्वतः ही दिव्य स्वरूप ही दिखाई देगा। चमड़े की आँखें चमड़े को देखती। चमड़ी को देखना, चमड़ी का सोचना- यह किसका काम है? (चमार का)। (अ.वा.27.4.83 पृ.166 अंत)

## पवित्रता और बच्चों की पैदाइश

- मनुष्य तो यह भी नहीं जानते कि सतयुग में विकार (हिसंक कर्म) बिगर कैसे बच्चे पैदा होते होंगे। कई लोग कहेंगे, वहाँ विकार होता ज़रूर है; परन्तु इतना नहीं। जैसे यहाँ भी सन्धासी, गुरु लोग समझाते हैं- वर्ष में एक बार वा मास में एक बार विकार में जाओ; परन्तु बाप तो फट से कहते हैं- यह ‘काम महाशतु’ है। उन पर पूरी जीत पानी है। सम्पूर्ण निर्विकारी बनना है। वहाँ तो रावण ही नहीं होता तो विकार की बात ही नहीं। सिक्ख लोग भी कहते हैं हराम खोर। (छुप कर) मूत पलीती (होते) हैं ना! यह भार खाना है। (मु.ता.9.4.72 पृ.1 मध्य)
- वह (सतयुग-तेता) तो वाइसलेस दुनिया थी। वहाँ विकारी बनना नहीं होता। कहते हैं, तब बच्चे कैसे पैदा होंगे? अरे, वह तो जो (मोर जैसी) रसम होगी वैसे होंगे। बच्चे तो ज़रूर पैदा होते; परन्तु वह तो है सम्पूर्ण निर्विकारी दुनिया। समझो, योगबल से पैदा होते हैं। पहले साक्षात्कार होता है। मुख (का) प्यार होता है। इसलिए कहा जाता है मुखवंशावली। यह बड़ी गुह्या बातें हैं। नए को इन बातों में नहीं लाना है। (मु.ता.28.11.73 पृ.3 आदि)
- इस समय विचार किया जाता है, सभी (भ्रष्ट कामेन्द्रिय के) भ्रष्टाचार से पैदा होते हैं। तो तुम बच्चों से पूछते हैं, वहाँ जन्म कैसे होंगे? बोलो, वहाँ 5 विकार होते ही नहीं। वहाँ ही ही योगबल। योगबल से सारे विश्व को पवित्र बना सकते हो, योगबल से तुम विश्व का मालिक बन सकते हो तो बच्चे क्यों नहीं होंगे! वह पहले ही साक्षात्कार होता है कि अब बच्चा आने वाला है। नंगन होने की बात ही नहीं रहती। नंगन होने वाले (करने वाले) को तो दुशासन-द्रौपदी कहा जाता है। इस समय दोनों पुकारते हैं। वह कहते हैं- बाबा, दुशासन हमको नंगन करते हैं, वह कहते हैं- बाबा, यह द्रौपदी नंगन करती है। (पूतना-सूपनखाओं के) ऐसे भी ढेर केस हैं। दोनों रिपोर्ट लिखते हैं। इस समय ही पुकारते हैं; क्योंकि संगमयुग है। सभी तो पवित्र नहीं बनते हैं। (मु.ता.14.1.71 पृ.3 मध्य) मु.13.1.69
- इन (बिरला मंदिर के) ल.ना. को तो मूत-पलीती नहीं कहेंगे ना। इन्हों को कहते ही हैं सम्पूर्ण निर्विकारी। बच्चे तो पैदा होंगे ना। ऐसे तो नहीं कोई डब(घास) से पैदा होंगे। (मु.ता. 5.7.75 पृ.2 अंत)
- देवताओं की कब विकार की वृष्टि नहीं हो सकती। ज्ञान से फिर वृष्टि ही बदल जाती है। सतयुग में ऐसे थोड़े ही प्यार नहीं करेंगे! डान्स करेंगे, भाकी आदि पहनेंगे। प्यार करेंगे; परन्तु विकार की बास नहीं। जन्म-जन्मांतर विकार में गए हैं तो वह नशा बहुत मुश्किल उत्तरता है। (मु.ता.27.6.74 पृ.2 मध्यांत)
- सतयुग में कोई नंगन होता नहीं। ...विकार बिल्कुल नहीं। बच्चा तो जहाँ से पैदा होना होगा वहाँ से (ही) होगा। आत्मा आकर प्रवेश करती है तो उसी समय गर्भ में बिल्कुल प्योर रहती है। (मु.ता.13.4.73 पृ.6 आदि)

## पवित्रता और पोतामेल

- बाबा किसको कह न सके, तुम (हमारे) फॉलोअर हो। जब गारंटी करे पावन बनने की तब बात। इसमें प्रतिज्ञा करनी पड़े। खुद ही लिख भेजते हैं- बाबा, हम गिर गया। ऐसे नहीं लिखते कि बाबा, हम गटर में गिरा, काला मुँह कर दिया। यह लिखने (में भी) लज्जा आती है। यह तो बड़ी भारी चोट है। फिर बाप साथ बुद्धियोग लग न सके। पतित पर तो हम बहुत नफरत करते हैं। पतित माना भीलनी। वह भार उठाते भी हैं, खाते भी हैं। विख भार है ना। यह फिर भार खाते हैं। बाप कहते हैं, भार खाने वाले बहुत खराब हैं। (मु.ता.28.11.71 पृ.2 अंत, पृ.3 आदि)

- गारंटी की जाती है हम विकारों में नहीं जावेंगे। यह है सबसे पुराना दुश्मन। इनपर ही जीत पानी है। कोई-2 तो लिखते हैं- बाबा, हमने हार खाई। कोई तो बतलाते भी नहीं। एक तो नाम बदनाम करते हैं, सद्गुरु की निन्दा कराते हैं, तो वह अपना ही नुकसान करते हैं। (मु.ता.6.6.77 पृ.2 मध्य)
- इसमें (पविलता) में फेल होते हैं तब कहते हैं- बाबा, आज हमसे यह हो गया। बहुत गिरते हैं। भाकी भी पहन लेते हैं। फिर कोई सच लिखते हैं- हमसे यह भूल हुई। कोई सच नहीं बतलाते हैं। (मु.ता. 29.11.74 पृ.3 मध्य)
- बाबा कहते, अपनी (वि-कारों की) जन्मपती बताओ। बाप को सुनावेंगे नहीं तो वह वृद्धि हो जावेगी। झूठ चल न सके। तुम्हारी वृत्ति खराब होती जावेगी। बाप को सुनाने से कुछ थम जावेगी। सच बताना चाहिए, नहीं तो बिल्कुल (कामुक,) महारोगी बन जावेंगे। (मु.ता.16.7.74 पृ.3 मध्य)
- बाबा हमेशा कहते हैं, अपनी (दुर्गुणों की) जीवन कहानी बाबा को लिख भेजो। कोई तो बिल्कुल सच लिखते हैं, कोई छिपाते भी हैं। लज्जा आती है। यह तो जानते हैं बुरा कर्म करने से उनका फल भी बुरा मिलेगा। (मु.ता.16.4.75 पृ.1 अंत)
- कोई बच्चा बाहर में किसके खराब संग में आ जाता है। बाप को मालूम पड़ेगा तो बाबा झट कहेंगे- कामी कुत्ता, नेहलत है। बेहद का बाप भी लिख देते हैं। कोई विकार में जाते हैं और बाबा को नहीं बताते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। न बताने से उस बीमारी की वृद्धि होती रहेगी, गिरता रहेगा। बाबा को समाचार लिखते हैं तो लिखता हूँ- तुम तो कुल-कलंकित बन गए। विकार में जाने कारण अपन को देवता (-धर्म के) कह न सके। अपन को ही चमाट लगाई। (मु.ता.19.1.74 पृ.3 मध्यादि)
- अपनी सम्भाल रखनी है। बेहद के बाप को भी सच कभी नहीं बताते हैं। कदम-2 पर भूलें तो रोज़ करते ही होंगे, जब तक अभूल बनें; परन्तु सच कोई बताते थोड़े ही हैं। (मु.ता.23.7.89 पृ.2 मध्यादि)
- चार्ट में यह भी (लिखना) चाहिए, आज सारे दिन में कौन-2 सी कर्मेन्द्रियों ने हमको धोखा दिया। सभी से जास्ती दुश्मन हैं यह (आँखें)। तो यह लिखना चाहिए, फलानी को देखा, हमारी दृष्टि गई, दिल हुई हाथ लगावें। .....जो समझू बच्चे हैं उनको अपने पास डायरी में नोट करना चाहिए, फलानी को देखा तो हमारी दृष्टि गई। फिर अपन को आपे ही सज्जा दो। भक्तिमार्ग में भी पूजा के टाइम बुद्धि और तरफ भागती है तो अपने को चुण्डरी पहनते हैं। (मु.ता.20.5.71 पृ.1 मध्यादि) मु.20.5.76
- (बेहद का) बाप कहते हैं- बच्चे, जो भी पाप कर्म किए हों, मैं अविनाशी वैद (वैद्यनाथ) हूँ, सर्जन को सुनाने से तुम हल्के हो जावेंगे। (मु.ता.14.1.71 पृ.3 अंत)
- फलाने की क्रिमिनल आइज़ अभी तक गई नहीं है। अभी गुप्त समाचार आते हैं। आगे चल और भी एक्युरेट लिखेंगे। खुद भी फील करेंगे, हम तो इतना समय झूठ बोलते, गिरते आए हैं। ज्ञान पूरा बुद्धि में बैठा नहीं था। यही कारण था जो हमारी अवस्था नहीं बनी। बाप से हम छिपाते थे। (मु.ता. 26.7.89 पृ.2 अंत)
- ऐसा कर्म करें जो विकर्म न बनें। विकर्म करने से दिल खाती ज़रूर है। बाबा को आकर सुनाते भी हैं, उसमें भी मुख्य बात बाबा पूछते हैं- विकारी काम किया है? नंगन हुए हो तो वह बताओ; क्योंकि काम महाशतु है ना। (मु.ता.9.12.90 पृ.2 अंत)

### पविलता से संबंधित फुटकर प्लाइट्स

- बाप आते भी हैं (गंगा-यमुना का दुआबा) मगध देश में, जो कि बहुत गिरा हुआ देश है, बहुत पतित है, खान-पान भी बहुत गन्दा है। (मु.ता.5.9.89 पृ.2 अंत)

- बाप समझते हैं राधे-कृष्ण दोनों गोरे थे, फिर काम चिक्षा पर बैठ साँवरे हुए। एक गोरा, एक साँवरा तो हो न सके। कृष्ण को श्याम+सुन्दर कहते हैं, राधे को श्यामसुन्दरी क्यों नहीं कहते? यह फर्क क्यों रखा है? जोड़ा तो एक जैसा होना चाहिए। (मु.ता.1.5.72 पृ.2 अंत)
- भगवान देते हैं स्वर्ग की बादशाही; परन्तु पवित्र बनना पड़े। गृहस्थ-व्यवहार में रहते भी पवित्र रह दिखावे। बाप कहते हैं 63 जन्म तुम अपवित्र बने हो, अब एक (अंतिम) जन्म तो पवित्र बनना है। गाया जाता है कोटों में कोऊ। बाप की भल सुनते हैं फिर कहाँ संगदोष में फँस पड़ते हैं। भारत निर्विकारी था तो (को है नूर) हीरे जैसा बहुत सुखी था। यह है ही बिछू-टिण्डन, सर्प-सर्पिणी की दुनिया। (राति क्लास मु.ता. 24.5.72 अंत)
- कोई चोरी करता है, झूठ बोलता है वा कोई भी विकार वश होता है, जिसको अपवित्रता के संकल्प वा कर्म कहा जाता है, वह (चोरी-छिपे) अकेलेपन में ही होता है। अगर सदा अपने को बाप के साथ-2 अनुभव करो तो फिर यह कर्म होगे ही नहीं। (अ.वा.31.5.72 पृ.296 मध्य)
- कृष्ण गोरा था, फिर काला कैसे हुआ, यह कोई जानते नहीं। कहते हैं सर्प ने डसा। वास्तव में है यह पाँच विकारों की बात। काम चिक्षा पर बैठने से काले बन जाते हैं। (मु.ता.4.6.72 पृ.1 मध्यादि)
- पवित्र बनना तो अच्छा है ना। बच्चे भी नहीं पैदा होंगे। मैं आकर पवित्रता का कंट्रैक्ट उठाता हूँ। 5 वर्ष के अन्दर हम पवित्र दुनिया बनाकर दिखावेंगे। कल्प-2 हम कन्ट्रैक्टर को ही बुलाते हैं कि हे पतित-पावन आओ। दूसरा कोई ऐसा कंट्रैक्टर होता नहीं। साधु-संत आदि कोई कुछ कह न सके। यह एक ही कंट्रैक्टर मिला हुआ है। मैं ही पावन दुनिया बनाऊँगा। कल्प-2 मैं आकर अपना (पतित-पावन का) भी कंट्रैक्ट पूरा करता हूँ। .....संन्यासियों को फिर भी कंट्रैक्ट मिला हुआ है भारत को थमाने का। (मु.ता.28.11.71 पृ.3 आदि)
- मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काटने। समझते हैं गंगा पतित-पावनी है। अच्छा फिर अमरनाथ, बद्रीनाथ, रामेश्वरम् आदि में क्यों जाते हो? (मु.ता.22.6.73 पृ.1 मध्यांत)
- (बेहद का) बाप कहते हैं तुम मेरी (मत) पर न चलकर पतित बनते हो तो सौगुना दण्ड पड़ जाता है। मेरी निन्दा कराते हैं ना। बगुलों की तरफ गए, वह तो खुश होंगे। तो ऐसे पर फिर दण्ड बहुत पड़ जाता। चण्डाल का जन्म, वह भी तो चाहिए न। (मु.ता.30.4.74 पृ.3 आदि)
- बाबा से पूछ सकते हो। कई पूछते भी हैं- बाबा, हमारे बच्चे की दिल लग गई है, अब क्या करें? चाहते हैं लव मैरेज करने। बाप कहते हैं, ऐसा है तो तुमको खर्चा करने की दरकार नहीं है। उनका लव मैरेज है, तुम क्यों खर्चा करते हो! एक साड़ी में भी दे देते हैं। वह जाने आपस में। इस हालत में उनकी दवादर्मल भी कुछ नहीं है। उनसे छूटना बड़ा मुश्किल है। फिर झगड़े भी घर में बहुत हो पड़ते हैं। हर हालत में झगड़ा। विकार के लिए झगड़ा। (मु.ता.30.4.74 पृ.2 मध्य)
- साहूकारों का आवाज़ अच्छा होता है। समझेंगे, पवित्रता तो अच्छी है। यह समझाना है पवित्रता से कैरेक्टर्स भी सुधरते हैं और फिर मनुष्य सृष्टि भी बढ़ेगी नहीं; मुठ भर हो जावेगी। अखबार वाले भी डालेंगे कि यहाँ यह समझाया गया। यह (सन्नद्ध महाभारत) विनाश ही पीस का निमित्त कारण है। (मु.ता.29.11.74 पृ.2 अंत)

- अब कहते महात्मा गाँधी, वास्तव में उनको महात्मा तो कहना न चाहिए। जो खुद ही पुकारते हैं “हे पतित-पावन ! (सीता-राम) आकर पावन बनाओ” फिर उनको महात्मा कैसे कहेंगे? पतित को फिर माथा थोड़े ही टेका जाता ! माथा पावन के आगे झुकाया जाता है। (मु.ता.14.7.74 पृ.3 मध्य)
- यह पढ़ाई तो 21 जन्मों लिए है; परन्तु गटर में गिरने से घाटा बहुत-2 पड़ जाता है। वह फिर कल्प-कल्पांतर का घाटा पड़ता जावेगा। बाप कहते हैं- बच्चे, काला मुँह न करो, फिर भी तुम काला मुँह कर देते हो ! ऐसे बहुत हैं जो काला मुँह कर फिर छुप-छुपकर बैठ जाते हैं। उनको कब भी हज़म नहीं होगा। बदहाज़मा हो जाता है। जो सुनेंगे वह बदहाज़मा हो जावेगा। मुख से किसको कह न सकें। भगवानुवाच्य काम महाशत्रु है। उनपर जीत पानी है। खुद ही जीत नहीं पाते तो औरों को कैसे कहेंगे। अन्दर खावेगा ना ! उनको कहा जाता है आसुरी सम्प्रदाय। अमृत पीते फिर विष खा लेते तो सौगुना काले हो जाते हैं, हडगुड ही टूट जाते हैं। तुम माताओं का तो संगठन बहुत अच्छा होना चाहिए। (मु.ता.7.9.75 पृ.1 अंत)
- पुरी में चिल दिखाए हैं, ड्रेस देवताओं की और फिर चिल बहुत गन्दे लगे पड़े हैं। नीचे पवित्र फिर ऊपर में दिखाते हैं देवता एँ, कैसे वाममार्ग में गिरे। कब गिरे, यह नहीं जानते। (मु.ता.17.4.69 पृ.3 अंत)
- अभी यह राज़ भी किसको बताना चाहिए, जो फैमिली प्लैनिंग के मिनिस्टर्स होते हैं उन्हों को समझाना चाहिए। बोलो , फैमिली प्लानिंग की छ्यूटी तो गीता के कैनून (कायदे) अनुसार (बेहद के) बाप की ही है। गीता को तो सभी मानते ही हैं। गीता है ही फैमिली प्लैनिंग का शास्त्र। गीता से ही बाप बैठ नई दुनिया स्थापन करते हैं। (मु.ता. 21.4.69 पृ.1 आदि)
- शास्त्रों से(में) दिखलाते हैं सबके विकार ले -लेकर (शंकर का) गला ही काला हो गया। (मु.ता.4.9.84 पृ.3 मध्य)
- कृष्ण को ही श्याम+सुन्दर कहते हैं। ऐसे नहीं कि कोई तक्षत(तक्षक) सर्प ने डंसा, तब काला हुआ। यह तो काम चिता पर चढ़ने से मनुष्य काला होता है। राम को भी काला दिखाते हैं। उनको भला किसने डसा ? (मु.ता.14.8.91 पृ.2 मध्यांत)
- भारत स्वर्गवासी था। कृष्णपुरी में था। अभी नर्कवासी है। तो तुम बच्चों को तो बड़ा खुशी से विकारों को छोड़ना चाहिए। मूत पीना फट से छोड़ना है। मूत पीते-2 तुम वैकुण्ठ में थोड़े ही जा सकते हो। (मु.ता.9.11.74 पृ.2 मध्यांत)
- यह (ब्रह्मा) भी तो पतित था। सारी आयु 60 वर्ष पूरा पतित रहा। (मु.ता.14.1.71 पृ.3 अंत)
- खुद पवित्र रहते नहीं, दूसरे को कहते हैं तो वह पण्डित हो गया। (मु.ता.2.9.84 पृ.1 आदि)
- देवताओं का कैरेक्टर्स कैसे बिगड़ता है? जब वाम मार्ग में जाते हैं अर्थात् विकारी बनते हैं। जगन्नाथ के मंदिर में ऐसे चिल दिखाए हैं, वाम मार्ग के। ...काम चिता पर चढ़ते हैं, फिर रंग बदलता-2 बिल्कुल काले हो जाते हैं। फट से काले नहीं होते हैं। (मु.ता.5.8.84 पृ.1 मध्यांत)
- मुझे तुम निमन्त्रण देते हो कि इस पतित रावण की दुनिया में आओ। .....आएँगे भी ज़रूर गृहस्थ मार्ग में। (मु.ता. 3.8.84 पृ.3 मध्य)
- बाप से सर्व सम्बन्ध हैं; लेकिन हरेक (पति-पिता आदि) सम्बन्ध की अनुभूति और प्राप्ति अपनी-2 है। तो सर्व सम्बन्धों की अनुभूति वा प्राप्ति में मग्न रहो तो पुरानी दुनिया के वातावरण से सहज ही उपराम रह सकते हो। हर कर्य के समय भिन्न -2 सम्बन्ध का अनुभव कर सकते हो और उसी सम्बन्ध के सहयोग से निरन्तर (बुद्धि के) योग का अनुभव कर सकते हो। (अ.वा.5.12.79 पृ.84 अंत)

- सर्व समर्पण किसको कहा जाता है? सर्व में यह देह का भान भी आता है। देह ले लेंगे तो (अंग) देनी भी पड़ेगी; लेकिन देह का भान तोड़कर समर्पण बनना है। (अ.वा.25.1.69 पृ.27 आदि)

## ओमशांति

### Contact Us

#### Address

A-351-352, Vijayvihar, Phase-1, Rithala, Delhi- 110085

**Mobile** - 9891370007, 9311161007

**Email** - a11spiritual1@gmail.com

**Website** – WWW.PBKS.INFO/ADHYATMIK-VIDYALAYA.COM

**Youtube** – ADHYATMIK-VIDYALAYA OR AIV

@A1SPIRITUALUNIVERSITY

**Twitter** - @adhyatmikaivv

**Instagram** - @adhyatmikvidyalaya

**Linkedin** – linkedin.com/company/adhyatmik-vidyalaya

---